

प्रकाशन

मोहनसाल भट्ट

मंत्री

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति

हिन्दूनगर बधा

● \* ●

मराठिसार गर्जान  
प्रथम गम्भीर—२०  
मा १९६२  
मत्य-द ५/-  
● \* ●

मराठा

मोहनसाल भट्ट

राष्ट्रभाषा सम

हिन्दूनगर बधा



महात्मा गांधी  
[आदि गण्डमाणा प्रचारक]

## प्रवास

मोहनलाल भट्ट

मात्री

गांधीभाषा प्रचार समिति

हिन्दीनगर वडा

• • •

गवाहिकार गरणित

प्रथम संस्करण—२०

मा १९६२

मत्य-द ५/-

• • •

## मात्री

मोहनलाल भट्ट

गांधीभाषा "म

हिन्दीनगर वडा



महात्मा गांधी  
[आदि गणभाण प्रचारक]



## निवेदन

हमारी यह हार्मिक इच्छा था कि समितिको रजत जयलील मुअबसरपर ही इस प्रयोगो प्रशान्ति दिया जाना जिन्हें कुछ अनिवार्य बठिनाइयाके कारण एमा न हो सका। इसका हम दुष्य ह पर साय हा सलाय भी। इसके द्यपनमें विनम्र हा जानक कारण एस अनव राष्ट्रभाषा प्रमियाके लाल व परिचय भा हमें प्राप्त हो गय जा निश्चारित रामयनका नहीं प्राप्त हो सक थ। उन सभीका अब इस प्रथमें स्थान दिया गया ह।

“स प्रयक निए जिन जिन वायुआन अपन फारा व परिचय भजकर हमार कायका हल्का दिया ह हम उनक आमारी ह और उनक भी जिन्हान प्रत्यक्ष अवका अप्रत्यक्ष हपस इस कायमें अपना सहयोग दिया ह।

आगा ह राष्ट्रभाषा परिवार-प्रथ राष्ट्रभाषा प्रमियाका पसन्न आयगा।  
अनपरित एव अनिवार्य विनम्रक निए हम अपन ग्राहकासे एक बार पुन धमा प्राप्तना वरत ह।

4/20/1953  
मा

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वधा

# अनुक्रमणिका

- १ आमुख
- २ स्त्रीपति मन्त्रम्
- ३ ज्येष्ठ स्त्रीपति मन्त्रम्
- ४ वनमान समिनिं भृत्य
- ५ वनमान पराणामसिनि
- ६ वायवता वायवय वायवय
- ७ अगम राय राष्ट्रभाषा प्रचार समिनि
- ८ उत्तर राष्ट्रभाषा प्रचार सभा
- ९ वनाश्रव राष्ट्रभाषा प्रचार समिनि
- १० यज्ञरात्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिनि
- ११ जप्त-द्वारा राष्ट्रभाषा प्रचार समिनि
- १२ पी चम वग राष्ट्रभाषा प्रचार समिनि
- १३ वम्बई राष्ट्रभाषा प्रचार सभा
- १४ वनगोव गिरा समिनि
- १५ माणिक्यर राष्ट्रभाषा प्रचार समिनि
- १६ मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिनि
- १७ मध्यराज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिनि
- १८ मध्यराज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिनि
- १९ राजस्थान राष्ट्रभाषा प्रचार समिनि
- २० दिल्ली-नालंदा राष्ट्रभाषा प्रचार समिनि
- २१ अश्वामा
- २२ राजावास गिरा प्रचार-सभा
- २३ गोदा
- २४ पंडव
- २५ झ-
- २६ राजिन्द्र राष्ट्रभाषा न्मा

## आमुख

भारतमें हिंदा प्रचारका बाय वस तो बहुत प्राचीन कालस विसीन दिसी रूपमें  
चलता आया है परं भी हिन्दी प्रचारका बाय माजना बढ़ रूपमें चलनका निषय हिन्दी  
साहित्य-सम्मलन के सन् १९१८ में इंदौर अधिवासमें विश्व गया। उक्त अधिवास  
गौथीजीवी अध्यात्मामें हआ था और उन्हीकी प्ररणास राष्ट्रक और ह मूर्ती बायक्षमोंमें  
जिन्होंने प्रचारके बायको एवं महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।

यह योजना चूकि हिंदीनर प्राप्तामें हिंदा प्रचारके बायको इथानमें रखकर<sup>१</sup>  
बनाई गई थी अत इमवा सबग्राम प्रयोग भारतक धुर दग्निणव प्रदेशोंमें विद्या गया।  
इस बायका जारीप मरनके लिए सबथा देवनाम गौथी स्वामी नायदेव परिकाजन एवं  
हृषीकेश गर्भा दावश्यमें भजे गए थे। इस बायका संस्थागत रूप सन् १९१८ में निया  
गया और परिणामत गन् १०१८ म मनसमें दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समाकी स्थापना  
हुई। यह सर्वा हिन्दी-साहित्य-सम्मलन' के अन्तर्गत हिंदी प्रचारका बाय बरती थी।  
थी हिंदीर गर्भा (अण्णाजी) उसक प्रयम सचाइव थे और बायमें श्री मो सत्यनारायण  
उगवे मर्दी चुन गए।

दक्षिणके हिंदी प्रचार सम्बन्धी अनुभवसे जाप उठाकर बाय हिंदीनर प्रदेशामें  
हिंदी प्रचारका बाय बरतेके लिए सन् १९०६ में हिंदी साहित्य सम्मेलन' के नामपुर



राज्यिपुरानमाम टान  
[सन्धान सम्पद]

विधिवेदानमें यह निश्चित किया गया कि दग्धिगतर अहिंदी भाषी प्रश्नामें इन्हीं प्रचारका काय आरम्भ किया जाय। सम्मेलनवा यही प्रस्ताव राष्ट्रभाषा प्रचार समितिक जन्म भूमिये ह।

थी मा सत्यनारायण तथा था हरिहर नामा (अण्णाजी) इमडे प्रथम मञ्ची तथा परामा मञ्ची बने। इम समय समिति हिंदा प्रचार-समिति क नामम बाम कर्ती था। बादम इमका नाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति रखा गया।

राष्ट्रभाषा प्रचार समितिक गठनक पूर्वस हा भारतवं पूर्वाञ्चल और पश्चिमाञ्चल य हिंदोहा बाय चर रहा था। पटुराष्ट्रमें हिंदा प्रचारसप बाय बर रहा था पुजारुमें—मूरतमें राष्ट्रभाषा प्रचार मण्डल' अम्बावानमें गुजरत किंदापोठ' द्वारा नव जीवन दृष्ट्ये तत्त्वावधानमें हिंदा प्रचारका बाम चल रहा था। पूव भारतमें हिंदी प्रचार समिति' रजीसामे—पूव भारत हिंदा प्रचार समिति अमर्यै—जावा राष्ट्रवासजीवा दक्ष राष्ट्रमें हिंदी प्रचारक छुपुरु प्रथल चर रहा था। राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी स्थापना थ पाचान इन सब प्रथानांका एवं स्थायी एवं विधिवत रूप प्राप्त हुआ और राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका बल मिला। समितिके तत्त्वावधानमें सभी प्रालामें इन्हा प्रचारका बाय सुचार रूपसे चर्ने रहा।

ये अपवी बात है कि आज राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा हिंदी प्रचारका बाय असम बगान, मणिपुर, उत्तर गुजरात मराठवाडा महाराष्ट्र वस्त्रई विज्ञम बलगांव, बनोर्का जाध तिंगी मध्यप्रद्या राजभ्यान पजाव बांग्लोर आदि प्रश्नामें व्यवस्थित मुखाए एवं समठिन स्थामें चर रहा ह। इसके अनिरिक्त विज्ञामें—श्रीलंका जावा मुमाना फोन्डी अफाना लान्चन अन्नमें भा समिति बाय बर रहा ह। असीरामें तो यह बाय बासी बडे पमानपर हा रहा ह।



था राजद्रुष्मान्  
[मम्यानन्द सर्वस्य]

इतन बहु परिवारके सम्माना एवं दूसरेम परिचय हा। इस उद्यमस ममितिन प्रस्तुत राष्ट्रमाध्या परिवार ग्राम' प्रकाशित वरनेकी योजना बनाइ। इसी योजनाके परिणाम स्वरूप यह ग्राम राष्ट्रमाध्या प्रमियादे साथने ह।

प्रस्तुत ग्राम ममितिके आद्य प्रचारकोति लक्ष्य उन सभी विद्यावधि प्रचारकोवा चित्र महित परिचय लिया गया ह। जिन्हाने अपना मवित्र परिचय वर्धा कार्यालय भजनका कष्ट किया। ममितिके मस्तापक सम्म्य, प्रचार ममितिक वतमान सदस्य प्रचार समितिक भूतपूर्व सम्म्य परीक्षा समितिक वतमान सदस्य परीक्षा समितिके भूतपूर्व सदस्य वाद्रीय ममितिक कायदकर्ता वाद्रीय समितिके भूतपूर्व कायदकर्ता आठिकी जानकारी—जा प्राप्त हो सकी—देनेवा प्रयत्न किया गया ह।

शान्तीय ममितियां वाद्रीय समितिकी भुजाए ह अत उन्हें पदाधिकारिया तथा श्राताय वापकनामाका परिचय देनेका भा हमारा प्रयास रहा ह। जिन जिन वाद्री अपदस्थापक। एव प्रमाणित प्रचारकोने चित्र सहित अपना परिचय लिख भेजा उहें भी इस परिवार ग्राममें स्थान लिया गया है।

हमारा यह विश्वास ह कि यह 'राष्ट्रमाध्या परिवार ग्राम' समितिक वहत परिवारको बहुत कृष्ण जानकारी देनमें सहायता सिद्ध होगा।

प्रभ्री  
राष्ट्रमाध्या प्रचार समिति वर्धा



४ ब्राह्मण नम  
[सन्दात्व मदन्य]

मात्रा संस्थापक सदस्य



सुभाषचंद्र बोस



जमनालाल बजाज



बालाशेब कोरे



बाचायन नरेन्द्रदेव




बाबा रामदेव



विद्योगी हरि



माधेश्वरनानंद चतुर्वेदी



गुरुरामदेव ईशा



विजलाल वियाणी



श्रीमन्मारायण



सरदार नमदा प्रसाद सिंह



बाबा राघवदास



विद्योगी हरि



माधवनलाल चतुर्वेदी



शंकरराय देव



निंदलाल बिपाणी



हरिहर नमा



श्रीमद्रारामण



सरदार नमदाप्रसादसिंह



श्री नारेशसिंह

- १
- शेष सत्थापक सदस्य
- १ गुरुमुरिया गोस्वामी
  - २ श्रीमती रमादेवी चौधरी
  - ३ लोकसुदरी रमण
  - ४ " पेरीनवन वाटन

११  
वर्तमान समितिके सदस्य





भद्रत जानद कोसल्यायन



तत्तीथ लक्ष्मण शास्त्री जोशी



द सामनाय रच



वर्णाद्वयमाद गोह



द्यनेश्वर शमा



वेनकैश्वर प्रसाद पाठक



जयरामलगुडी



सन्तोषप्रसाद भट्ट



किशोरदास



राजकुमार बास






करणपति त्रिपाठी



कातिलाल जोशी



रवींद्रजेट सिंह



दौलतराम गमा



गोपालराव जपसिंगीवर



राधाकृष्ण खेमका



चित्रभनु शर्मा

१४-३



श्रीनिवास रा मूद्हा



द्वारकादास वैद



भा अ चादरवार



माहन्त्यान मट्ट [माट्टा]

# पर्वमास परीक्षा-संगिति



माहनलाल भट्ट



डा शुकदेवप्रसाद तिवारी



रेवतीराजन सिहा



जीतेंद्र चतुर्वेद चौधुरी



रामधारसिंह



पद्मरीनाथ मुकुद डागर



बघवान सिंह



सौ लालिनी अरणजनी



गोपालराव अपसिंगोकर



बनमाली मिथ्या



वालुराम व्यास



रामेश्वर दयाल दुबे

# कार्यक्रम केन्द्रीय कार्यालय



जमालुद्दीन तुरक  
कायर्कर्ता  
केंद्रीय समिति  
जम १ जुलाई २१

गिला-सा रल, रा भा रल  
सान्त्वन स्नान  
थीराम अट्रावल्कर

कायर्कर्ता  
केंद्रीय समिति  
जम २१ जून १८  
गिला-सा रल  
रा भा रल



राघवेश्यामर्सिंह गोतम

कायर्कर्ता  
केंद्रीय समिति  
जम २३ जुलाई ३५  
गिला-एम ए



सौ. कला घूबचदानी

कायर्कर्ता  
केंद्रीय समिति  
जम १२ जनवरी ३१  
गिला-इटर सान्स  
रा भा रल



कु. प्रभा चौधरी

कायर्कर्ता  
केंद्रीय समिति  
जम ४ मा ४०  
गिला-वी ए बोरिं

१. श्री रामावरदयाल दुब  
एम ए सान्त्वनरल  
(मनादरमवी-परीगामवा)

२. बा प मान्नर  
रा भा बोरिं  
(बानास्य सवित्र)

३. मन्नमोन दर्मा (अधिकारा)  
एम ए सान्त्वनरन

४. बानास्य चौरा (अधिकारा) सान्त्वनरन  
सान्त्वन (रा बिद्यारा) सान्त्वनरन

५. मुनाम सावर (अधिकारी)  
राष्ट्रभाषा काविद

६. मन्नरात गोर कायर्कर्ता  
सान्त्वनरन

७. नमन्नरवर पा  
राष्ट्रभाषा कावन

८. था मुनामहु मार पा कायर्कर्ता  
सान्त्वनरन

९. अनुनास दर्मा

१०	रतनचंद्र जन पहाड़ी	वायकर्ता	३१	मूलचन्द्र नानटनर	वायकर्ता
११	रघुवीरप्रसाद वर्मा	साहित्यरत्न'	३२	अरणकुमार उपाध्याय	कोविद
१२	नारायण राट्वर कोविद	विगारद	३३	चपत ठाकरे 'वादि'	
१३	सालगिव हुमन		३४	मोतीसिंह घमान	
१४	विगारद रा भा रत्न'		३५	राष्ट्रमाया रत्न	
१५	वेंगव मिमनवार कोविद		३६	बापूराव मानकर कोविद	
१६	बी ए विगारद'			राष्ट्रमाया रत्न	
१७	स्मृत बहमन अशोध		३७	सुरद गुरु ना रत्न	
	* म गिवराम -र्मा		३८	गुलाबचंद वजाज	
१८	हिरामणी वसाढ	*	३९	हरी क्षीरसागर	विगारद
१९	उद्धवराज मेश्वाम		४०	सा रत्न साहित्य स्नातक	
२०	मुश्मा हुमन कोविद	विगारद	४१	जयकुमार पञ्चसापुरे	कोविद
२१	हृष्णवीरसिंह चौहान	साहित्यरत्न	४२	पाहुरग सरलार कोविद	
२२	राममाऊ राउन विगारद		४३	वंशमानकुमार माळोने	कोविद
२३	वल्लभदास परमार	तिन्नी गिराफ़-सनद'	४४	वीरेन्द्रकुमार यापडे	कोविद
२४	वकर शीपतवार कोविद		४५	दवदेवकुमार उमलवार	कोविद
२५	प्रह्लादराय नारे सा रत्न		४६	वा रा वाड	
२६	गिरथारीगल श्रीवास्तव		४७	ना य देमुख	
२७	सत्यनारायण मिथ	कोविद'	४८	गोपालराव सावरकर	
२८	टी ए बेजामिन		४९	यादवराव जयपुरर	कोविद'
२९	मारोनी बहूदार	विगारद	५०	मोहनलाल वभमार	कोविद'
३०	मानसवरदगारे कोविद			म रा नगरवर	कोविद'
३१	प			रा भा रत्न' सा रत्न	

२१	डा श्रीधर तुल	कायकर्ता	७४	भालचंद्र मंश्राम	कायकर्ता
५२	प्रतिभा गरे विगारद'		७५	चम्पत नासरे	
५३	मुनोचना जन कोविद'		७६	माधूराम हुमने	
५४	हरिश्चंद्र साजरानी		७७	नारायण ठाकरे	
	राष्ट्रभाषा रत्न		७८	मनोहर वानखड	
५५	स वा तिवारी		७९	राम अवनार	
५६	आगामा देशपांड		८०	मगाराम जाहड	
५७	सरोज अम्यर काविद		८१	रामभाऊ राऊत	
५८	चान्द्रवर कोटम्बकर		८२	भाऊराव इगळ	
५९	महेन्द्रभार जन काविद'		८३	भगवान घावडे	
६०	वालविमन व्यास		८४	छानू नानेटकर	
६१	म र पुरोहित		८५	किंगन गोरखा	
६२	चंद्रकुर वा		८६	गुलाम गोवाडे	
	*	*	८७	भीमावाइ थूल	
			८८	गापीसिंह ठाकुर	
६३	हुसेन म गाम		८९	नारायण वडू	
६४	नरयू हुसर		९०	भार्गवर व्यास	
६५	जगन्नाम राढत		९१	दवा थूल	
६६	विनायक पेट काविद		९२	दगरव विरिण	
६७	घनायाम पाटार काविद		९३	मनेव खजे	
६८	दामान्दर कोणड काविद'		९४	गणगमिह ठाकुर	
६९	गौरामावर खवान		९५	विष्णु काजेयावार	
	राष्ट्रभाषा रन		९६	नरात्म माडिया	
७०	रामचंद्र आगार		९७	वर्वन दवड	
७१	आत्माराम वारकर		९८	मगारथ परर	
	विगारद		९९	शावण परात	
७२	शाराम खार		१०	पर्ट नवान	
७३	पजाव पाराल				

### राष्ट्रभाषा प्रेस

१	रा तु द्वारा वा ए एन एन वा (जावाग)	५	विहुराव निमत्र	मगानमेन
	द्वारा वा - कारमन	६	घनराव अगान	
	वार्द्दविगमिन - ए रार	७	चनराव खावडे	द्वेष्टमन

१	नेहु गुरुलूल	ट्रेडमैन	२५	विवदवर आगगव	डिस्ट्री-पूटर
९	उरपोतम कालरकर		२६	रामहृष्ण वामूलवर	
१०	नारायण मनार	मार्गे जापरटर	२७	हरिमाळ जमान	
११	ठी बी पिन्स	मार्गे काम्टर	२८	रामा सानपुत	
१२	गवरगल पाड		२९	गुलाब बठान	
१३	गगाराम तुराल	हल्पर	३०	मधुकर जाग	मुफमैन
१४	विसन मानसर		३१	पाटुरग गिरदवर	
१५	वेवराव मटागळ	हेड क्योजाटर	३२	लीलाधर धोट	वाइटर
१६	शवरराव गुजर		३३	वसत धान	
१७	श्रीपाल आगरवर	क्योगीन्टर	३४	रामचन्द्र खरज	
१८	विठ्ठ कापत		३५	पुजाराम निवलवार	
१९	वसत शोड		३६	वामन खुरमग	
२०	विठोवा बोटाठ		३७	मूयमान परात	
२१	भाकराव पिलवार	डिस्ट्रीब्यूटर	३८	पुढलिक मेशाय	
२२	वापुराव गजमिय		३९	रामत्वामी नायडू	
२३	पुढलोक वाल्डवर		४०	हृष्णस्कामा नायडू	
२४	गुणवत दवरणवर		४१	रामा नवार	
	गुणवत दवरणवर		४२	हृष्णा गुडाराम वडू	संगमव

# आसम राज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिति

उपाध्यक्ष



राधाकृष्ण खनका

लावण्यप्रभादत्त चौधुरी



कापाध्यक्ष

जोते द्रव्यच चौधुरी



प्रान्ताय सचाल



प्रचार मंत्री

माहनच द भूया



विद्युतिया  
मन्त्री  
शनाय ममिति

मूरलराम खनरिया



दरातंब  
मन्त्री  
प्रान्ताय ममिति

विध्यक- नरेंद्रनाथ रमी  
 उपाध्यक- गोपालचंद्र अग्रवाल  
 कापाध्यक- कामाश्वालाल सिहानिया  
 सदस्य- खागफाई  
 " विद्वनाय गुप्त

सदस्य- मीलना अल्लू जलील  
 नरेंद्र वाय  
 मोडन उद्दीन बहमद  
 कमलाकात द  
 राधियाम गायनका



विद्वनचंद्र गोप्यमा

भतपूव सदस्य  
 प्रातीय समिति

रामजी प्रसाद



गिलाम

बायतती

जम-४ जुलाई ४१



विद्वज्योति चौधुरी

गिलाम  
 बायतती  
 व्यवस्थापक  
 जम

२६ जिनवरी २१

गिलाम-मट्टिक

आर लम्दागवा आओ

बायतोग्या

व्यवस्थापक

जम

२० जनवरी ४  
 गिलाम-मट्टिक रा भा पत्तिय



राजेन्द्र प्रसाद सिंह

गिलाम

बायतती

जम

गिला-४ जुलाई १९५०  
 गिला-४ जुलाई १९५०



गणगाम्भान उपाध्याय


रामपुर

व्यवस्थापक

जम-मैन १९५१



## गोकुलचंद्र लहडा



टॉमापुरवरी  
केन्द्र व्यवस्थापक  
जम  
जनवरी १९२४  
निधा-दी ए

## छोटलाल मिश्र



राईडिंग  
केन्द्र व्यवस्थापक  
जम  
१४ जना ३८  
निधा-मट्रिव

## दधिराम उपाध्याय



टापला  
केन्द्र व्यवस्थापक  
जम  
२८ अप्रैल १९५५

## निधाप्रसाद रावत



बड़हाराजान  
केन्द्र व्यवस्थापक  
जम  
३१ अगस्त १९६१  
निधा—राजभाषा चर्चित

## दुर्गाप्रिसाद उपाध्याय




अदालगडी  
केन्द्र व्यवस्थापक  
जम  
सम्वत् १९८१  
निधा—राजभाषा कावत

## नरहरी शास्त्री



बादरगडी  
केन्द्र व्यवस्थापक  
जम  
सम्वत् १९७७  
निधा—श्याकरण शास्त्री

## बहस्पति उपाध्याय



गिरी  
केन्द्र व्यवस्थापक  
जम  
सम्वत् १९६८  
निधा—रा भा बोविं व्या शास्त्री

## मनारथ शर्मा



एनगिरोपुर  
केन्द्र व्यवस्थापक  
जम  
सम्वत् १९७६

लक्ष्मीनारायण शर्मा



कुबुराकट्टा  
प्रवस्थापक  
जम  
मन्त्र १०९२  
गिरा—राष्ट्रभाषा प्रवश

विमलकुमार सहाय



कोकडामार  
प्रवस्थापक  
जम  
२२ जनवरी १९३२  
गिरा—वी ए

हामनाय उपाध्याय



मोहनदी  
प्रवस्थापक  
जम  
२ फरवरी १९४८  
गिरा—राष्ट्रभाषा काविद

अम्बिकादत्ती उपाध्याय



गिरो  
प्रमाणित प्रचारिका  
४७९९  
जम  
मन्त्र १०९१  
गिरा—राष्ट्रभाषा कोविद

आनन्दराम नटुवा



घनसोसा  
प्रमाणित प्रचारक  
७०४२  
जम  
१४ अप्र० ४०  
गिरा—मट्रिक रा भा काविद

वल्लभा पुरकायस्थ



डीमापुर  
प्रमाणित प्रचारिका  
७२०  
जम  
१ मद १००  
गिरा—राष्ट्रभाषा काविद

### देवीप्रसाद उपाध्याय



निलगढ़ी  
प्रमाणित प्रचारक  
६५६६  
जम  
१८ जून १९३४  
गिरा—राष्ट्रभाषा कोविद

### न दकिशोर अग्रवाल



बालूटचर  
प्रमाणित प्रचारक  
६५६९  
जम  
३ अक्टूबर ३९  
गिरा—इटर विगार्ह

### नरवहादुर थापा क्षेत्री



दिल्लियाजली  
प्रमाणित प्रचारक  
५४०४  
जम  
५ फरवरी १९३०  
गिरा—राष्ट्रभाषा रत्न अध्यापन स्कूल

### प्रजापति उपाध्याय



गिरा  
प्रमाणित प्रचारक  
४८०  
जम  
सप्तमी १९८४  
गिरा—रा भा कोविद व्या गान्धी

### प्रफुल्लचंद्र शर्मा



बरतोला  
प्रमाणित प्रचारक  
४४०१  
जम  
१० सितम्बर १९३०  
गिरा—राष्ट्रभाषा रत्न

### ब्रजभूषण द्विवेदी



देरामाव  
प्रमाणित प्रचारक  
३८५१  
जम  
१ जुलाई १९२९  
गिरा—राष्ट्रभाषा रत्न

### मटुकधारी ज्ञा



गोहाटी  
प्रमाणित प्रचारक  
५९१६  
जम  
नवम्बर १९३२  
गिरा—इटर, रा भा रत्न

### महेद्वनाथ शर्मा वर्हवा



नश्टानी  
प्रमाणित प्रचारक  
४९१४  
जम  
सन १९३३  
गिरा—रा भा कोविड, आयुर्वेद भूषण

मुहम्मद फयजुल इस्लाम



सामराली

प्रमाणित प्रचारक

७३६१

जम

२६ जनवरी १९४०

गिरा—राष्ट्रभाषा कोविद

मोहनचंद्र भूया



विहुसिया

प्रमाणित प्रचारक

१८५५

जम

१० मार्च १९२८

गिरा—मट्रिक रा भा रेल

रामानन्दसिंह



सेलगहाट

प्रमाणित प्रचारक

३१९४

जम

१५ सितम्बर १९३४

गिरा—मट्रिक विशारद

रामानन्द तिवारी



लामझींग

प्रमाणित प्रचारक

५०३४

"उष्ण—, न वय

गिरा—रा भा कोविद विशारद

५०३५

ललितचंद्र उपाध्याय

दुधन



प्रमाणित प्रचारक

६५०५

जम

बप्रल १९३२

गिरा—मट्रिक कोविद गिरा विशारद

विनोद विहारी दास



सरपेटा

प्रमाणित प्रचारक

६५०३

जम

१ मार्च ३७

गिरा—मट्रिक विशारद

विद्वनाथप्रसाद दास



धुबडी

प्रमाणित प्रचारक

६७६७

जम

२१ जून १९३४

गिरा—मट्रिक रा भा कोविद

श्यामविहारी तिवारी



बड़ाहाटपजान

प्रमाणित प्रचारक


६५०१

जम

११ जनवरी १९३६

गिरा—रा भा कोविद

### श्यामलाल चौधरी



तिनमुखिया  
प्रमाणित प्रचारक  
६६  
जन्म  
२७ नितम्बर १९२७  
गिरा—रा भा काविद मा विजारद

### सचिता राय



शिलाग  
प्रमाणित प्रचारक  
३२५१  
गिरा—राष्ट्रभाषा रत्न

### सवित्री चौधरी



शिलाग  
प्रमाणित प्रचारक  
७२७२  
जन्म  
२६ मा १९३२  
गिरा—रा भा काविद मट्रिक

### सुधीररजन भट्टाचार्य



बच्चाब  
प्रमाणित प्रचारक  
६८०२  
जन्म  
१ मार्च १९१८  
गिरा—मट्रिक—रा भा कोविद

### सुदोवचाह चन्द्रवर्ती



काटिगडा  
प्रमाणित प्रचारक  
७२७१  
जन्म  
व म दआपाड १३३१  
गिरा—मट्रिक—रा भा काविद

### हरिनारायणसिंह



दक्षियाल  
प्रमाणित प्रचारक  
७  
जन्म  
३ जनवरी ८१  
गिरा—मट्रिक—रा भा रत्न (प्र च)

### हरिप्रसाद उपाध्याय



बालीजान  
प्रमाणित प्रचारक  
६८ ६  
जन्म  
२१ नितम्बर १० ३  
गिरा—मट्रिक काविद

उत्कल राष्ट्रवादी पक्षर सदा  
मध्यसंघ



स्वामी विवेकानन्दास  
सम्मानित-सदस्य



डॉ हरेण्ड्रण महात्मा

महारा



राजेन्द्र वाम

प्रातय सचालक



ननकदास पाटेल

रत्नाकर नदा



सदस्य—प्रातीय समिति

वदनाय आचाम



सदस्य—प्रातीय समिति

सदस्य—आतबल्लभ महान्ति  
, गुरुचरण महाति  
, जगन्नाथ मिश्र

सदस्य—भगवान प्रतिहारी  
, चन्द्रमाली मिश्र  
उदयनाथ पड्गी

उदयनाथ पड्गी



सियालखड  
वैद्यन्यवस्थापत्र  
जम  
१ जून १९११  
गिरा—श्री ए राष्ट्रभाषा परिचय

खगश्वरदास



अहियास  
वैद्यन्यवस्थापत्र  
गिरा—श्री एस मी श्री एह

विनोरीविंकर दास



बाणराई  
वैद्यन्यवस्थापत्र  
जम  
बक्सबर १९१०  
गिरा—एस ए (अद्वा उद्दिष्ट) दा एह

श्री खगश्वरसिंह



हैपसी  
वैद्यन्यवस्थापत्र  
जम  
परदरे १९२९

### दयानिधि पट्टनायक



मजनगर

बैद्यव्यवस्थापत्र

—म

२७ नवम्बर १९१४  
निधा—वा ८ हो एह राष्ट्रमाया प्रवास

### परशुराम दास



बालिकुला

बैद्यव्यवस्थापत्र

जम

८ अगस्त १९०५  
निधा—वा एम सा

### बलमद साहू

सानिविपली पाली

बैद्यव्यवस्थापत्र

जम

११ मध १९०७

निधा—मैट्रिक राष्ट्रमाया प्रवास

### भगवान हाता



नलगंगा

बैद्यव्यवस्थापत्र

जम

१ अगस्त १९२३  
निधा—इमर राष्ट्रमाया परिचय

### मदराज राय महापात्र

बनमालीपुर

बैद्यव्यवस्थापत्र

जम

१ अप्र० १९१६  
निधा—वा ए हो एह

### लद्दभीघर शतपथी

दसपल्ला

बैद्यव्यवस्थापत्र

जम

१ जुलाई १९२५  
निधा—वा ए ठा एह

### विद्वनाय मिश्र

पटामृदाई

बैद्यव्यवस्थापत्र

जम

२० जून १९०४

निधा—वी ए ठा एह

### बजुन शतपथी



बलांगार

प्रमाणित प्रचारक

६९४४

आय

२५ वप

निधा—आयुवेश्वर या रत्न

### अभिमयु दास



भेंडासाल

प्रमाणित प्रचारक

६२६

जम

१ जनवरी १९७

गिरा—राष्ट्र रा भा रत्न

### अक्षयकुमार महाति



रामचंद्रपुर

प्रमाणित प्रचारक

६२७१

जम

८ अप्र० १९४

गिरा—राष्ट्रमाया कवि-

### अहिल्याकुमारी दाम



बारोपदा

प्रमाणित प्रचारक

१७७

जम

१ मा १९

गिरा—राष्ट्रभाषा रन

### आदिकल्प विपाठा



बलागर

प्रमाणित प्रचारक

५

गिरा—नीलाचार रा भा रन्

### आदित्यनारायण विपाठा



टिलागढ़

प्रमाणित प्रचारक

७२२७

जम

१ जनवर १९३७

शिद्धा—हण्डर रा भा कावा-

### ओश्वरचंद्र पडगी



चाइक्षखर

प्रमाणित प्रचारक

५०५४

जम

२६ मा १९

गिरा—मानित्याम्ब्र रा भा का०

### बमलोचन वरार



राजरणपुर

प्रमाणित प्रचारक

६८९८

जम

जून १० ८

गिरा—मतिक मानिय रन रा भा रन

### कुरमणि रथ



हृष्णदामपुर

प्रमाणित प्रचारक

६३६०

जम

१६ मार १० ८

गिरा—मद्दुर रा भा कावा-

काशीनाथ दास



पश्चमुण्डाई  
प्रमाणित प्रचारक  
६०९७  
जम  
५ मार्च १९०३  
गिया—राष्ट्रसाधा कावि-

विश्वरचन्द्र नद



कशियबरपत्र  
प्रमाणित प्रचारक  
२८९९  
जम  
मर—१९१८  
गिया—माहित्याचार ग भा रत्न

विश्वोरचन्द्र साहू



नटेक्ष्युर  
प्रमाणि, प्रचारक  
७ ४९  
अयु—२२ वर  
गिया—राष्ट्रसाधा कावि-

हृष्णचन्द्र माझी



वासुदेवपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
६०३५  
जम  
१० मार्च १९२३  
गिया—राष्ट्रसाधा कावि-

गोकुलानन्द मिश्र

आदमपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
६५०७  
जम  
० फरस्त १०३९  
गिया—माहित्याचार ग भा कावि-

गोपालचन्द्र विष्णुठी



छोडिपदा  
प्रमाणित प्रचारक  
६०२०  
जम  
२० जनवरी १९१६  
गिया—मट्टिक ग भा कावि-

गोपीनाथ पड़गी



मुखन  
प्रमाणित प्रचारक  
५९२०  
जम  
११ जनवरी १९१४  
गिया—माहित्याचार्या ग भा कावि-

गोविन्द गतपथी



चडगाँव  
प्रमाणित प्रचारक  
५१७४  
गिया—महित्याचार राष्ट्रसाधा रत्न

### चक्रघर त्रिपाठी



नलगाजा

प्रमाणित प्रचारक

५००५

### जगन्नाथ नायक



चम्पापुर

प्रमाणित प्रचारक

= ६१२

जम

२४ अक्टूबर १९२८

गिरा—श. ए राष्ट्रभाषा काविद

### दामादर महापात्र



मन्क

प्रमाणित प्रचारक

५५९

जम

८ अगस्त १९२६

गिरा—वाहित्याकाय ग भा कावि

### देवराज रथ बसा



आसिका

प्रमाणित प्रचारक

६५

गिरा—मा चाचाय ग भा कावि

### दीनबंधु मिथ



बलागत

प्रमाणित प्रचारक

५७१२

जम

२८ जलाई १९३६

गिरा—मट्टिक दिशारद

### दुर्योधन महाराणा



डरा

प्रमाणित प्रचारक

५८५१

जम

१६ जुलाई १९३३

गिरा—मट्टु रा भा रत्न

### नदनप्रसाद बाजपेई



शारसुगडा

प्रमाणित प्रचारक

६७३६

जम

८ अप्रैल १९२९

गिरा—राष्ट्रभाषा रत्न

### नरहरि धपति



बालियापाल

प्रमाणित प्रचारक

६३५

गिरा—मा चाचाय ग भा कावि

## नरेन्द्र पति



छपपटा  
प्रमाणित प्रचारक  
२९४०  
जम  
१ नवम्बर १९२७  
गिरा—पटिक रा भा कावि

## निमाईचरण पडा



देवामल  
प्रमाणित प्रचारक  
२२२५  
जम  
१५ मार्च १९२२  
गिरा—राष्ट्रभाषा कावि

## नीलकंठ रथ शमा



समानिया  
प्रमाणित प्रचारक  
५५१०  
जम  
१५ अप्रृल १९२०  
गिरा—गांधियाचाय कावि

## नवानन्द रथ



बतनटा  
प्रमाणित प्रचारक  
४६९९  
जम  
१२ जन १०३१  
गिरा—मानियाचाय रा भा रत्न  
प्र-६

## प्राणकृष्ण मिथ्र



नवागढ  
प्रमाणित प्रचारक  
२१०  
जम  
१ अगस्त १९११  
गिरा—विगार

## प्राणकृष्ण स्वाइ



जनोनी  
प्रमाणित प्रचारक  
२२२४  
आय १३ बय  
गिरा—विगार रा भा रत्न

## पूरुचद्र नन्द




बजन विधा  
प्रमाणित प्रचारक  
६१४१  
जम  
१५ जनवरा १९३८  
गिरा—राष्ट्रभाषा कोविद

## वलराम शतपथी




हड्डुपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
६१  
जम  
३ मिन्हम्बर १९२२  
गिरा—मानियाचाय, रा भा कावि

### विपिनविहारी ब्रह्मचारी



उदला  
प्रमाणित प्रचारक  
५९१९  
जन्म  
२९ जनवरा १९३१  
गिरा—पाहिल्यास्त्रो रा भा रत्न

### ब्रजबंधु वहरा



भारपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
६ १८  
जन्म  
२ मार्च १९२६  
गिरा—रा भा वाकिं उद्याग भयण  
धम विनार

### भगवान पठा



वागराई  
प्रमाणित प्रचारक  
६९६८  
जन्म  
१ जनवरा १९८  
गिरा—मट्रिक सार्वियाचाय रा भा रत्न

### भगवान मित्र



सियान्धुराई  
प्रमाणित प्रचारक  
६०  
जन्म  
१६ फरारा १९८१  
गिरा—गान्धारा रत्न

### भगीरथ महान्ति



बमकोई  
प्रमाणित प्रचारक  
१८०७  
जन्म  
१ जुलाई १९१८  
गिरा—राष्ट्रभाषा रत्न

### भूतनाथ वल



बालिगण  
प्रमाणित प्रचारक  
५५३५  
जन्म  
२६ नवम्बर १९३१  
गिरा—मट्रिक रा भा वाकिं

### मीर हुदर अली



भुबनेश्वर  
प्रमाणित प्रचारक  
६३७०  
जात्य—२५ वर्ष  
गिरा—हुदर रा भा वाकिं

### रघनाथ पट्टा



कुत्ता  
प्रमाणित प्रचारक  
५८१८

गिरा—गान्धारा वाकिं

## रघुनाथ दास



टिटलगढ  
प्रमाणित प्रचारक  
५६२४  
जम  
१२ अगस्त १९३७  
गिरा—भाष्यवेदाचार्यी रा भा रत्न

## रत्नाकर रथ



हरणदासपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
६९४२  
जम  
११ जुलाई १९३८  
गिरा—मध्दिक रामभाष्य काविद

## रमादेवी मिश्र



बर्नागर  
प्रमाणित प्रचारिका  
४४९  
गिरा—मध्दिक रा भा कावि विगार

## राजविश्वोर महाराणा



पुरी  
प्रमाणित प्रचारक  
७१  
जम  
२० मिन्हवर १९२९  
गिरा—माहित्यवेदाचार्यी रा भा कावि

## राधामोहन शतपथी



तलमूल  
प्रमाणित प्रचारक  
६५१  
जम  
८ मई १९३७  
गिरा—मध्दिक रा भा कावि

## रामचंद्र त्रिपाठी



अलण्ठट  
प्रमाणित प्रचारक  
६०२१  
जम  
१ मिन्हवर १९२०  
गिरा—रामभाष्य कावि

## लोवनाथ दास



देकानल  
प्रमाणित प्रचारक  
७२३१  
जम  
१२ अप्रैल १९३७  
गिरा—रा भा कावि

## लोवनाथ त्रिपाठी



बलीगुरु  
प्रमाणित प्रचारक  
१५०९  
जम  
१५ जून १९२१  
गिरा—भाष्यवेदाचार्य माहित्यवेदाचार्य  
रा रत्न

### वसन्तकुमार नरेंद्र



नागपुर रोड  
प्रमाणित प्रचारक  
६६६२  
जम  
५ निम्नर १९३४  
गिरा—मटिक रा भा काविद

### वासुदेव साहानी



वालिकुदा  
प्रमाणित प्रचारक  
४६०२  
जम  
१ मं १९१६  
गिरा—मटिक राष्ट्रमापा रत्न

### विकतन दास



गुहली  
प्रमाणित प्रचारक  
७ ८१  
गिरा—रा भा काविद

### विनोद विहारीदास देव गमा



भूताणड  
“ना एन प्रचारक  
”  
जम  
४ ८८  
गिरा—मटुर रा भा रत्न

### विवेकानन्द महापात्र



शब्दलक्षण  
प्रमाणित प्रचारक  
६८०७  
अम  
२ मार्च १९३७  
गिरा—मटिक रा भा कोविद

### विश्वनाथ मद शर्मा



फुलघणी  
प्रमाणित प्रचारक  
४२१७  
जाय  
३ ८४  
गिरा—रा भा रत्न पारगत

### वीरभद्र रथ शर्मा



भजनगढ  
प्रमाणित प्रचारक  
६२९७  
जम  
३१ निम्नर १९४४  
गिरा—न्यायनाथ रा भा काविद

### वीरमिह महापात्र



राजनगर  
प्रमाणित प्रचारक  
६ १७  
जम  
६ जन १०  
गिरा—न्यायनाथ रा भा काविद

वैदवत शास्त्री



जा उदयगिरी  
प्रमाणित प्रचारक  
२२२३

जम

गिया—रा भा रल, साहित्य रल  
१ जुनाई १२६

वण्णवचरण दास



वस्तमुर  
प्रमाणित प्रचारक  
४११

जम

गिया—साहित्याचाय ग भा काविद  
२५ जूनस्त १९१४

सदानन्द महापात्र



मन्दूरी रोह  
प्रमाणित प्रचारक  
७२२६

जम

गिया—भट्टिक राधुभाषा काविद  
२२ नवम्बर १९३३

सारथीचरण महापात्र



गुडरण्ड  
प्रमाणित प्रचारक  
५०११

गिया—साहित्य रल

सीताकात शतपथी



बाबौ

प्रमाणित प्रचारक  
६०२१

जम

गिया—साहित्याचाय रा भा कोविद  
१३ नवम्बर १९३१

सुदशन दास



टागी  
प्रमाणित प्रचारक  
४६५२

जम

गिया—रा भा रल साहित्य रल  
१ जुनाई १९३५

सुदशन मिश्र शर्मा



टिटलागढ़

प्रमाणित प्रचारक  
७२३६

बाय—२७ वप  
गिया—भट्टिक रा भा काविद

सुरेन्द्र पाणियाही



पंजाय  
प्रमाणित प्रचारक  
६२९६

जम

गिया—साहित्याचाय रा भा रल  
१५ जुनाई १९३५

### हरमाहन जेना



कुर्लदा  
प्रमाणित प्रचारक  
७२३८  
जम  
१६ जनवरी १९१७  
गिरा—परिवर्ग भा काविं

### हरिकृष्ण प्रधान



खरदा  
प्रमाणित प्रचारक  
१६१  
जम  
१३ जन १०१  
गिरा—रा भा काविं मार्गियाचाय

### हरिवाघु नायक



कोठार  
प्रमाणित प्रचारक  
६०२४  
जम  
२१ जनाई १९२९  
गिरा—मट्रिक रा भा काविं

### हृदयानन्द दास



निमापाडा  
प्रमाणित प्रचारक  
४४ द  
आय—२९ वर्ष  
गिरा—राष्ट्रभाषा कोविं

### श्रीनाथ गतपथी



गिरा—रा भा काविं

### अहियास

प्रमाणित प्रचारक

कंपार्टमेंट के राष्ट्रभाषा पृचार समिति

प्राप्तिक्रिया



बार की शिरूर

प्रोप्राप्तिक्रिया



रा. र. लहड़

मन्त्रा-सचालक



वासुदेव चि वस्ती

बार एल वसेरा

धारवाह

सत्यम्

प्राताप समिति

विद्यक - एच वी शहा

उपाप्तिक्रिया - एम डी पवरी

मरन्तम्पा जवली

पी बच गुजाल

गोपाप्तिक्रिया - वी अचिनाल



## अमरद्वाराचाय



कल्याणी

वे—व्यवस्थापन

जम

५ नवम्बर १९७

गिरा—वेनाताचाय

## एम जाफर हुसन



कोप्पल

वे—व्यवस्थापन

जम

५ मं १९३४

गिरा—इंगर राष्ट्रभाषा

## वे जा हिरियण्णय्या



गुलेदगड

वे—व्यवस्थापन

जम

१६ जगत्त १९

गिरा—राष्ट्रभाषा विद्यालय मंटिक  
हिन्दा साहिय प्रवाण

## वे नागर हत्वार



बांगलौर

वे—व्यवस्थापन

जम

१० कर्ग १०

गिरा—मंटिक रन

## न जी हलीगत्ती



बनहट्टी

वे—व्यवस्थापन

आय—५३ वय

## वी आर सजीवमूर्ति



चतपट्टा

वे—व्यवस्थापन

जम

९ सिनम्बर १९३०

गिरा—मंटिक साहिय प्रवाण

## वी एफ होल्डसम्यनवर



गिरहट्टी

वे—व्यवस्थापन

जम

१३ जुलाई १९२६

गिरा—पा एम सा वा टा

## वी पी नवलगुल



इन्हो

वे—व्यवस्थापन

जम

२८ निम्बर १९१

गिरा—गणभाषा (मानग)

बी एच नागरहल्ली

बीजापुर

कृष्णाराम

जम

५ जनवर १९०९

गिरा—एम ए वा ट

हुच्चराव भीमराव काण्डूर

बदग

कृष्णाराम

जम

९ लक्ष्मीवर १९०५

गिरा—एम सो गा एम काविद

इंदिरादेवी कुलकर्णी

बीजापुर

प्रमाणित प्रचारिका

१३

जम

१ जून १९२९

गिरा—गा एम सा गा भा काविद

जी एन मूलीमावि

गुलेश्वर

प्रमाणित प्रचारक

६०७३

गिरा—गा भा काविद गा विलास  
प श-३



नारायण व्यवट्टदा हचाटे


हुच्चा

प्रमाणित प्रचारक  
१७१९

जम

गिरा—मद्दिरा साहित्य रत्न  
१९२९

पावतीमाई पटवधन



जमदुण्डा  
प्रमाणित प्रचारिका

१५७

बय ५६ वर

गिरा—मात्य रत्न रा भा रत्न

म गु कुलकर्णी



बीजापुर

प्रमाणित प्रचारक  
२१०

जम

१२५ जनवरी १९१५  
गिरा—गा ए विलास पारगत

महम्मद शफी ढालायत

गदग

प्रमाणित प्रचारक  
६६४७

जम

५ जून १९३७



गिरा—गा ए गढ़माला काविद

## अमरेशवराचाय



कल्याणी

बैद्यवस्थापन

जम

५ नवम्बर १००७

गिरा—वंशताचाय

## न जी हलोगती



बनहटी

बैद्य वस्थापन

जम—५३ वप

## एम जाफर हुसन



बोपल

बैद्यवस्थापन

जम

५ मा १९३८

गिरा—इण्डर राष्ट्रभाषा

## बी आर सजीवमूर्ति



चतपट्टा

बैद्यवस्थापन

जम

९ सितम्बर १९३०

गिरा—मट्रिक साहिय प्रवाण

## के जी हिरियण्णया



गोदावड

बैद्यवस्थापन

जम

१६ जन्म १९३

गिरा—राष्ट्रभाषा विद्यालय मट्रिक  
टिला साहिय प्रवाण

## बी एक हीलवस्थ्यनवर



गिरहटी

बैद्यवस्थापन

जम

१३ जन्म १९२४

गिरा—रा एम सा रा टा

## के नागर हत्वार



बगलौर

बैद्यवस्थापन

जम

१० दिसं १९३

गिरा—र मार्ग रन

## बी पी नवलगुड



फड्डी

बैद्यवस्थापन

जम

२६ निम्बर १९११

गिरा—राष्ट्रभाषा (माम)

वी एच नागरहल्ली



बीजापुर

प्रमाणित प्रचारक

जम

५ जनवर १९९९

गिरा—एम ए बा ना

हुच्चराव भीमराव कोण्ठूर



गदग

प्रमाणित प्रचारक

जम

गिरा—एम सी एम कांडिं

९ जनवर १९०५

इंदिरादेवी कुलकर्णी



बीजापुर

प्रमाणित प्रचारिका

१३

जम

१ जून १९२९

गिरा—पा आम सी रा भा कांडिं

जी एन मूलीभावि



गलेडगुड

प्रमाणित प्रचारक

८७३

गिरा—ग भा कांडिं गा विश्वास

५ अ—३

नारायण व्यक्टश हचाटे



हुच्चरी

प्रमाणित प्रचारक

१७९९

जम

गिरा—मट्टिं सांत्व रत्न

पावतीवाई पटवधन



जमघटणी

प्रमाणित प्रचारिका

१५७

वाय ५६ वर

गिरा—माली य रत्न रा भा रत्न

म गु कुलकर्णी



बीजापुर

प्रमाणित प्रचारक

२९०

जम

गिरा—ग ए विश्व वारसन

महम्मद शफी ढालायत



गदग

प्रमाणित प्रचारक

६६४७

जम

५ जून १०३७

गिरा—ग ए गट्टमाणा कांडिं

मारुतश रि सूयवशी



धारवाड

प्रमाणिन प्रचारक

२ ८१

गिरा—मट्टिक साहित्य रत्न ग भा रत्न

गिरा पण्डित

रामश्वरदत्त रविदल शमा



गग

प्रमाणिन प्रचारक

५६५४

जम

म १९३८

गिरा—रामश्वरामा कवि

शकर तिम्मणभट्ट जोशी



नरेगल

प्रमाणिन प्रचारक

६ ६५

जम

३१ अस्त १९३९

गिरा—मट्टिक रा भा कवि

शिवमूर्तिस्वामी हिरेमठ



धारवाड

प्रमाणिन प्रचारक

७ ३४

जम

२१ माच १९३९

गिरा—मट्टिक साहित्य रत्न

मुथा कववराव ताम्हणकर



धारवाड

प्रमाणिन प्रचारिका

५८४६

जम

नप्पर १९३९


गिरा—मट्टिक रामश्वरामा रन

ગુજરાત રાષ્ટ્રકાળ પ્રચાર  
વાચિકિ



બદ્ધકા

→ વિહ્યાલાલ મા મુશ્કા




સાયાધ્ય

સિદ્ધમાઇ દીવટિયા

उपाध्यक्ष

उपाध्यक्ष



गोरीगवर जोगी



हरभाई निवदी



कोपाया

← मनप्रमाण भट्ट



उभियाशवर ठाकर

आणव

संस्थ

प्रान्तीय ममिति

वासीशवर शुक्ल

मिद्युर

संस्थ

प्रान्तीय ममिति

गोमुक्लभाई पटल

अहमदाबाद

संस्थ

प्रान्तीय ममिति



चिंतुलाल सेठ

मिद्युर

संस्थ

प्रान्तीय ममिति



## छगनभाई पटल



पिलवाई

सत्य

प्रान्तीय समिति

## धनजय शाह



सूरत

सदस्य

प्रान्तीय समिति

## जगुभाई व्यास

काडिया

सत्य

प्रान्तीय समिति

## फलभाई पटल



आणद

सत्य

प्रान्तीय समिति

## जटावर पडवा

गोष्ठा

सत्य

प्रानाय समिति

## विहारीलाल रावल



लामबडी

सत्य

प्रानाय समिति

## ज्यानीदभाद मेहता

अट्टमगढाद

सत्य

प्रानाय समिति

## मायूभाई छ जाणी



अट्टमगढाद

सत्य

प्रानाय समिति

मन वदामिया



जामनगर

सास्य

प्रानाय ममिति

रामचंद्र पठ्या

नहिया

सास्य

प्रानाय ममिति

मनुप्रसाद भट्ट



बडोदा

सास्य

प्रानाय ममिति

लक्ष्मीनारायण पाठ्य



वमलपुर

सास्य

प्रानाय ममिति

रघुनाथ ब्रह्मभट्ट



वसाई

सास्य

" प्रानाय ममिति

साकरचंद सरया



झूत

सास्य

प्रानाय ममिति

राजाभाई लादोबाला



पोखरेवर

सास्य

प्रानाय ममिति

माविशीग्हन निवदी



अहमदाबाद

सास्या

प्रानाय ममिति

## सोमाभाई व पटेल



अहमदाबाद

सन्स्कर

प्रान्ताय समिति

सदस्य-१	जतिसुखशकर निवेदी
, २	असणावहन दसाई
३	अिंदुमतिवहन दीवानजी
४	ईश्वरलाल देसाई
५	गिरधरलाल साता
६	चांदुलाल भट्ट
७	चुनीलाल भट्ट
, ८	जमनादास परीख
, ९	जयतीलाल ध्यानी
, १०	जयद्रभाई श्रिवदी
, ११	डालरराय मावड
, १२	नर्सिहराम उपाध्याय
१३	पुजालाल मुखार
१४	पुर्णात्मभाई पट्ट
१५	प्रमानन्द पट्ट
१६	वट्चरभाई गाह

सदस्य-१७	वादूभाई शाह
, १८	भाईलाल भाई महेता
, १९	मगनलाल जोशी
, २०	माकण्डराय मेहता
, २१	मुनिश्री जिनविजय
, २२	रणधीर उपाध्याय
, २३	रतनलाल पड्ढा
, २४	रमणिकलाल इनामदार
, २५	ललितकिंगोर गामा
, २६	लक्ष्मीचाद सोमाणी
, २७	लाभदावर दव
, २८	वामुदेव गास्त्री
, २९	विश्वमिकिंगोर घूच
, ३०	गारदामन मेहता
, ३१	हरिलाल पट्ट
, ३२	हरमिद्राय जागी

चांदावर भट्ट



भट्ट

पट्ट

दिन मासि

राजद्रप्रसाद भट्ट



गामा

उपाध्या

दिन मिति

चुलाल शठ



मरव  
वायद्यक  
जिला समिति  
एव  
वन्न-प्रवस्थापन

ताहेरमाई ज हीराणी

वा एम भी,  
वी एड वाकिर  
घारी गहर  
अवध  
धर गहर ग भा  
ग समिति

विष्णुप्रसाद भट्ट विठ्ठु"



उमरवा

मत्ती

जिला समिति

जरविदुमार ज शाह

चुणल

मत्ती

मिनी प्रचार  
समिति चुणल

कोतिकुमार कापडिया



मरव

उपमत्ती

जिला समिति

माणकलाल म बाचाय

लाम्बडी

प्रभव

रा भा ग्र समिति

लाम्बडा

शिवदुमार गुकल



बलसार

सांगित्याचाय

विद्यासूपण

प्रभुप

रा भा ग्र समिति

वर्गार

अम्बालाट ज मामाणी

लाम्बडा

जरवमार

रा भा ग्र समिति

लाम्बडा

अम्बालाल प्रा पड़वा



आदरियाणा

का यस्यापक

अमनलाल भा उपा याय



दावड

का द्रव्य स्यापक

जाम

१७ माच १९२१

गिरा—रा भा परिचय

ओच्छवलाल म याम



बोटडा

का द्रव्य स्यापक

जाम

११ अक्टूबर १९२९

गिरा—रा. ए (राजनी) रा ड  
का द्र

बचनलाल ज दरजा



जनपुरा

का द्रव्य स्यापक

जन

२ नवम्बर १९२१

गिरा—रा. जनपुरा दार्जा

करसनभाई श पटल



महेश्वारा

का द्र०—८स्यापक

जाम

१ जगत १९२२

गिरा—रा भा परिचय

कातावहन का भट्ठ



डभासा

का द्र० प्रवस्थापिका

जाम

२६ नवम्बर १९५

गिरा—ग भा परिचय

कातिलाल रविशावर सेलतू



नश्चण

का द्रव्यस्यापक

गिरा—रा भा परिचय मा ग्ल  
(व दि)

विशारद क उपायाय



आशम

का द्रव्यस्यापक

जाम

१५ नवम्बर १९२

गिरा—माल गायबौं विशार

वैसरीसिंह सो परमार



बरेरा

वृद्ध-व्यवस्थापन

जाय—३८ वर्ष

खाडाभाई जो पटल



दुडाब

वृद्ध-व्यवस्थापन

जम

गिला—री ए वा एड मापारत्न

३० मिनम्बर १९२८

गुणवत्तलाल अ यास



विलिया

वृद्ध-व्यवस्थापन

जम

१ जनवरी १०३८

गिला—इटर रा भा बाविं

गुणवत्तलाल प्र रीढाणी



योदाद

वृद्ध-व्यवस्थापन

जम

७ जुलाई १९११

गिला—री ए टी रा भा बाविं

गोविंदभाई का चौधरी



मेवड

वृद्ध-व्यवस्थापन

जम

१५ मार्च १९३७  
गिला—री ए (भानग) बाविं

चद्रवदन ह भट्ट



सोनासन

वृद्ध-व्यवस्थापन

जम

१ अप्रैल १९३५  
गिला—इटर विगारद सा मुधावर

चद्रशखर अ छाया



प्रमात्र पट्टन

वृद्ध-व्यवस्थापन

जम

२६ अप्रैल १०२

गिला—एम ए वी एड बावि—विनाल

चद्रसिंह भा जाटजा




जारामड़

वृद्ध-व्यवस्थापन


जम

२८ नवम्बर १९३२

गिला—गल्डुभाषा परिचय



चन्दुलाल गो शाह



हुलधरवास

के-द्र-व्यवस्थापन

जम

१९ दिसम्बर १२

गिरा—बी एम सी (जानग) एम एन

चन्दुलाल ह महेता

भ दोड

के-द्र-व्यवस्थापन

जम

२ मिनम्बर १९२६

गिरा—मट्रिक

चम्पवलाल पु गाह

कोहिना

के-द्र-व्यवस्थापन

जम

१५ फरवरी १९२६

गिरा—रा भा परिचय

चिमनलाल क गाह

सावरमता

के-द्र-व्यवस्थापन

जम

१ मिनम्बर १

गिरा—वा ए मट्रिक रन रा भा रन

चीमनलाल गो पटेल



उवारसद

के-द्र-व्यवस्थापन

जम

७ जून १९३२

गिरा—मट्रिक रा भा रल

जमनादास भा वावरा

इमरा

के-द्र-व्यवस्थापन

जम

१८ निनम्बर १९२७

गिरा—मट्रिक रा भा काविन

जसूबहन ही गोहेल



ल्लाला

के-द्र-व्यवस्थापन

जम

१ फरवरी १९२७

गिरा—राठुमया काविन

जीवराम तु वीरपटिया



बटोमन रोड

के-द्र-व्यवस्थापन

जम

२५ निनम्बर १९२५

गिरा—वा एम सी रा भा परिचय

ठाकुरदेव र लालचदानी



अतरजार  
वे द्रूपवस्थापन  
जम  
१७ जनवरी १९२२

नवनीतकुमार क पटल



पाठोट  
वे द्रूप वस्थापन  
जम

गिरा—बी ए (आनंद) बोदिद  
नवरगलाल क विरतसाता



सलाया  
वे द्रूपवस्थापन  
जम

गिरा—इटर कावित प्रवीण  
पुजालाल अ शाह



काणता  
वे द्रूपवस्थापन  
जम

गिरा—बी एस सी बी एड  
६ नवम्बर १०११

पुष्पोत्तम स गोसाई



कडा  
वे द्रूपवस्थापन  
जम  
२३ मई १९२६  
गिरा—मट्रिक काविद

प्रभाशकर ना जोशी शास्त्री



वडिया  
वे द्रूपवस्थापन  
जम  
१४ जनवरी १०१६  
गिरा—मट्रिक स सा रत्न

प्रवीणादेवी शर्मा




निशोरा  
वे द्रूपवस्थापन  
जम  
मवन १९७९  
गिरा—राष्ट्रभाषा परिचय

फूलचाद की महेता




हलवद  
वे द्रूपवस्थापन  
जम  
४ अप्रैल १०००  
गिरा—मट्रिक

## वावभाइ मो जानी



चराडा  
वाद्र व्यवस्थापक  
जम  
७ जगस्त १९२२  
गिरा—एम ए बी टी परिचय  
विहारीलाल क रावल



मस्तुगर  
वाद्र व्यवस्थापक  
जम  
२ जन— १०४

गिरा—राधाभाषा कांडा


मगलनास पु पटल



कहा  
वाद्र व्यवस्थापक

गिरा—गुरु फिरात

## महालक्ष्मीवेन जे शाहे



चुणल  
वाद्र व्यवस्थापिका  
जम  
११ माच १९३३  
गिरा—राधाभाषा परिचय

## महेद्रनाथ बालीदास वद्य



सोनगढ  
वेन व्यवस्थापक  
जम  
२७ जनवरी १९१६  
गिरा—बगड़कार हि गि सनत  
मट्टिर एम टी सी

## रतनलाल आ शर्मा



साणर  
वाद्र व्यवस्थापक  
जाय—३ वर

गिरा—झी ए बी ए रा भा रत्न

रतिलाल गि रावड



वयनी साठ  
वाद्र व्यवस्थापक  
जम  
२८ मई १२

गिरा—रा ए एम टा मा विनात

रतिलाल मूर राजगोर



राधनपुर  
वड-व्यवस्थापन  
जम  
६ फरवरी १९२३  
गिरा—मट्रिक रा भा कोविद



राजे दभाई एम भट्ट  
आमोद  
वड-व्यवस्थापन  
जम  
१७ दिसम्बर १९११  
गिरा—रो ए वी टी

रामसिंह श चौहान



देवकोवणसोल  
वड-व्यवस्थापन  
जम

११ मई १९७

गिरा—मट्रिक भागारत्त  
लितचढ़ ली धामाणी

आमरण  
वड-व्यवस्थापन

जम

२७ अगस्त १९७

गिरा—गाड़माणा परिचय

लक्ष्मीकात शकरलाल शाह



साढ़पुर  
वड-व्यवस्थापन  
जम

१ मार्च १०३६  
गिरा—मट्रिक भागागल परिचय

लक्ष्मीदत वी शमा



कहेलाल  
वड-व्यवस्थापन  
जम

२७ मार्च १९२५  
गिरा—ए मानित्य रत्न  
प्रभावर विद्यावाचनन्ति

लक्ष्मणभाई मो सालकी



मानावदर  
वड-व्यवस्थापन  
जम

१५ जनवरी १९१७  
गिरा—रा भा बाबिं एम टा भा


विठलभाई वग्रदास पट्ट



सापवाडा  
वड-व्यवस्थापन  
जम

२१ मार्च १९७६  
गिरा—मट्रिक रामी

### ब्रजलाल ह दशाणी




धारा  
वाद्र व्यवस्थापन  
जम  
२ फरवरी १९१९  
गिरा—रा ए राष्ट्रभाग रहन

### गातिलाल भा पठवा



हापा  
वाद्र व्यवस्थापन  
गिरा—मट्रिक्स

### गिवलाल मा पठल



डमोडा  
वाद्र व्यवस्थापन  
जम  
७ नवम्बर १९२५  
गिरा—रा ए एन एन वा कार्ड

### मुरद्रराय म दमाइ



मडा  
वाद्र व्यवस्थापन  
जम  
गिरम्बर १, १  
गिरा—गम ए वा रा कार्ड

### हरमानभाई स पटेल



जीतोडिया  
वाद्र व्यवस्थापन  
जम  
१६ जानूई १९२६  
गिरा—मट्रिक्स रा भा परिचय

### हरिगुनदास ख घनवाणी




कुवरनगर  
वाद्र व्यवस्थापन  
जम  
१० मई १९१२  
गिरा—वी ए एम टी सी

### हरिलाल वी दव



दबपुर  
वाद्र व्यवस्थापन  
जम  
६ जनवरी १९२६  
गिरा—राष्ट्रभाग परिचय

### हिमतलाल र त्रिवदी



सोलपुर  
वाद्र व्यवस्थापन  
आर—८ दप  
गिरा—राष्ट्रभाग परिचय

बनतेह म आचाय



बड़ोदा

प्रमाणित प्रचारक

४०१७

ज्ञाम

१२ अप्रैल १९२१

गिया—रा टक्स (टा) विनीत,  
राष्ट्रभाषा रत्न

अमृतगर छ गोम्बासी



जग्राल

प्रमाणित प्रचारक

७८६

ज्ञाम

२२ मार्च १९२२

गिया—पट्रिका रा भा रत्न,  
पि पि सन्दर्भ

अमतलाल मा भट्ट



खस्तनगढ़

प्रमाणित प्रचारक

४२९१

ज्ञाम

५ निवंबर १९२१

गिया—वी ए वो एर रा भा रत्न

अमृतभाई र परभार



कोकिला

प्रमाणित प्रचारक

२७०७

ज्ञाम

२५ जून १९३२

गिया—मट्रिक कांचि मा मुधामर  
प्रभा-३

अम्बाराम हरिदास पटेल



अहमदाबाद

प्रमाणित प्रचारक

२७०८

गिया—वी ए वी एर रा भा रत्न

अम्बालाल ने पटेल



पिलवार्ह

प्रमाणित प्रचारक

६५२३

ज्ञाम

२७ नवम्बर १९३७

गिया—इन्हर रा भा रत्न मा मुधामर

अम्बालाल नि पटेल



बड़ो

प्रमाणित प्रचारक

१९९८

गिया—वी ए एन एन वो वी एर,

रा भा रत्न

अस्त्रप्रसाद वि श्रिवेदी



सिद्धपुर

प्रमाणित प्रचारक

५९६०

ज्ञाम

१ अप्रैल १०२८

गिया—इन्हर, मातृत्व रत्न

### इद्रवदन ज पडया

खम्मात

प्रमाणित प्रचारक

५९९०

जम

२ अगस्त १९३४

गिरा—रा भा कवि विगारद विनीत



### इस्माइल गु मसूरी

भरव

प्रमाणित प्रचारक

६४१

जम

१३ मं १९१६

गिरा—रा भा कवि हि गि सन्



### ईश्वरभाई मधुरभाई पटल

चितोरा

प्रमाणित प्रचारक

६०६

जम

८ जून १९२८

गिरा—मट्रिक वाकिं नित

सा सुधार



### ईश्वरगाल वि जोगी

अमरेठ

प्रमाणित प्रचारक

४९६४

जम

१२ नवम्बर १९१३

गिरा—मट्रिक रन वितार मण्ड



### कन्हयालाल ज उपाध्याय

हारोल

प्रमाणित प्रचारक

२२४६

जम

२ जुलाई १९२४

गिरा—मट्रिक विगारद हि गि सन्



### कन्हयालाल वा भावसार

अहमदाबाद

प्रमाणित प्रचारक

४६३७

जम

९ नवम्बर १९३६



गिरा—कार विगार

### वहलाल मा पडया



सवालिया

प्रमाणित प्रचारक

४८४२

जम

४ फरवरा १९२८

गिरा—मट्रिक वाकिं

### वारीगढ़र गुरु

गिरु

प्रमाणित प्रचारक

‘

जम

१२ लाइन १९१५



गिरा—मट्रिक विगार

### कान्तिलाल उपाध्याय



मूर्काइला  
प्रमाणित प्रचारक  
४३९९  
जन्म  
२७ फरवरी १९३३  
गिरा—बी ए काविद विनीत

### कान्तिलाल व पटेल



बालीसंगा  
प्रमाणित प्रचारक  
५०४०  
जन्म  
१ नवम्बर १९३६  
गिरा—बा ग सहित दन रा भा रत

### कान्तिभाई अ याजिन



बुनावा  
प्रमाणित प्रचारक  
६६२२  
जन्म  
१९ अप्रृ १९३४

गिरा—विगारा सहित तीय  
स्वाकरणाचाय हि गि मत

### कान्तिलाल अ उपाध्याय



बडीदा  
प्रमाणित प्रचारक  
३३१७  
जन्म  
३ अक्टूबर १०२३  
गिरा—एम ए टी ई, काविन

### कान्तिलाल ही शाह



अहमदाबाद  
प्रमाणित प्रचारक  
२२७६  
जन्म  
२१ जुलाई १९३०  
गिरा—राष्ट्रभाषा काविन

### कान्तिलाल वा भट्ट



इमारा  
प्रमाणित प्रचारक  
२५९१  
जन्म  
५ मिनम्बर १९२७  
गिरा—मैटिंग काविन

### कान्तिलाल भा दादो



मोर्डी  
प्रमाणित प्रचारक  
२६४५  
जन्म  
७ फरवरी १९१८  
गिरा—बी ए, काविन

### कान्तिलाल भा पटेल



सन्दा  
प्रमाणित प्रचारक  
६५१८  
जन्म  
१५ निवांध १९३८  
गिरा—मैटिंग काविन हि गि मत

### वानितलाल वा गोर



सावडा

प्रमाणिन प्रचारक

१९५८

जन्म

२१ जन १९१७

गिया—दा ०० रा भा रत्न विनान

### वानितलाल ह पड़या



कुरुरवाडा

प्रमाणिन प्रचारक

६२७

गिया—सहित्य गाम्बो वाव्यनीय  
साहित्य रत्न

### बीतिकुमार वापडिया



मरव

प्रमाणिन प्रचारक

४६४१

जन्म

२ जनवरी २

गिया—दा एस मा रा भा रत्न दा एस

### बेनवराट पु पटें



विनगर

प्रमाणिन प्रचारक

५३८

गिया—ग्रंथ ए वा एस मा रत्न

### कृष्णप्रसाद ओ त्रिवेदी



भूतरसडा

प्रमाणिन प्रचारक

१६५९

जन्म

२४ अप्रैल १९१७

गिया—दी ए साहित्य रत्न

### खडूमाई कालीनाम पटल



सरई

प्रमाणिन प्रचारक

६५४

जन्म

१ जनवरी १९३०

गिया—मट्टिक विनीत भाष्यारत

### बीमजी लालजी वह



जरानी

प्रमाणिन प्रचारक

६६७६

जन्म

१४ जनवरी १००३

गिया—मट्टिक वाहिन विनान

### बादूमाद द गाना



मरवा

प्रमाणिन प्रचारक

५००३

जन्म

१ मिस्रवर १११

गिया—वाहिन

गुणवन्तलाल मो जोशी



बड़दा

प्रमाणित प्रचारक

२०९२

जम

गिया—बी ए टी डी साहित्य रत्न  
राष्ट्रभाषा रत्न

१५ दिसंबर १९२७

गमन स पहुंचा



गोपालपुरे

प्रमाणित प्रचारक

५६३१

जम

१० जनवरी १९३६

गिया—रा भा रत्न काविद

गोपीचन्द दी टप्पचादानी



जूनागढ़

प्रमाणित प्रचारक

५२२२

जम

११ मार्च १९३७

गिया—इटर रा भा काविद

गोविन्दजी भगवानजी महतो



बड़दा

प्रमाणित प्रचारक

४६४९

जम

२५ फरवरी १९४६

गिया—रा भा काविद किनीत

गोविन्दलाल वि पटल



झोटधा

प्रमाणित प्रचारक

६१०६

जम

१६ दिसंबर १९२७

गिया—बी ए रा भा रत्न

गोविन्दमाई स रामारी



दृडाव

प्रमाणित प्रचारक

६४४६

जम

१ मार्च १९३९

गिया—इटर रा भा रत्न

घनस्यामलाल ज शाह



चुणल

प्रमाणित प्रचारक

६८७१

जम

८ जनवरी १९२६

गिया—विनात मरहत भूपण

घनस्याम न पडथा



झूरत

प्रमाणित प्रचारक

६८४७

गिया—बी ए वा काम वा ज  
विनात हि नि सुना

चम्पकलाल चि पचोली



मिदागाम करजण  
प्रमाणित प्रचारक  
६५२२

जम

२८ जनवरी १९३६

गिरा—रा भा रत्न अध्यापन विचारक  
मट्टिक विनान मा हि नि सन्त

चन्दुलाल डा जोगी



माणसा  
प्रम जित प्रचारक  
४४९

जम

२७ मे १९२८

गिरा—मट्टिक विचारक विनीत  
व्यावरण गास्त्री

चिमनलाल चु पटेल



कडा  
प्रमाणित प्रचारक  
६५९५

जम

१४ जनवरी १३

गिरा—मट्टिक कावि-



चीमनभाद खो पटेल

अहमदाबाद  
प्रमाणित प्रचारक  
५३९६

जाप—४ वड

गिरा—राज गढ़भासा रत्न  
सा हि नि सन्त विनीत

चुनीभाई क पटेल



बोरसद  
प्रमाणित प्रचारक  
१९९३

जम

३ जनवरी १९१९

गिरा—मट्टिक रा भा कोविद

चनलाल ह आहुजा



कुबरनगर  
प्रमाणित प्रचारक  
३२६४

जम

४ माघ १९२९

गिरा—राज वादिं मा सुपार  
हि नि सन्त आख्यन कोविद

दगनलाल थ पटेल



टहाव  
प्रमाणित प्रचारक  
५५७२

जम

२ फरवरी १९३४

गिरा—वा ए कावि हि नि सन्त

दग्गीलाल फ कहार



बहाय  
प्रम जित प्रचारक  
३ ३०

जम

१ जनवरी १९४८

गिरा—मट्टुक वादिं फ नि सन्त

थाटलाल पु भट्ट

गण्डा

प्रमाणित प्रचारक

२९९१

जम

२८ जनवरी १९२०

राष्ट्रभाषा रत्न

गिरा—वा ए

थोट्टुभाई का पट्ट

मागल

प्रमाणित प्रचारक

५६६६

जम

१६ मार्च १९३०

गिरा—टर राष्ट्रभाषा रत्न

हि पि सन्त

जगदीशचंद्र भ व्यास

अहमगवाद

प्रमाणित प्रचारक

५३१७

जम

१५ अक्टूबर १९३३

गिरा—वी ए साहित्य रत्न गान्धी

जगुभाई वा पटेल

झटडी

प्रमाणित प्रचारक

२९३३

जम

१६ जून १९२०

गिरा—वी ए वी एह मा रत्न  
यस्त्र साहित्य ग्रान्त

जमनानाम छ जारी

धार

प्रमाणित प्रचारक

२१४१

जम

१ अगस्त १९१५

गिरा—वी ए राष्ट्रभाषा रत्न

जयन्तीलाल क भट्ट

आगतराई

प्रमाणित प्रचारक

५७५३

आयु—२१

गिरा—वी एह वगत साहित्य गान्धी  
साहित्य रत्न

जयन्तीलाल म शाह

लाघणन

प्रमाणित प्रचारक

६०३६

जम

१२ अगस्त १९१२

गिरा—वी ए, वा एह रा मा रत्न  
हि पि सन्त

जयन्तीलाल मा शाह

ओरजा

प्रमाणित प्रचारक

५११२

जम

१३ मार्च १९२१

गिरा—वा ए वी एह, वावि-

जशवाताम्हन अ जोपी

मगलेश्वर

प्रमाणित प्रचारिका

६३७९

जम

५ अगस्त १९३३

गिरा—रा भा बोविंद सा विनारद



जशवतलाल च शाह

रघुदाल

प्रमाणित प्रचारक

६९ १

जम

४ निम्बर १९८०

गिरा—भट्टिक रा भा रन सा मुगाकर

जाफरहुमन का मसूरी

अहमदाबाद

प्रमाणित प्रचारक

६९०८

आय—२५ वर

गिरा—रा ए बाविं विनान

हि गि सन्त



जीणाभाई ज पट्ट

ओरेणा

प्रमाणित प्रचारक

५५२३

आय—३ वर

गिरा—मिक विनारद विनान

बाविं सा मुगाकर

जीतेद्रकुमारध दव

अहमदाबाद

प्रमाणित प्रचारक

६६१८

जम

१५ मार्च १९३९

शिशा—डी ए कोविंद विनीत

जीवतराम जा लालवाणी

सरदारनगर

प्रमाणित प्रचारक

३६१५

जम

१ जनवरी १९२१

गिरा—भट्टिक बोविं हि गि सन्त

जीवनलाल गि देसाई

सखडा

प्रमाणित प्रचारक

१९९७

जम

२२ अक्टूबर १९१७

गिरा—डी ए विनारद सी हि गि सन्त

दाह्याभाई अ पटेल

अहमदाबाद

प्रमाणित प्रचारक

६६२८

आय—२१ वर

गिरा—मार्किय रन गिरा रन

बाहिर नाम्ना सा मुगाकर



डाह्यामाई यु लीमचिया



बालीमोर

प्रमाणित प्रचारक

२०६१

जम

१० अगस्त १९२१

गिया—मट्टिक वाविं हि गि सनद

डाह्यालाल ना प्रजापति



लीच

प्रमाणित प्रचारक

४८२५

जम

१३ नवम्बर १९२४

गिया—मट्टिक वाविं डा टी सी

डाह्यामाई प्र परमार



बीलीमोरा

प्रमाणित प्रचारक

३६०१

जम

२६ जुलाई १९१०

गिया—मट्टिक रा भा वाविद

डाह्यामाई श शाह



बह्मणवाइ

प्रमाणित प्रचारक

११५०

आयु—४० वय

गिया—मट्टिक रा भा रल विगार

अभ्यासन विगार

५५-१०

डूगरसी मूलजी मोना

जम्बूसर

प्रमाणित प्रचारक

३६७६

जम

४ जनवरी १९२४

गिया—मट्टिक, वाविं विनात

तजमल मो भागचदानी

गाधीधाम

प्रमाणित प्रचारक

५७१९

जम

१५ अगस्त १९३२

गिया—मट्टिक वाविं वाविल

अम्बवनाथ न पठथा

राजपोपला

प्रमाणित प्रचारक

४७४

जम

३ मई १९३१

गिया—साहित्य रल साहित्याचाय,

व्यावरणाचाय ही एड

अम्बवलाल पो भट्ट

राजपोट

प्रमाणित प्रचारक

४४०९

जम

१८ मिनम्बर १९२५

गिया—मट्टिक वाविं

दामोदर शि त्रिवेदी



प्रभासपाटन

प्रमाणित प्रचारक

६७४८

जाम

२६ सितम्बर १९३१

गिरा—मट्टिक वाविं एस टी सी

दिनकर व दीक्षित



पोरबादर

प्रमाणित प्रचारक

४६६२

जाम

११ अप्र० १९३४

गिरा—टर, वाविं एम टी सी  
एम जी एच

दिनशचन्द श गाह

अक्लेइश्वर

प्रमाणित प्रचारक ।

३११०

जाम

८ जून १९२८

गिरा—एम ए दा ई वाविं  
विगार्म



दीननाथ ज भुत्ना

घोल्का

प्रमाणित प्रचारक

५१९

जाम

१२८ सितम्बर १९२२

गिरा—ग भा विगार्म का नि गि मना  
एम टा मा

दीननाथ सो यास



हलधरवास

प्रमाणित प्रचारक

६९८०

जम

१७ नवम्बर १९३७

गिरा—वा ए साहित्य रल

धुलाभाई व पटेल



टीटोई

प्रमाणित प्रचारक

४५६६

जम

२० सितम्बर १९३३

गिरा—मट्टिक वोविं



नंदलाल जी शह

लीम्बडी

प्रमाणित प्रचारक

५७ २

जम

७ मार्च १९२६

गिरा—वा ए वाविं



नर्मीनाथ मा शठ

बतलपुर

प्रमाणित प्रचारक

४२१२

वाय—६ वय

गिरा—ग भा वाविं विगार्म  
नि गि मना

नटवरलाल ज शाह



कारबण  
प्रमाणित प्रचारक  
४११९  
जम  
१० मई १९२५  
गिरा—मट्टिक दी ही रा भा रल

नटवरलाल दे यास



महेसागा  
प्रमाणित प्रचारक  
६०३३  
जम  
२० अगस्त १०३१  
गिरा—मट्टिक काविन विनान्त

नटवरलाल मा पटल



अहमदाबाद  
प्रमाणित प्रचारक  
४०७७  
जम  
७ मार्च १९३०  
गिरा—इन्टर साहित्य रल

नटभाई के जोगी



बारमगाम  
प्रमाणित प्रचारक  
६१७७  
जम  
२२ मार्च १९३८  
गिरा—इन्टर कामग काविन

नरसिंहभाई सो प्रजापति



अधार  
प्रमाणित प्रचारक  
३३२१  
जम  
१० फरवरी १९२६  
गिरा—मट्टिक कोविन हि गि समद

नरोत्तमभाई पु परमार



सुदिया  
प्रमाणित प्रचारक  
७१६८  
जम  
२१ अप्रैल १९३७  
गिरा—मट्टिक काविन भाषा रल  
भाषा विनारद

नरोत्तमभाई मा पटल



टुडाव  
प्रमाणित प्रचारक  
६०३५  
जम  
१६ जनवरी १९३१  
गिरा—गी ए काविन

नवीनचंद सावरचाद मोरखीया



रापर  
प्रमाणित प्रचारक  
६८२४  
जम  
२० मार्च १४०  
गिरा—इन्टर, कोविन

### नवनीत शुक्ल



गिरा—मन्त्रि कोविं विनोत



### नसरुल्लाह भट्टी

निकोरा  
प्रमाणित प्रचारक  
६३८७  
जम  
२९ मई १९४०

गिरा—मंत्रि कोविं



गिरा—मन्त्रि रा भा रत्न विनान

नागरभाई गो पटल

बारडोली  
प्रमाणित प्रचारक  
५१३१  
जम

२१ मा १९ १

गिरा—मन्त्रि रा भा रत्न विनान

नागजीभाई पो पटेल

प्रसामराटग  
प्रमाणित प्रचारक

१०८

गिरा—गलर (सास) काविं


### पुरपोत्तमपवत ज गोस्वामी



देत्रोज  
प्रमाणित प्रचारक  
४६३९  
जम  
१७ अगस्त १९२७  
गिरा—पटेक काविं हि शि सन्त



पुरपोत्तम गो उपाध्याय  
चागा  
प्रमाणित प्रचारक  
४५४९  
जम  
१२ अप्रृ १९२८  
गिरा—मन्त्रि काविं विनान



पुरपोत्तमभाई मो पटल  
चबैती  
प्रमाणित प्रचारक  
६६६५  
जम  
२१ अप्रृ १९३०  
गिरा—दन्तर रा मा रत्न म विनान



पुरपोत्तमदास रा पटल  
बहलाल  
प्रमाणित प्रचारक  
६६३  
जम  
२२ माच १ १०  
गिरा—गलर काविं विनान

पुण्यावैन जोशी



सिद्धपुर

प्रमाणित प्रचारिका

७४७६

बायु—२९ वय  
(हिना) वी टी

पोपटलाल क गोपाणी



लाल्हडी

प्रमाणित प्रचारक

६३८६

गिया—इर बोविं



प्रताप वी भट्ठ

अहमदाबाद

प्रमाणित प्रचारक

१६६०

जम

५ जनवरी १९१०

गिया—इटर विगार हि गि सन्

प्रतापसिंह ल चौधरी

मगरोदा

प्रमाणित प्रचारक

४७३८

जम

१ अगस्त १९३३

गिया—वी ए, वी एट, रा भा रल

प्रभुदास क बणजारिया

पाणसोणा

प्रमाणित प्रचारक

६२२७

जम

८ मार्च १०२७

गिया—मद्रिक बोविं

प्रवीणचंद्र ई पटल

इटोला

प्रमाणित प्रचारक

१८६७

जम

१८ सितम्बर १९३४



प्रह्लादभाई क पटेल

साधुयण

प्रमाणित प्रचारक

६७७६

जम

१७ मार्च १९४१



प्रह्लादभाई श पटेल

पिल्वाई

प्रमाणित प्रचारक

७२९६

जम

२५ अगस्त १९४०




गिया—मद्रिक बोविं हि गि सन्

प्रह्लादभाई ह पटेल



वासना

प्रमाणित प्रचारक  
५९७७



गिराहा—राष्ट्रभाषा काविद

प्राणीकर ना पाठक

मुनपुर

प्रमाणित प्रचारक  
६५९४

जम

७ जनवरी १९ १

गिराहा—माहित्याचाय गिराहरल



फूर्सिह ग चोहान

आतरसुम्बा

प्रमाणित प्रचारक  
६२३१

जम

१ म १० ५

गिराहा—मद्रिश काविद विनीत



बचुभाई घ परमार

वायलामोठ

प्रमाणित प्रचारक  
७१६

जम

१ जन १

गिराहा—वा ए (आनन) रा भा रल



बचुभाई लक्ष्मीशकर धोलविया

अडाणीडली




प्रमाणित प्रचारक

४३ ६

जम

६ जून १९२४

गिराहा—वी ए काविद



बटुकभाई गा भट्ट

झूरत

प्रमाणित प्रचारक  
४६६१

जम

१७ जनवरी १९३

गिराहा—वा ए विनास्ट का वर  
हि गि सनद

बावूभाई प्र महेता

चारसमा

प्रमाणित प्रचारक  
६४४७

जम

१ अगस्त १० ६

गिराहा—वा ए वा ए रा भा रन  
अभ्यासन विनास्ट

बावूराम जगन्नाथप्रसान गमा



बस्तामारा

प्रमाणित प्रचारक  
६ ०

जम

१ नवम्बर १० ९

गिराहा—वा सर्टिफ रन

भगवानदास ति वीधाणी



कुवर्णगर

प्रमाणित प्रचारक

५७२९

जम

१६ जनवरी १९२२

गिरा—माहित्यगल

भगवानदास ति उनडकर



बल्लभविद्यानगर

प्रमाणित प्रचारक

५०७३

जम

२२ अगस्त १९२९

गिरा—राष्ट्रभाषा काविं

भवानीशकर ला रविया



यादाद

प्रमाणित प्रचारक

४७०७

जम

१५ जून १९५

गिरा—मट्रिक विनान विनान

माईलाल म भामतारा



माईला क-८८

प्रमाणित प्रचारक

११०

जम

१ जिनेम्बर १९२४

गिरा—मट्रिक वाकिं

भानुकर अ पठ्या



आदरियाणा

प्रमाणित प्रचारक

५६५९

जम

२२ नवम्बर १०२८

गिरा—राष्ट्रभाषा काविं

भानुकर क पठ्या



लाम्बडा

प्रमाणित प्रचारक

५७०१

जम

१ जनवरा १०२८

गिरा—मट्रिक काविं

भानुप्रसाद सा पठ्या



करमसद

प्रमाणित प्रचारक

६०१

जम

२० अगस्त १९१७

गिरा—टर विनान वाकिं हि गि सन्न

भारतसिंह अ राज



निहारा

प्रमाणित प्रचारक

५०४

जम

२८ वप्प

गिरा—मट्रिक विनान हि गि सन्न

## भीखूभाई छ जोशी



अहमदाबाद  
प्रमाणित प्रचारक  
३४  
जम  
६ जनवरी १९०१

गिशा—वा ए टा टा वा ई  
साहित्य रन हि गि सन-

## भोगीलाल ची जानी



चराडा  
प्रमाणित प्रचारक  
६८७६  
जम  
३१ जुलाई १९३२

गिशा—मट्रिक एस टा सा  
कोवि भाषारतन

## भोगीलाल पु भावसार



अहमदाबाद  
प्रमाणित प्रचारक  
१८९  
आय—२३ रुप  
गिशा—मट्रिक एस टा सा विशार्द

## भागाराल वि बुगारा



तलाव  
प्रमाणित प्रचारक  
४७

गिशा—वा ए (गन्म) गा ड कावि

## मगलभाई जे शाह



अहमदाबाद  
प्रमाणित प्रचारक  
५३७४  
जम  
१० फरवरी १९३३

## मगलदास मा शाह



नयाडसा  
प्रमाणित प्रचारक  
३४११  
जम  
१९ जनवरी १९९९

गिशा—मट्रिक वाविन

## मगनभाई भी पटल



गवाडा  
प्रमाणित प्रचारक  
२१५५  
जम  
२६ जुलाई १९२६

गिशा—वा ए गम टा सा ग भा रन

## मगनशर्म भी जानी



जामसलाया  
प्रमाणित प्रचारक  
५९६६  
तम  
१८ अगस्त १०६  
गिशा—मट्रिक वाविन

मणिभाई ई प्रेजापति



मणुद

प्रमाणित प्रचारक  
६१५०

जम

गिरा—इटर साहित्य रत्न  
१८ माच १९३६

मणीलाल म परीय



लोम्बडी

प्रमाणिक प्रचारक  
६१०४

जम

गिरा—मट्टिक एस टी सी कावित  
२ निसम्बर १९३०

मधुवाता र शुक्ल



लोम्बडी

प्रमाणित प्रचारिका  
६३०१

जम

गिरा—इटर बोकिं  
१२ फरवरी १९३६

मधुसूदन प्रे पाठक



सांडाताल

प्रमाणित प्रचारक  
३८०

जम

गिरा—मट्टिक रा भा रत्न  
१६ माच १९३०

सो हि गि गन्त

मनहरलाल वा भट्ट

बडोशा

प्रमाणित प्रचारक  
१८८६

जम

गिरा—मटिक कावि  
२४ अगस्त १९२०



मनसुखलाल न बदामिया

जामनगर

प्रमाणिक प्रचारक  
५१३७

जम

गिरा—गम एस सी कावित  
१९ नवम्बर १९३६

मनोहरलाल सु पाटडिया



लोम्बडी

प्रमाणिक प्रचारक  
५२१६

जम

गिरा—मट्टिक बोकिं  
१९ नवम्बर १९३६

मनुभाई ई व्यास



भावनगर

प्रमाणित प्रचारक  
५२७०

जम

गिरा—१५ अक्टूबर १९३३

गिरा—एस टा रा रा भा कावित

### मनुभाई ल याजिक



वालभविद्यानगर  
प्रमाणित प्रचारक  
५६८  
जम  
३१ जुलाई १३१  
गिया—मानित्य रत्न साहित्य आचार्य  
कायनाथ हिं रि सनद

### मफतलाल ज पटल



विसनगढ़  
प्रमाणित प्रचारक  
४६४३  
जम  
२९ अप्रृ १९५५

गिया—वी ए साहित्य रत्न  
रा भा रत्न साहित्य शास्त्री

### महेंद्र ही अजारिया



पाटण  
प्रमाणित प्रचारक  
४६६१  
जम

१ २१ अक्टूबर १९५६  
गिया—एम ए वा टा साहित्य रत्न  
मानित्य ग्रन्थ ही पाठिया परावाला



वेजनपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
१२२  
जम  
५ अगस्त १९५८  
गिया—एम ए वा वादि रि सनद

### मुगटलाल पु थानकी



पोरबदर  
प्रमाणित प्रचारक  
६९८२  
जम  
१२ नवम्बर १९३३  
गिया—इटर रा भा रत्न विज्ञान

### मूलशवर ग ओझा



बोटाद  
प्रमाणित प्रचारक  
३८९६  
जम  
५ मार्च १९१०

गिया—मदिव रा भा वाविं

### मेघनाथ एस नाथाणा



जादिपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
५६०  
जम  
१७ जून १९३६

गिया—राष्ट्रभाषा वाविं

### मणद वाला डागर



राजा  
प्रमाणित प्रचारक  
५६०  
जम  
१ परवर २२२३  
गिया—मदिव रा भा वाविं

मोतीलाल चु शाह

सखडा

प्रमाणित प्रचारक

२६०७

जम

१ फरवरा १९२०

गिरा—ग भा रल हि गि सन्

मोहनलाल कु शाह

स्टोलेंडगन दोहद

प्रमाणित प्रचारक

४९२४

जम

१८ नवम्बर १९१८

गिरा—वा ए टी दा वाकिं विनात

रघुनाथ भाई द ब्रह्मटट

यसाई

प्रमाणित प्रचारक

१६६९

जम

१ अगस्त १९२२

गि ग—मट्टिं रा भा रल

रजनीकात नि शास्त्री

मावो

प्रमाणित प्रचारक

४५१६

जम

११ मार्च १९२८

गिरा—एम दा गा वाकिं

रतिलाल पु पठेधा

हारोज

प्रमाणित प्रचारक

६७८१

जम

११ निम्बर १९३३  
गिरा—गाम्बी विनारद

रमणलाल च पटेल

पाचोर

प्रमाणित प्रचारक

५२८४

जम

३१ मई १९२९  
गिरा—वी ए वी ए रा भा रल

रमणिकलाल च रावल

बहूदायाद

प्रमाणित प्रचारक

४०७९

जम

११ जनवरी १०३०  
गिरा—वी ए (आनस) वाकिं

रमणलाल च राणा

बलसार

प्रमाणित प्रचारक

२९३५

जम

१६ निम्बर १९३१  
गिरा—एम ए वाकिं

रमणलाल भी नायक

इच्छापत्र

प्रमाणित प्रचारक

४७१५

ज म

द अगस्त १९३०

गिरा—वा ए टी एन काविं

रमावात हिमतलाल रावल

सागद

प्रमाणित प्रचारक

५८२४

आय २६ वष्य

गिरा—इटर एम टी सी काविं

विनीत साहित्य मुद्राकर

रवजीभाई सा चौहाण

सावर कुड़ला

प्रमाणित प्रचारक

६७६८

ज म

२८ फरवरी १९४१

गिरा—महिं काविं विनात

रवीद्रभाई गा पटल

अशामा

प्रमाणित प्रचारक

१६४

ज म

१ अक्टूबर १०-

गिरा—महिं साहित्य रन

हि यि रुन

रसिकलाल डो रावल

पटडी

प्रमाणित प्रचारक

५६६०

ज म

२ फरवरी १०२६

गिरा—राष्ट्रभाषा काविं

रसिकलाल श भावसार

समो

प्रमाणित प्रचारक

६१५८

ज म

१२ जनवरी १९ ३

गिरा—वी ए एम टी सी  
राष्ट्रभाषा रन विनीत

राजाभाई ख लादीवाला

पी द दर

प्रमाणित प्रचारक

२८६१

ज म

१० जनवरी १०२३

गिरा—गुर राज वा एफ टी एम  
वादि

रावजाभाई पु पटल

चांडा

प्रमाणित प्रचारक

३८८१

ज म

३० नवंबर १९ ३

गिरा—एम ए वा एट मार्य रन

राष्ट्रभाषा रन

रघुनाथभाई जी ब्रह्मभट्ट  
  
 पिलवाई  
 प्रमाणित प्रचारक  
 ४१४१  
 जम  
 २० फरवरी १९३३  
 गिरा—इटर रा भा रन हि गिरा

लल्लुभाई म पटल  
  
 वाघरेचा  
 प्रमाणित प्रचारक  
 ४५६४  
 जम  
 २६ अप्र० १०२७  
 गिरा—रा भा कावि हि गिरा

ललिता जी मेहता

पोखदर  
 प्रमाणित प्रचारिणी  
 ६३८८

जम

गिरा—मस्तिष्क एम टी सी कावि

शास्त्री लालधाराम ल पठ्या

बघरेली  
 प्रमाणित प्रचारक  
 १६७९

जम

२४ अप्र० १० ७  
 गिरा—मस्तिष्क पोखिं गांधी

लाभगवर ढो मेहता  
  
 मटेसाणा  
 प्रमाणि, प्रचारक  
 ६५६१  
 जम  
 ७ अगस्त १९२३  
 गिरा—इटर ढो टी सी कावि-  
 विनीत

लालजीभाई भा राठोड  
  
 अहमदाबाद  
 प्रमाणित प्रचारक

४५६१

जम

१३ नवम्बर १९३२  
 रा भा रन

लीलाराम कि वक्ड

जामनगर

प्रमाणित प्रचारक  
 ४३३

जम

१२ मार्च १९१९  
 गिरा—रा भा रन विनीत

वजाजी व ब्रह्मभट्ट

पिलवाई  
 प्रमाणित प्रचारक  
 ४७२५

जम

११ अप्र० १९३२  
 गिरा—इटर रा भा रन

वेजशकर द मेहता



जतलसर

प्रमाणित प्रचारक

२७८१

जम

१ मार्च १९२

गिराव—मन्त्रिक कविता

वल्लभदास नि चुडास्मा



जहमदाबाद

प्रमाणित प्रचारक

६९८५

जम

२९ अक्टूबर १९४५

गिराव—मन्त्रिक कविता विनायक

वसात एल आगर



अमरेली

प्रमाणित प्रचारक

६२९९

जम

१६ फरवरी १९४

गिराव—मन्त्रिक कविता विनीत

वसन्तवहन र परमार



पोरबदर

प्रमाणित प्रचारिका

६८५

जम

३ अगस्त १९४३

गिराव—पर एम टा सा कविता

वासुदेव डी पचौली



जहमदाबाद

प्रमाणित प्रचारक

४६६३

आयु—३४ वर्ष

गिराव—एन टी सा हि गि सन्त  
रा भा रत्न (प्र ख)

विनायकराव शर्मा



निशोरा

प्रमाणित प्रचारक

१४२०

गिराव—रा भा रत्न साहित्य रत्न  
जायवंद विनायक

विष्णुप्रसाद भ दोधा



जहमदाबाद

प्रमाणित प्रचारक

६८०८

जम

६ जून १०२०

गिराव—मन्त्रिक कविता



विष्णुप्रसाद ला तिमारा

साप्तग्रन्थ

प्रमाणित प्रचारक

२८०

जम

२८ अगस्त १०२९

गिराव—वा ए रा भा रत्न विनाय

### विष्णुप्रसाद हि श्रीदेवी

उदासद

प्रमाणित प्रचारक

६६१०

जम

४ नवम्बर १९३६

गिया—मट्टिक काविं एस टी सी

### विष्णुप्रसाद भट्ट पिंडु'

उमरवा

प्रमाणित प्रचारक

५८३

जम

१ फरवरी १९१६

गिया—साहित्य रत्न, सी हि गि सत्त

### विष्णुशंकर भा श्रीदेवी

सरलज

प्रमाणित प्रचारक

२७३८

जम

३ १७ अप्रृ १९१२

गिया—रा भा काविं गि गि मन्त्र

### दण्डलाल म साहसिया

जूनागढ़

प्रमाणित प्रचारक

७४६९

जम

२५ परम्परा १९४०

गिया—मट्टिक काविं विनोत

### शकरभाई गा पटेल

बडा

प्रमाणित प्रचारक

७०२०

जम

२३ अक्टू १९२६

गिया—इटर, (साइस) रा भा रत्न,  
विनोत

### शायालदत ग दशिणी

राधनपुर

प्रमाणित प्रचारक

५९८७

जम

१५ निसम्बर १९३६

गिया—इटर काविं विनोत

### शानुभाई घ पट्ट

भद्रव

प्रमाणित प्रचारक

२६८७

जम

१७ अगस्त १९३२

गिया—साहित्याचाय

### इयामजी ढू ठकर

भद्रर

प्रमाणित प्रचारक

६७३८

जम

१२ मिन १९४५

गिया—इटर रा भा रत्न, (प्रथ)

शशिकात मो दोशी



मोर्वी

प्रमाणित प्रचारक

६३२५

जन्म

२२ अप्रृ १९४०

गिया—दूटर (सादस) रा भा रल

शशिकात सा शाह



जामनगर

प्रमाणित प्रचारक

६४६४

जन्म

२ नवम्बर १९८८

गिया—मट्टिक काविन् काविन्

हि गि सन्त

गाता भ अम्ब



मोडासा

प्रमाणित प्रचारिका

६४६६

जन्म

७ जन्म १९८८

गिया—राष्ट्रभाषा काविन्

गातिलाल चु गाह



बासिडा

प्रमाणित प्रचारक

६५१५

जन्म

३ जन्म १९२९

गिया—या ए टा डा काविन्

साँच्य सुधारक

शातिलाल ह यास



आनद

प्रमाणित प्रचारक

४७१३

जन्म

२४ जुलाई १९२१

गिया—मट्टिक साहित्य रत्न साहित्याचाय

सनतकुमार चु गलियारा



सूरत

प्रमाणित प्रचारक

५४९१

आयु—२६ वर्ष

गिया—टाटर काविन् हि गि सन्त  
एस टी सी

सद्वूरभाई ज वाराठ



बडोन

प्रमाणित प्रचारिका

८८७

जन्म

९ जून १९२०

गिया—काविन् आयवँशियग्

साकाभाई ज पट्टल



चराई

प्रमाणित प्रचारक

९८२

जन्म

१६ जनवरी १९२५

गिया—या ए ग भा रन गि गि गन

सावरलाल झी पचाल



मरव

प्रमाणित प्रचारक

१०२२

बाय—४४ वप

गिया—रा भा रत्न हि नि सनू १  
एम टी भा

साहेब सिंह ज गज



उद्यनायाड

प्रमाणित प्रचारक

५७६६

जम

४ फरवरा १९५०

गिया—मट्टिक एस टा मी विनान

हि नि सनू

सीताराम भा डागरे

बडोदा

प्रमाणित प्रचारक

६५२५

जम

१५ जून १९३२

गि ग—बा ग (आनग) एम टा सा

रा भा रत्न गाहिय रत्न

मुमद्रामहन सानी

बहुमदावाद

प्रमाणित प्रचारिका

७४६६

जम

१५ अक्टूबर १०२५

गिया—भी ग बा टी एम ए

मट्टिक विद्याविनाना

८५-१२

सोमदत्त नायाणी



आविपुर

प्रमाणित प्रचारक

४०४५

जम

११ अक्टूबर १९२१

मट्टिक रा भा रत्न विनान

काविन

मामाभाई न पटल

देल्वाडा

प्रमाणित प्रचारक

६८२०

जम

१ मई १९३९

गिया—मट्टिक कोविन भाषा रत्न

हरगोविन्द न पटल

रणुज

प्रमाणित प्रचारक

५८५९

जम

१५ जून १९४५

गिया—ग भा रत्न विनीत

हि नि सनू एम टा भा

हरनारायण उ पडथा

परोनन रोढ

प्रमाणित प्रचारक

७१६५

जम

६ जून १९५

गिया—मट्टिक गाहिय रत्न

गाहिय गाहिय वास्तवाय

### हरदास ठा खट्टर



राजस्थान  
प्रमाणित प्रचारक  
५९८६  
जून  
२३ अक्टूबर १९८

गिरा—ग भा रत्न माहिय रत्न

### हरिनास ना जागर



जोड़िया  
प्रमाणित प्रचारक  
९४  
जून  
१ जून १९२२

गिरा—ग ए पम ठा मा काविन

### हरिप्रसाद भी पाठ्य



तारापुर  
प्रमाणित प्रचारक  
१८२३  
जून  
१५ जून १९१८

गिरा—ग भा काविन दि गि मन्द

### हरिनान दि मुथार



झृमणवाल  
प्रमाणित प्रचारक  
४४९  
जून  
१५ जून १९२

दि ग—मट्रिक रा भा रन  
अन्नान विश्वास दि गि मन्द

### हरीराम भो छावरिया



आदिपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
५७१८  
जून  
१५ फरवरी १९१९

गिरा—मट्रिक रा भा रन ( प्र च )


### हरिनाल ह वाडिया



सूखत  
प्रमाणित प्रचारक  
५३३२  
जून  
११ जून १९२९

गिरा—माहिय रत्न रा भा रन  
दि गि मन्द सबन

### होरानाल भा परोय



होटाणा  
प्रमाणित प्रचारक  
६८०३  
जून  
१ अगस्त १९२१

गिरा—वा ए वा ए ठा ही काविन

### थीचान च तनरजा



कुबरनगर  
प्रमाणित प्रचारक  
६६३८  
जून  
१८ मा १० च

गिरा—मट्रिक रा भा काविन

# ज्ञान कामीर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, श्रीनगर

अध्यक्ष

सचालक



जे डी जाहू

एम ए एम ही एट एच एच एम

हुकीम श्रीशम्भुनाथ पारिख

मानाणी तपा बैड ध्येयविज्ञा

थीमती व मता पारिख प्रभाकर' →

पृथ्वीताथ "मधुप"



धोनगर

उपमन्त्री

ज्ञान

१० अप्र० १९४

तिगा—पंच ५



रामकृष्णघर "निमल"



थानगर

प्रचार मंत्री

जम

१८ जनवरी १९६०

गिरा—एम ए गोप्ता सी

द्वारकानाथ



दरवार

वैद्यन्यवस्थापन

जौनारकृष्ण गिरु



भागाम

वैद्यन्यवस्थापन

इयामलाल कील



आठन

वैद्यन्यवस्थापन

जम

२१ जनवरी १९६२

जगन्नाथ पट्टित



बारामुंडा

वैद्यन्यवस्थापन

जाम—५<sup>१</sup> वय

गिरा—एम ए (मधूत)

मुरीला कील



सट्टपार

वैद्यन्यवस्थापिता

गिरा—प्रभासर

जानवीनाथ दर



बाह्योर

वैद्यन्यवस्थापन

मामनाथ मुण्डी



उत्तमु उमानगरा

वैद्यन्यवस्थापन

जम

— म १९६२

गिरा—महिला

# पश्चिम वर्ग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति

लघुक



डा सुनीलकुमार चाउडज्या

विधायक—डा श्रीकुमार

उपाध्यक्ष—डा सुदुमार सेन

सजनीवात दास

विधम—जगन्नाथ बरोदाला

तुपार विश्वास

यतीशचंद्र गुप्त

रामदुमार भुवालका

गोरीगांव बजाज

कांगिम बाजार

प्रधान

कांगिम बाजार रा भा प्रचार समिति

मध्ये सचालक



रवतीरजन सिहा

सदस्य—मोहनसिंह सगर

आनंदीलाल पोद्दार

रामशन्मलाल नापाणी

मूरामन अग्रवाल

दामादरनास घना

भगीरथ माहता

प्रा विष्णुपद भट्टाचार्य

जनानन चतुर्वेदी

द्यगनलाल बजाज



कांगिम बाजार

प्रचार मंत्री

कांगिम बाजार रा भा प्रचार समिति

जवन्तिकुमार दास



बालीसही  
के—व्यवस्थापक

गिया—एम ए बी टी एम एल ए

कृष्णसाधन दत्त



कामारहाट  
के—व्यवस्थापक

ताराप्रसन सरकार



श्रीरामपुर  
के—व्यवस्थापक  
जम  
२५ फरवरी १९८

[गिया—हर]

धारेंद्रचंद्र चंद्रवर्ती



नियागढ़  
के—व्यवस्थापक  
जम  
१ मार्च १९०३

गिया—एम ए बी टी

रवीद्रनाथ वैरा



लापी  
के—व्यवस्थापक  
जम  
१ फरवरी १९१

गिया—बा ए

रवारानी गान्जी



जेनपर  
के—व्यवस्थापिका  
जम  
२ अप्रैल १९२४

गिया—मणिक

हमेद्रनाथ मिश्र



बद्धपुर  
के—व्यवस्थापक  
जम  
२ फरवरी १९०९

गिया—एम ए बी टा

चंजनकुमार गुडिया



दासपर  
प्रमाणि प्रधारत  
७।५५  
आ—७ वर  
गिया—मणिक कोविं

### उगनसिंह निगम



बद्धपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
७०३९  
जम  
१ अगस्त १०  
गिरा—मट्टिक वाविद

### बमलाकर तिवारी



मालदह  
प्रमाणित प्रचारक  
१७०  
जम  
४ जुलाई १९३८  
गिरा—ठर विगार

### बुरणचंद्र तिवारी



बगासा  
प्रमाणित प्रचारक  
६७३२  
जम  
७ नवम्बर १०२८  
गिरा—बी ए एल टी विगार

### बुरणचंद्र जा



बालूरपाट  
प्रमाणित प्राप्त  
४४४  
जम  
१ जानवर १९२१  
गिरा—मट्टि रा भा वाविद

### गणशत्रु शहा



कामारहाटी  
प्रमाणित प्रचारक  
११२२  
जम  
१० नवम्बर १९२८  
गिरा—मट्टिक वाविद

### जयगोविन मिथ



बाबो  
प्रमाणित प्रचारक  
४ २५  
आय—१६ वप

### जवाहरलाल भगत



रामपुरहाट  
प्रमाणित प्रचारक  
६२०  
जम  
२२ जुलाई १३  
गिरा—वा ए रा भा वाविद

### दुलानी चट्ठी



कस्तुरता  
प्रमाणित प्रचारिणी  
२७१३  
जम  
१४ अगस्त १३ ४  
गिरा—रा भा वाविद


### न दक्षमार वद्य



कुली  
प्रमाणित प्रचारक  
७१८८  
जन्म  
३ नवम्बर १९३३

गिरिश—भट्टिक विद्यार्थ

### नगद्रनाथ गुडिया



लाला  
प्रमाणित प्रचारक  
६५३८  
जन्म  
१४ फरवरी १ २२

गिरिश—भट्टिक विद्यार्थ

### नित्यानन्द भाना



बासासाही  
प्रमाणित प्रचारक  
६ १८  
जन्म  
१ मार्च १९२९

गिरिश—वी ए वी टा वोविं

### परेशनाथ मजुमदार



लालशंकर  
प्रमाणित प्रचारक  
६२९२  
जन्म  
५ नवम्बर १

गिरिश—स्टर वाविं एच एम वा

### वनवारीलाल पुरोहित



बोलपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
६५६८  
आयु—२३ वर्ष

गिरिश—रा भा वोविं

### वजनाथ राय



आसनसोल  
प्रमाणित प्रचारक  
२३३२  
जन्म  
२९ नवम्बर १९२३

गिरिश—एम ए आचार्य साहित्यानन्द  
सा रत्न

### रामश्वर पाण्डिय



लोहापुर  
प्रमाणित प्रचारक  
७०७८

गिरिश—माहित्य रत्न

### रामबिलास उपाध्याय



बहरमपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
८५२  
आय—४० वर्ष  
गिरिश—वा ए माहित्य भूषण

## रामस्वरूप पाण्डय



अजीमगज

प्रमाणित प्रचारक

२५३०

जम

१९ नवम्बर १९२०

गिरा—कावित साहित्य विगार्ह  
लक्ष्मीनारायण महापात्रो



खरगपुर

प्रमाणित प्रचारक

३४४५

जम

१५ जुलाई १९२६

गिरा—साहित्य रत्न रा भा रत्न  
लीलावती सक्सेना



खरगपुर

प्रमाणित प्रचारिका

४५६३

जम

१७ मार्च १९४१

गिरा—कावित रा भा रत्न  
विनयद्वाण अधिकारी



वाटो

प्रमाणित प्रशारक

५८०७

जम

१ परवरा १९२२

गिरा—वी रा वा टा कावि

## शचीद्र नारायण दाम



काचडापाडा

प्रमाणित प्रचारक

५८१७

जम

२२ अक्टूबर १९३८

गिरा—राष्ट्रभाषा काविद  
गिवानी चन्द्रवर्ती



नियमगज

प्रमाणित प्रचारिका

७०४६

जम

२० जनवरी १९२९

गिरा—रा भा काविद  
स्यामसुन्दर शमा



बाटुडा

प्रमाणित प्रचारक

६५५०

आयु—२३ वय

गिरा—रा भा काविद

स्यामसुन्दर ठाटुर



खलकत्ता

प्रमाणित प्रचारक

६४०

जम

१ मई १९२४

गिरा—गम रा वा बाम एन एन वी,  
वा रा विगार्ह

सुधामय दत्त



हावडा  
प्रमाणित प्रचारक  
४३४  
जम  
२६ जनवरी १९१८

गिरा—वी ई सो इ कावित

सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय



काशीम बाजार  
प्रमाणित प्रचारक  
६८६९  
जम  
१२ फरवरी १९३८

गिरा—राम रा भा कावित

सुरीलकुमार राय



सेवडापुली  
प्रमाणित प्रचारक  
६९७६  
जम  
१ जन १९२०

गिरा—मनिक रा भा कावित

हमतकुमार मिथ



आकलाबाद  
प्रमाणित प्रचारक  
५५८०

गिरा—रा भा कावित व्याख्यानीय

# घृष्णवर्द्ध राष्ट्रभाषा प्रचार समाज

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष



स.ल. सिलम  
उपाध्यक्ष



सुलोचना वहन मोदी  
बोयाध्यक्ष



रामभुशन पाण्डे



## भाग्नी-सचालद



कातिलाल जोशी

उवशी सुरनी



बम्बई  
सदस्य  
प्रान्तीय समिति  
जम  
१२ मार्च १२४

गिरा—एम ए एम एड



एस लधमण

बम्बई  
सदस्य  
प्रान्तीय सम्मेलन  
जम  
१ जन १९२२

गिरा—एम ए एन एन वी कोविं

गोविदराम वेसवाणी



बम्बई  
सदस्य  
प्रान्तीय समिति  
तथा  
बंद्र यवस्थापक  
गवालियाटोर

जम-४ मार्च १९९  
गिरा—एम ए एम टी सी कोविं

गोविदलाल वसीलाल



बम्बई  
सदस्य  
प्रान्तीय समिति

लीला ख वद्य



वम्बई

मरम्य

प्रान्तिय समिति

जम

२५ फरवरी १९२६

गिरा—राम ए पी श्री मानित्य रत्न

विमलशक्ति शास्त्री

वम्बई

मरम्य

प्रान्तिय समिति

जम

१२ जनवरा १९११

गिरा—मानित्य रत्न मानियाचाय

### घनश्मामदास पोहार



वम्बई

भतपूर वापाध्यण

वम्बा प्रा म

सदस्य—गोवधनदास व चतुरभुज

” मोहनलाल भट्ट

”, मधुवहन शाह

” वातिनान वाग्निया

एच एन श्रिवदी

” तथमीयहन सिध्वा

” गनतुमार वीणा

मदस्य—पी मोहनदास नायक

” भालाचढ़ शिवेदी

” रामनारायण तिवारी

” रामाधार गुक्ल

” नदनान यास

” द्वारखानास वद

” गागजी व शाह

अवनिधरनास ज यावजीर



घाटकोपर


वापाध्यवरम्याचाय

जम

१० निम्बद १९२२

गिरा—वी ए

छाटूभाई मयाराम जाणी



भाडवा

व व्यवस्थापन

जम

११ निम्बद १९२०


गिरा—रा शा रत्न वि श्री शन

प्रतापराय वि दवे



मुलुण्ड  
वै यवस्थापन  
जम  
२१ गिनवर १०१७

गिरा—एक वाय मी एम



बड़ला  
वै यवस्थापन  
जम  
१५ मिनवर ११

गिरा—दी एम या एस टी सी बाबिं

माणिकराव देशप्रभु



जोगवरा  
वै यवस्थापन  
जम  
२९ फरवरी १९२०

गिरा—दी ए



बोरोवला  
वै यवस्थापन  
जम  
१५ नवम्बर १९२६

रतिनाल ना पाठव

जगुरा मुकुद स्वातं



परेल  
प्रमाणिन प्रचारक  
५ २६  
जम  
९ फरवरी १ ३

गिरा—दी ए बाबिं



जवनश्वर गि जोगी  
कोर  
प्रमाणिन प्रचारक  
४०५७  
जम  
३ मई १९३४

गिरा—मट्टिक कोरिं नि नि सन्त

अनन्त वावूराव कुलकर्णी



बरला  
प्रमाणिन प्रचारक  
५४ ७  
जम

२ अगस्त १९२१

गिरा—टर साहित्य रत्न हि गि सन्त

अमरनाथ गुप्त



जोगवरी  
प्रमाणिन प्रचारक  
०३ ९  
जम

११ निम्बर १०२८  
गिरा—मट्टिक सान्ति रत्न

जमरनाय महादेवराव पाटोळ



परे  
प्रमाणित प्रचारक

२०६

जन्म

१५ नवम्बर १९३१

गिरा—एम ए टी डी साहित्य रत्न

अरविंद यण्डराव घडय



दादर  
प्रमाणित प्रचारक

६४५०

जन्म

२४ मई १९३९

गिरा—डी ए वाविं

अरुण छगनलाल यास



चारोवल  
प्रमाणित प्रचारक

५९०१

जन्म

२८ अप्रैल १९२०

गिरा—मट्रिक रा भा रत्न साहित्य रत्न

अदिगनी वि भट



जवळ राश्त  
प्रमाणित प्रचारिका

७ ६

जन्म

२३ जन्मे १९०

गिरा—मट्रिक राष्ट्रभाषा रत्न

आलुगहन फ वरोत्त्या



घोवोतलाव  
प्रमाणित प्रचारिका


६९९२

जन्म

२८ जनवरी १९२९

गिरा—मरिक एस टी सा वाविं

इद्रवात प्रा तुकन



विलेपारले  
प्रमाणित प्रचारक

२६७३

आयु—४१ वर्ष

गिरा—राष्ट्रभाषा वोविं

इद्रकुमारी महता



दादर  
प्रमाणित प्रचारिका


३०६७

जन्म

१० जन १९२१

गिरा—वा ए वाविं हि गि मन्न

इन्दु वारिया



गिरावि  
प्रमाणित प्रचारिका

१३००

जन्म

१० जन १९८८

गिरा—लम ए लम एच वा गी

साहित्य रत्न

उदयचन्द्र महादेव शर्मा

मानन्

प्रमाणित प्रचारक

५५९

जन्म

१० नवम्बर १९१२

गिरा—इटर साहित्य रत्न  
एवं एम डी एस

उद्धव पढ़रीनाथ कुलकर्णी

चेम्बूर

प्रमाणित प्रचारक

७४४

जन्म

१४ नवम्बर १९३६

गिरा—मट्रिक वाविद हि गि सन्त

उमिला भगवानदास सपट

शिव

प्रमाणित प्रचारिका

४७७२

जन्म

३ मार्च १९३५

गिरा—एम ए सान्ति रत्न रा भा  
रत हि गि सन्त

उमिना रमणभाई गुजर

गिरगाव

प्रमाणित प्रचारिका

३३५७

जन्म

२६ निनम्बर १९२

गिरा—बी ए वाविद

एन वे सुवण

चेम्बूर

प्रमाणित प्रचारक

५५०८

जन्म

१२ अप्रैल १९५५

गिरा—मट्रिक वाविद

एम यु प्रमी

चम्बूर—१

प्रमाणित प्रचारक

६६३६

गिरा—एम डी एवं एम एम सी

वरकुलन्तु राजन मनोन

भाण्डप

प्रमाणित प्रचारक

५७५१

जन्म

९ अगस्त १९३१

गिरा—बी ए कोविं

वातिलाल उ परीय

घरल

प्रमाणित प्रचारक

५३५३

जन्म

२१ जनाई १९२५

गिरा—राष्ट्रभाषा वाविद

वामीनाय दि बोलते



बम्बई-१३  
प्रमाणित प्रचारक

४०५८

जम

। १९ मार्च १९३२

गिया—मट्रिक बोविन् हि गि सनद

कुमुमदेवी हु बसूतवर



दादर  
प्रमाणित प्रचारिणी

४७६४

जम

। ३० मार्च १११९

गिया—राष्ट्रभाषा रत्न हि गि सनद

वे हरेद्र



चेम्बूर

प्रमाणित प्रचारक

५९२७

आयु

३६ वर्ष

गिया—मट्रिक बाविन् मिदात गास्ती

के जी नायर



साताकुज

प्रमाणित प्रचारक

६५४४

जम

। ५ मई १९३१

गिया—मट्रिक रा भा रत्न

प. प-१४

कृष्णाजी दाढू भयकार

मरगांव

प्रमाणित प्रचारक

८८१

जम

। ८ अगस्त १९२०

गिया—साहित्य रत्न हि गि सनद

कृष्णलाल व महेता

गिरगांव

प्रमाणित प्रचारक

४१५६

जम

। १७ मई १९०१

गिया—मट्रिक बाविन् बाविल  
अध्यापन विनाराद

गगाघर सदाशिव वाध

बम्बई-१

प्रमाणित प्रचारक

५४११

जम

। १५ जून १९२५

गिया—मट्रिक विनाराद

गोविदराव झ गनशाजी

वडाला

प्रमाणित प्रचारक

४५६५

जम

। १४ अक्टूबर १९१७

गिया—मट्रिक, एम टी सी, गाहित्यरत्न

गोविंद पहरीनाथ कुलवर्णी



बम्बर्ट

प्रमाणित प्रचारक

२९९

गिरासा—टर साहित्य रत्न

गोरीगकर ल उपाध्याय

गिरगाव

प्रमाणित प्रचारक

२५७

जम

१४ मार्च १९३४

गिरासा—एम ए जध्यापन विगारद

साहित्य रत्न

घनशयाम शकर पाठक

परेल

प्रमाणित प्रचारक

५७४

जम

६ मार्च १९२९

गिरासा—सा विगारद बोविं

हि गि सन्त

चण्डीप्रसाद ज्या दीड़ियाल

बोरोबल

प्रमाणित प्रचारक

२७२७

जम।

२५ जनवरी १९२५

गि गा—मट्रिक साहित्य रत्न

गि गि सन्त वद्यभूषण

चद्रबाल्त यल्लभजी महीधर

बांदीवलो

प्रमाणित प्रचारक

६९९

जम

२ मई १९२५

गि गा—इरर सस्तुत विगारद एस नी भी  
चम्पावती खण्डराव जासी



ठाकुरद्वार

प्रमाणित प्रचारिका

१९१८

गिरासा—रा भा बाविं हि गि सन्त

चेतनदेव वजीरानी

बम्बूर

प्रमाणित प्रचारक

३४२४

जम

१३ अप्रृ १९२६

गिरासा—मट्रिक सा रत्न हि गि सन्त



जगजीवनदास दे त्रिवेदी

भाण्डप

प्रमाणित प्रचारक

१७९१

जम

४ फरवरी १९२४

गिरासा—मट्रिक ए टी सी सा विगारद

गि गि सन्त

जगदीशलाल एवं शिंगराणी



वर्ष-३

प्रमाणित प्रचारक

१०४९

जम

१० निम्बर १९२३

गिरा—बी ए साहित्य रत्न प्रमाचर

जगमालसिंह दूलसिंह राठोड



शिंगराणी

प्रमाणित प्रचारक

६३४९

जम

२ अगस्त १९३३

गिरा—साहित्य रत्न (प्रष्ट)

जमरोठजी ए इजीनियर



भायपला

प्रमाणित प्रचारक

४५४९

जम

६ मिन्डर १०००

गिरा—रा भा वायर

जवाहरलाल भ शर्मा



परेल

प्रमाणित प्रचारक

५५६९

जम

१६ अगस्त १९२९

गिरा—मट्टि रा भा रत्न अध्यापन  
विगारद हि गि सन्द

जयन्तीप्रसाद रा मिथ्र



गिरावद

प्रमाणित प्रचारक

५४३८

जम

१ जनवरी १९२०

गिरा—विगारद पी टी सी

जया दलपतभाई महता



वार्ड-२

प्रमाणित प्रचारिका

४२५०

जम

१४ अगस्त १९२७

गिरा—मट्टि वाविन सा विगारद

जर दस्तम ईरानी



बोट

प्रमाणित प्रचारिका

१८८

जम

१ मिन्डर ११

गिरा—वा एग सा दी टी वाविन  
सा विगारद हि गि सन्द

जसवत ढी दपतरी



चिचपोक्डी

प्रमाणित प्रचारक

६३४८

गिरा—मट्टि रा भा रन तिनार

हि गि सन्द

जीवतराम रा सेतपाल



कुरला  
प्रमाणित प्रचारक  
६४६०  
जम  
१ जनवरी १९३७

गिक्षा—मट्टिक रत्न (प्र ख)  
डाह्यालाल प्र व्यास



गिव  
प्रमाणित प्रचारक  
६८१

गिक्षा—रा भा कोविद ज्योतिपाचाय  
एस टी सी

तारावहन चमनराय आचाय



विलेपारले  
प्रमाणित प्रचारिका  
५८६८  
आयु  
५९ वय

गिक्षा—राधुभाषा रत्न विद्या विनोदिनी



तारा वसंत बुवा  
बोरीवल  
प्रमाणित प्रचारिका  
३१४  
जम  
२८ जनवरी १९२२

गिक्षा—वा ए बी टी रा भा रत्न

तुवाराम स राणे



दहितर  
प्रमाणित प्रचारक  
१९४३  
जम  
१५ जनाई १०१२

गिक्षा—इटर साहित्य रत्न हि गि सन्त  
नीकमजी पदमशी



बड़ला  
प्रमाणित प्रचारक  
४९९७  
जम  
० सितम्बर १९१८

गिक्षा—इटर विद्यारत हि गि सन्त

दत्तात्रेय विठ्ठलराव बोडे



परेल  
प्रमाणित प्रचारक  
७२०३  
जम  
१५ निसम्बर १९२६

गिक्षा—मट्टिक रा भा वाकिं

दामादार गो मुळय  
दादर



प्रमाणित प्रचारक  
१५१

गिक्षा—गम ए बी टी डी काम  
साहित्य रत्न हि गि सन्त  
साहित्य विद्यारत (मराठी)

दिग्म्बर गो साठे



कुरुला

प्रमाणित प्रचारक

४५२१

जन्म

७ अक्टूबर १९२२

गिरा—वी ए वा वाम कावित

दिवाकर जोगनकर



कम्पर्ट-२८

प्रमाणित प्रचारक

१९०८

जन्म

२४ नियम्बर १९०५

गिरा—वी ए माहित्य रत्न  
हि नि सन्त

धनदेव यदुनंदन चौधे



मुलुड़

प्रमाणित प्रचारक

४५२१

जन्म

४ अगस्त १९२०

गिरा—गान्धी रत्न साहित्याचाय  
हिंने गिरा सन्त

नरहर भिवाजी प्रभु



दम्भई-१

प्रमाणित प्रचारक

१०४८

जन्म

१२ नवंबर १९१८

गिरा—मट्टिक विगारद हि नि सन्त

नरेद्रबुमार उमान



बोलवाडा

प्रमाणित प्रचारक

६५८

जन्म

२२ वर्ष

गिरा—वा ए कावित

डा नरेद्र नरात्मदास गाह



मूलेश्वर

प्रमाणित प्रचारक

१४२८

जन्म

१ अक्टूबर १९२१

गिरा—एम ए पा एवं ही माहित्य रत्न  
रा भा रत्न

नवीनचान्द हो लुठिया



याटकोपर

प्रमाणित प्रचारक

६१७३

जन्म

२० जुलाई १९३७

गिरा—वा वाम कावित

नामदेव भिवाजी नाईक



लालबाग

प्रमाणित प्रचारक

६१०८


जन्म

१५ जुलाई १९२९

गिरा—मट्टिक कावित

## नारायणदत जोगी

परेत



प्रमाणित प्रचारक

१७९२

जम

११ नवम्बर १९१६

गिरासा—मट्रिक विगारह



## निराजन प्राणलाल शठ

दिलेप रत्ने

प्रमाणित प्रचारक

६४७

जम

२८ दिसम्बर १०४

गिरासा—बी ए (आनंद) रा भा रत्न



## पिनास रोयन जावासवर

कुरला

प्रमाणित प्रचारक

६४७८

जम

५ जनाई १९३३

गिरासा—मट्रिक बोविं



## पी बी परमश्वर

घाटकोपर

प्रमाणित प्रचारक

५८८४

जम

२९ मितम्बर १ ३६

गिरासा—मट्रिक, रा भा रत्न (प्र ष)

## पुरुषोत्तम द माडवर

परेत



प्रमाणित प्रचारक

६१९५

जम

१ फरवरी १९२३

गिरासा—मट्रिक वाविं



## प्रतापसिंह ल सम्पट

बोर वल

प्रमाणित प्रचारक

४५४६

जम

४ नवम्बर १९२४

गिरासा—इन्द्र (सास) रा भा रत्न



## प्रमोदभाई भ कडबीया

गिरासा

प्रमाणित प्रचारक

४९२

जम

१७ मितम्बर १९२५

गिरासा—बी ए एस टी सी वाविं



## प्रमलता द दिघ

दादर



प्रमाणित प्रचारिका

४७

जम

१२ फरवरी १९२

गिरासा—राधुभाषा रत्न हि पि सन्त

बहुला चु याणावाला



च.राशाजार  
प्रमाणित प्रचारक

७० २

जम

१० अस्टूर १ ८०

गिया—टर बावित मापा रत्न

बलवतसिंह रावत



बम्बई-१

प्रमाणित प्रचारक

७१०९

जम

१७ अस्टूर १९५९

गिया—मदिव साहित्य रत्न

बलभाई गु नायक



बांदिदत्त

प्रमाणित प्रचारक

० ९

जम

५ जून १०२१

गिया—सा गियार नि गि गन्त

बन्दरभाई जो पटल



धाटझोपर

प्रमाणित प्रचारक

५४२०

जम

९ अगस्ट १ २४

गिया—रा भा बासि, नि गि गन्त

बाबूभाई न परीय



बोरीबली

प्रमाणित प्रचारक

२७४८


जम

२८ जुलाई १९५५

गिया—बी ए साहित्य रत्न

हि गि गन्त

बाबूभाई पु शाह



बोरीबली

प्रमाणित प्रचारक

२७३

जम

८ अगस्ट १९५४

गिया—टर एम टी भी बावित

बाबूलाल भ जयस्वाल



बम्बई-१३

प्रमाणित प्रचारक

० ७१९२

जम

१० जुलाई १०३२

गिया—मदिव साहित्य मुद्राकार

बालकृष्ण ज रावल



गिरगाँव -

प्रमाणित प्रचारक

८८८०

जम

६ मार्च १० ०

गिया—एम ए रा भा रत्न

हि गि गन्त

वालगवर ल ठापर

बम्बई-८

प्रमाणित प्रचारक

७२६

ज्ञाम

१८ जन १९२९

गिरा—रा भा रत्न प्रदीप इटर

बुधाजी विश्वम पेडणवर

बम्बई-१३

प्रमाणित प्रचारक

१२७

ज्ञाम

१५ जलाई १९२९

गिरा—इटर विगारू नि गि सनद

दुष्टिराम रा डालमिया

माटुगा

प्रमाणित प्रचारक

७१९९

ज्ञाम

११ निम्बर १९३८

नि गा—इटर काविन

भगवानजी लालजी राडिया

बोर बका

प्रमाणित प्रचारक

४९७५

ज्ञाम

१७ जून १९२७

गिरा—मनिक एम टी सी काविन  
दि नि सनद

भग्नुप्रसाद प्रजापति

बम्बई-३०

प्रमाणित प्रचारक

६५५

ज्ञाम

। १५ फरवरी १९२२

गिरा—मनिक रा भा रत्न साहित्य रत्न

भवानीगवर भट

बम्बई-९

प्रमाणित प्रचारक

३३६७

ज्ञाम

। १ फरवरी १९३८

गिरा—इटर साहित्य रत्न सा गास्ट्री  
नि गि सनद

मगननाल ज याजिक

बोरोवतो

प्रमाणित प्रचारक

४६१५

ज्ञाम

९ जनवरी १९२

गिरा—राष्ट्रभाषा बाबिन

मनुवान्त ला रावत

बोरोवतो

प्रमाणित प्रचारक

३९१५

ज्ञाम

२५ अक्टूबर १२४

गिरा—मनिक, रा भा रत्न

मनोहर सदाशिव सावन्त



परेल

प्रमाणिन प्रचारक

७२४

जम

१८ जनवरी १९२८

गिरा—मट्रिक रा भा काविन

महादेव चलवत फडके



बादर

प्रमाणिन प्रचारक

४३७६

जम

२६ जून १९२८

गिरा—माहित्य रत्न

माधव दत्तात्रय जोगी



जोगावरी

प्रमाणिन प्रचारक

७१८

जम

१८ गिनवर १९२६

गिरा—इतर रा भा काविन

मोरारजी जयराम गणेश



मुस्टाङ

प्रमाणिन प्रचारक

२२०१

जम

२६ अप्रैल १९०८

गिरा—गढ़भाषा रत्न

प्रधा-१५

माहनलाल च करवाणी



बम्बई-२९

प्रमाणिन प्रचारक

६२५९

जम

१० अप्रैल १९२७

गिरा—मट्रिक काविन

मोहनलाल दत्त



बम्बई-५०

प्रमाणिन प्रचारक

५४०८

जम

४ नवम्बर १९२८

गिरा—एम ए विगारद

माहनी क खुरानी



बड़ाना

प्रमाणिन प्रचारिका

६००

आय—५० वर्ष

गिरा—मट्रिक एम टा मा काविन

मुरनीधर भमामल आहूजा



बोलावाडा

प्रमाणिन प्रचारक

५२०६

जम

२ फरवरी १९२६

गिरा—मट्रिक काविन गा गाम्भा

## यशवन्तराय भ चौटाण



बम्बई  
प्रमाणित प्रचारक  
१७३६  
जाय—२९ वय  
गिरा—रा भा रत्न हि गि सनद

## रजनीकांत दा दिघ



पोरेगाव  
प्रमाणित प्रचारक  
५५४८  
जाम  
० अगस्त १९ २  
गिरा—वी ए रा भा रत्न हि गि सनद

## रमायाई जात्माराम प्रभु



दहिसर  
प्रमाणित प्रचारिका  
७२ ५  
जाम  
२६ जुलाई १९२७  
गिरा—रा भा काविन हि गि सनद

## रमेश काढदव गिदे



मरागाम  
प्रमाणित प्रचारक  
५३९९  
जाम  
२४ अगस्त १९२  
गिरा—मट्टिक रा भा काविन

## रमशच द्र रा गमा



गिरणाव  
प्रमाणित प्रचारक  
३२५८  
जाम  
११ जून १९ २  
गिरा—टटर टा ही सा निगार  
हि गि सनद

## राजलक्ष्मी राजगोपाल



दादर  
प्रमाणित प्रचारिका  
८५९५  
जाम  
१३ अगस्त १९२५  
गिरा—मट्टिक एस टी सी  
साहित्य रत्न हि गि सनद

## राजाराम वालकुण्ठण पाण्ड्य



माहिम  
प्रमाणित प्रचारक  
६२५५  
जाम  
१३ नवम्बर १९३३  
गिरा—मट्टिक रा भा रत्न

## राजद्रकुमार गा पारेख



गिरणाव  
प्रमाणित प्रचारक  
६४५८  
जाम  
११ नवम्बर १९३९  
गिरा—टटर वामग काविन

### राधेमाहत गमा



माहिम

प्रमाणित प्रचारक

४४९

जम

३ जनवरी १९६८

गिया—एम ए साहित्य रत्न



रामकृष्ण विष्णु कुलकर्णी

बोटोबलो

प्रमाणित प्रचारक

६४५२

जम

१८ नवम्बर १०१८

गिया—रा भा वारिं हि गि सन्त

### राम के सुवण



चेम्पूर

प्रमाणित प्रचारक

७२११

जम

२० निक्ष्वर १०६८

गिया—राष्ट्रभाषा पारिं

### रामाधार सिंह



साताशुन

प्रमाणित प्रचारक

७२६

जम

२७ मार्च १९२१

गिया—टाटर मार्शिय रत्न  
हि गि सन्त

### रामाधार दुवै



दादर

प्रमाणित प्रचारक

२०१९

जम

६ फरवरा १०१७

गिया—यद्विक माहित्य रत्न, वारिं

### रामनाथ सनानाद म्हाने



दादर

प्रमाणित प्रचारक

३५४४

जम

२२ अप्र० १९८०

गिया—एम ए वी काम साहित्य रत्न

### रामप्रवाश लक्ष्मणदास




बोलवाडा

प्रमाणित प्रचारक

६६१

गिया—इंडर रा भा वारिं

### रामरवर "रमज" राय



चेम्पूर

प्रमाणित प्रचारक

१७८

गिया—रा ए (हिं)

लीला केशवसिंहजी



चेम्बूर

प्रमाणित प्रचारक

६२६

ज म

२ निसम्बर १९३३

गिरामा—मट्रिक साहित्य रत्न हि गि सनद

लीला मोदगी



कुरला

प्रमाणित प्रचारिका

१७४१

ज म

२५ फरवरी १९२६

गिरामा—साहित्य रत्न हि गि सनद

लीला खडराव वदय



दादर

प्रमाणित प्रचारिका

४१३६

ज म

२ नवम्बर १० १३

गिरामा—एम ए वी टी साहित्य रत्न

लीला महादेव भागवत



दादर

प्रमाणित प्रचारिका

८४५

ज म

७ अप्रैल १९१२

गिरामा—रा भा काविं हि गि सनद

लीला व्रजनाल पद्मा



विनपारले

प्रमाणित प्रचारिका

३० १३

ज म

२२ नवम्बर १९३८

गि गा—राष्ट्रभाषा काविं

विजयानीरी म याजिक



बोरीवली

प्रमाणित प्रचारिका

६९९४

ज म

२५ निसम्बर १९२८

गि गा—रा भा काविं

विठ्ठलभाई पीताम्बरदास मववाणी



गिरगांव

प्रमाणित प्रचारक

३३६३

ज म

३ जनवरी १९२९

गिरामा—एक बाय ए साहित्य रत्न

हि गि सनद

विनोदराय व पारेख



वाम्बई-३

प्रमाणित प्रचारिका

६५५६

ज म

२ निसम्बर १९४१

गिरामा—मट्रिक रा भा रत्न

विमलशक्ति ना गान्धी

गिरावंव

प्रमाणित प्रचारक

१८१०

जम

१३ जनवरी १९११

गिरा—माहित्य रत्न, माहित्याचाय  
हि गि मत्त



विमलाशाई पटवधन

बर्थर्ड-३

प्रमाणित प्रचारिका

४६ ६

जम

१५ मार्च १९२५

गिरा—गण्डुभाषा वादिं



विष्णु नारायण कुटे

दादर

प्रमाणित प्रचारक

६९८९

जम

२८ अक्टूबर १ ३०

गिरा—मद्रिक माहित्य रत्न हि गि मत्त



विद्याम सोमा आचरकर

परेत

प्रमाणित प्रचारक

६१७

जम

१५ जनवार २०१२

गिरा—मद्रिक वादिं प्रवीण



वीरभट्टी छाटालाल मेघा

परत

प्रमाणित प्रचारिका

२८२८

जम

१ फरवरी १०२८

गिरा—गा विगार हि गि मत्त



वीरद्रवुमार ज दुगगन

कुरता

प्रमाणित प्रचारक

५५८६

जम

२३ मार्च १ २०

गिरा—वा ए ढा बास गा विगार

गातिप्रमाद च नैयानी

सान्ताकुन

प्रमाणित प्रचारक

१०२१

जम

१५ जनवार १९०

गिरा—गान्धी विगार हि गि मत्त



गिवावर भू जानी

गिरावंव

प्रमाणित प्रचारक

२ ३

जम

२० अक्टूबर १९२८

गिरा—माहित्य रत्न गा भा रत्न



शोभाराम उपाध्याय



अधरे  
प्रमाणित प्रचारक  
१३३

निषा—राष्ट्रभाषा काविद

सबदमन दु रावल  
बोटीवली  
प्रमाणित प्रचारक  
१४०३  
जन्म  
२३ अगस्त १९२५

निषा—वी ए साहित्य रत्न सबक  
हि पि सनद

सीताराम ज एयर  
बम्बई-१९  
प्रमाणित प्रचारक  
६११३  
जन्म  
१७ अक्टूबर १९१५

निषा—मट्रिक काविन  
सुरा बालकृष्ण सावत  
बम्बई-२८  
प्रमाणित प्रचारक  
७२५१  
जन्म  
२६ जनवरी १०३८

निषा—मट्रिक रा भा रत्न  
हि पि सनद

सुरेन्द्र नमदागवर ठाकेर



मूलेश्वर  
माणित प्रचारक  
३२३९  
जन्म  
० परवरी १९२२

निषा—वी ए एन एन वी  
रा भा रत्न हि पि सनद  
मुशीलकुमार शर्मा



बम्बई-१  
प्रमाणित प्रचारिका  
६७५८  
जन्म  
२० सितम्बर १९३६

निषा—इटर साहित्य रत्न



सुशीला भास्वर कुदर  
दादर  
प्रमाणित प्रचारक  
२८२२  
जन्म  
२६ अक्टूबर १९२८

निषा—मट्रिक साहित्य विगार्ह  
सोपानराव पि कावल



लार  
प्रमाणित प्रचारक  
७१६३  
जन्म  
४ जनवरी १९

निषा—मट्रिक रा भा कोविन

सोमेश्वर दा सवनूर

परेल

प्रमाणित प्रचारक

४५७५

जन्म

२१ नवम्बर १९२९

गिरा—इटर साहित्य रत्न दा भा रत्न  
हि गि सनद

हसराज थी सती

गिव

प्रमाणित प्रचारक

५०९१

जन्म

१६ मार्च १९२९

गिरा—मट्टिक सा विगार

हंसमुख एन नाणाकटी

बिलेपारले

प्रमाणित प्रचारिका

९०८

आमु—५३ वय

गिरा—विगार सा रत्न (प्र य)

हंमुमति वीरेंद्र महता

बिलेपारले

प्रमाणित प्रचारिका

१९७४

जन्म

११ नवम्बर १९२५

गिरा—मट्टिक बाविं



हरगाविंद मा निगम

गिरगांव

प्रमाणित प्रचारक

६४४६

जन्म

१५ अक्टूबर १९३२

गिरा—मट्टिक एस टो सी  
साहित्य मुद्राकार हि गि सनद

हरिओम दा भट्ट

बाबई-७

प्रमाणित प्रचारक

५९६६

जन्म

१३ नवम्बर १९३०

गिरा—मट्टिक रा भा बाविं

हरिप्रसाद छो पडथा

बोरोवती

प्रमाणित प्रचारक

३६७८

जन्म

९ अक्टूबर १९१७

गिरा—मट्टिक साहित्य रत्न

हरिराम रोशनलाल गर्मी

गिरगांव

प्रमाणित प्रचारक

३३६

जन्म

९ जनां १९११

गिरा—गा विगार गिरा विगार  
हि गि गनद एव दा टा



हरिहर द वि घुरी



परेल

प्रमाणित प्रचारक

६३१२

गिक्षा—मट्टिक वाविद

हेमलता ज पुरोहित

विलेपारले

प्रमाणित प्रचारिका

४३२१

जाम

२८ फरवरी १९२६



गिक्षा—साहित्य रत्न हि गि सनान

नानदेव भिकाजी नाईक

बम्बर्ड-१२

प्रमाणित प्रचारक

७२४२

जाम

१५ जनाई १९२९

गिक्षा—वी ए वाविद



श्रीधरराव नायडू

दादर

प्रमाणित प्रचारक

७५

जाम

२९ सिताम्बर १९५८



गिक्षा—टर सी पी एड

# घोलगाँव जिला समिति

समितिके सदस्य



द. प. माईत्रे

आर एच देशपांड



निर्गा—री ए, एल एल वा वा टी  
नारायण जो घाडा



निर्गा—राधुभाष्या बाबिं भट्टिक  
प. प. -११

यत्सूर  
वैद्यवस्थापन

जम

२८ जून १९२१

बाबिं भट्टिक

मल्लापा व वाठीवाल



निषाणी

वैद्यवस्थापन

जम

४ जुलाई १९१०

निर्गा—मट्टिक एम टा सी सा रत्न

वसतराव रा चहाण



बतगांव

वैद्यवस्थापन

निर्गा—री ए, वी टी


विनायक भ हेरवाडिवर



काटोभेंट बनगाव  
कार्यव्यवस्थापत्र  
जाम  
१२ जनवरी १ ११

गिरा—पी टी सी रा भा मध्यमा

दी एम मनीमठ



सबदत्ती  
वाद्रव्यवस्थापत्र  
जाम  
१५ जन १९७

गिरा—वा ग बी टी

गात पा च अल्लीमरद



विल्हुर  
कार्यव्यवस्थापत्र  
जाम  
२७ अगस्त १९

गिरा—एस टी सी रा भा परिचय

श्रीपाद अप्पाराव नवल



मुरेबान  
कार्यव्यवस्थापत्र

गिरा—वा एम सा वा ए काविं

अजुन वा मुदनूर



हालगा  
प्रमाणित प्रचारक  
१३१  
जाम  
२१ मिनम्बर १९३

गिरा—मट्रिक सा विगारद

अप्पासाहव ल गाधाड



ठलक्काडी  
प्रमाणित प्रचारक  
४५२  
जाम  
१५ मर्च १९३३

गिरा—मट्रिक एस टी सी  
सा विगारद हि गि सन्त

उमेग आ घुमे



बलगाव  
प्रमाणित प्रचारक  
५२९४  
जाम  
१३ मिनम्बर १९३८

गिरा—री ए माहित्य रत्न

एच एच मुगियरी



सबदत्ती  
प्रमाणित प्रचारक  
५०१  
जाम  
१ जन १९२७

गिरा—मट्रिक काविं गि गि सन्त

## गणपति म देवरकेर



यत्तर्गांव  
प्रमाणित प्रचारार्थ  
७१०७

गिया—मट्रिक सा विगार्ह, काविन

### गणेश द गर्दे



ठसवाडी  
प्रमाणित प्रचारार्थ  
७१०८  
जम  
११ जनवरी १०३९

गिया—मट्रिक एस टी सी पी टी सी  
राष्ट्रभाषा प्रवीण

### गाविंद रे अम्मणगी



यत्तर्गांव  
प्रमाणित प्रचारार्थ  
१२९०  
जम  
२५ फरवरी १०१८

गिया—मट्रिक रा भा विगार्ह

### जीदसाहेब पी ननाप



ठसवाडी  
प्रमाणित प्रचारार्थ  
४८०८  
आयु—५२ वर्ष

गिया—रा भा वादिं नि गि सन्त

## छत्र वा मराठे



बेलगाव  
प्रमाणित प्रचारिका  
११०  
जम  
२१ जनवरी १०२१

गिया—वी ए माहित्य गत्त

### तात्यासाहेब अ वरव



हांगाड  
प्रमाणित प्रचारार्थ  
४८०३  
जम  
१८ फरवरी १९३३

गिया—रा भा वादिं नि गि सन्त  
प्रवीण

### नागशराव व यमार



यानापुर  
प्रमाणित प्रचारार्थ  
४७२०  
जम  
१० अप्र० १०१८

गिया—मट्रिक रा भा वादिं  
हि गि सन्त

### नारायण महान्तव देवरखर



यत्तर्गांव  
प्रमाणित प्रचारार्थ  
५०२  
जम  
२६ जन १०२६

गिया—गा विगार्ह नि गि सन्त

परशुराम सि दाहापुरवर



अनगोल

प्रमाणित प्रचारक

७२२४

जम

९ अगस्त १९२६

गिरा—राष्ट्रभाषा कावित

प्रमाकर नारायणराव देशपांडे



बलगाव

प्रमाणित प्रचारक

१६ ९

जम

२४ अगस्त १९२९

गिरा—दी ए एस टी सी सा रल  
रा भा रल हि गि सन्त

बाबूराव कुमाणा बोलते



बलगाव

प्रमाणित प्रचारक

५४९८

जम

७ मितावर १९ २

गिरा—मट्रिक एस टी सी  
कोविद हि गि सन्त

बाबू निगोजी पाटील



यल्लूर

प्रमाणित प्रचारक

२३८४

गिरा—साहित्यानकार हि गि सन्त  
सा प्राप

बाबूराव वा हुलमनी

यतराव

प्रमाणित प्रचारक

५८४४

जम

७ जनवरी १९३४

गिरा—मट्रिक एस टी सी कावित

बाबूराव रा सामरेकर



यल्लूर

प्रमाणित प्रचारक

२८९३

जम

५ जून १९२१

गिरा—मट्रिक विगा हि गि सन्त  
सा प्राप

बाबूराव वि पाटील



यल्लूर

प्रमाणित प्रचारक

४०५५

जम

१४ मार्च १९३१

गिरा—साहित्यानकार सा विगारक  
हि गि सन्त

भरमाजी श घुगरेटकर



बलगाव

प्रमाणित प्रचारक

७००४

जम

१० मार्च १९३६

गिरा—मट्रिक एस टी सी बोविं

### मेलाया चि मनवाडे



बलगाव  
प्रमाणित प्रचारक  
३४६०  
जाम  
१० जनवरी १९२८

गिरा—मद्दिव भा विगार

### महमद चाद नदाफ




ठत्सवाडी  
प्रमाणित प्रचारक  
७२२१

आय—२० वर्ष

गिरा—मद्दिव रा भा कोविं

### महादेव पु पाटील



यत्सूर  
प्रमाणित प्रचारक  
२७२२

जाम

१९ अक्टूबर १९१०

गिरा—साहित्यालकार सा विगार  
हि गि सन् मद्दिव

### महादेव य वारेकर



बलगाव  
प्रमाणित प्रचारक  
६२८

जाम

१० जनवरी १९३६

गिरा—राष्ट्रभाषा कोविं  
साहित्य प्रान हि गि सन्

### यशवत य पाटील



अनगोल  
प्रमाणित प्रचारक  
६०५४  
जाम  
२२ अगस्त १९३४

गिरा—राष्ट्रभाषा वाचिं  
हि गि सन्

### रघुनाथ क पोट



ठत्सवाडी  
प्रमाणित प्रचारक  
४००२  
जाम  
४ जून १९३८

गिरा—वी ए वी एड साहित्य रल

### रघुनाथ वाजिबुष्ण मराठे



बलगाव  
प्रमाणित प्रचारक  
१८५७  
जाम  
७ अप्रैल १९२७

गिरा—माहिय रल हि गि सन्

### रामचंद्र गा पाटील



पहाडुर  
प्रमाणित प्रचारक  
३४५८  
जाम  
१७ जनवरी १९२९

गिरा—माहिय रल (प्र य)  
हि गि सन् मद्दिव

रामचंद्रराव जि घाढी

यल्लूर

प्रमाणित प्रचारक

४१५४

जम

१६ मई १९२१

गिरा—मट्रिक सा विगारह  
हि नि सन्त

रामचंद्र वायूरान साळुवे

बलगाव

प्रमाणित प्रचारक

४९१७

जम

१२ फरवरी १ १

गिरा—दी ए वा काम कोविं  
साहित्य विगारद

रामचंद्र स शिरपुरखर

बलगाव

प्रमाणित प्रचारक

१६ ३

जम

३ अप्र० १९३

गिरा—टटर साहित्य रत्न रा भा रत्न  
हि नि सन्त

वसत ल गधाड

ठलकवाडी

प्रमाणित प्रचारक

५४ ९

जम

२८ अक्टूबर १९३६

गिरा—व ए सा विगारह  
हि नि सन्त

निदमनाथ मो शर्मा

बलगाव

प्रमाणित प्रचारक

७ ३४

गिरा—मट्रिक एस टी भी वाविं  
हि नि सन्त

व्यवटश स पाटील

सांबरे

प्रमाणित प्रचारक

५७५१

जम

१२ नवंबर १९२२

गिरा—मट्रिक हि नि सन्त

शशिकात क पोट

ठलकवाडी

प्रमाणित प्रचारक

५२७६

जम

१५ जून १ ४

गिरा—दी ए वी कम कोविं

शिवाजीराव ग विं

गाहापुर

प्रमाणित प्रचारक

५४ २

जम

८ मई १९ ५

गिरा—मट्रिक सा विगारह

## सिदामा भ मुरकुट



बल्लूर

प्रमाणित प्रचारक

१८९०

जन्म

८ निवाम्बर १९२४

गिरा—मट्टिव एस टी सा वाकिन  
सा विगारन हि पि सन्दर्भ

## हिरा वि हेरवाडवर



बलगांव

प्रमाणित प्रचारिका

७१०६

जन्म

२६ फरवरी १९२४

गिरा—मणिव रा भा विगारन  
हि पि सन्दर्भ

## थोर श आमारी



गहापुर

प्रमाणित प्रचारक

४४०६

जन्म

१२ जनवरा १९४०

गिरा—वा वाम (दि वप) वाकिन  
सा विगारन

## थोर हनमतराव बुलवणी



ठलश्वाडी

प्रमाणित प्रचारक

८४२

जन्म

२६ जून १९२४

गिरा—री ए लम एड सा विगारन  
हि पि सन्दर्भ

# मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष



बालाचाद शास्त्री



गोरहरी शर्मा

मन्त्रीसचालक

उपाध्यक्ष



त आवेरसिंह



वा नित्याईसिंह

सदस्य

प्रातीय समिति

जन्म

१ मं १९१८

गिरा—इटर सा मुद्राकर

सदस्य—१ चन्द्राखर सिंह



छन्देज शर्मा

सदस्य—२ योगद्रसिंह



अकोइजम केतुबीसिंह  
पिनुग  
वा०-व्यवस्थापक  
जम  
२० मार्च १ २१

अराम्बम नियामचासिंह  
  
खुराई समलोंगदाजार  
वा०-व्यवस्थापक  
आयु ३४ वर्ष

गिरा—मट्रिक परिचय

ओइनाम गगासिंह  
  
कोइरो  
वा०-व्यवस्थापक  
—म  
१ नवम्बर १०

गिरा—इटर कामग परिचय

पथलावयम कलाहलसिंह  
  
हरांगोईयोग  
वा०-व्यवस्थापक  
जम  
१ नवम्बर ११

गिरा—मट्रिक साक्षि

गु अ ओफे-द्रदेव शर्मा  
  
महापुर  
वा०-व्यवस्थापक  
—म  
१ फरवरी १९२८  
गिरा—श्री ए

गुम्मयुम बाहाइलाल शमा  
  
पांगमयद  
वा०-व्यवस्थापक  
गिरा—रा भा परिचय

चयुगन्म इवामचासिंह  
  
मालोम  
वा०-व्यवस्थापक

डायम मणिमाटनमिह  
  
सुराई कोनगन  
वा०-व्यवस्थापक  
आय— ८४  
गिरा—मट्रिक

# मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष



कालाचाद शास्त्री



गोरहरी शर्मा

मन्त्री-सचिवतक

कोपाध्यक्ष



त आवीरसिंह



चंद्रघंज शर्मा

सदस्य—२ योगद्रेसिंह

सदस्य

प्रातीय समिति

जम


१० मई १९६५

गिरा—इटर मा मुद्याकर

सदस्य—१ चंद्राधर सिंह



अरोड़जम वेतुवीसिंह




विनुग

वृद्धवस्थापन

जम

२० मार्च १९२१

अराम्बम नियामचासिंह



बराई तमलोंगवाजार

वृद्धवस्थापन

आगु ४४ वर्ष

निया—भट्टिक परिचय

बोइनाम गगासिंह



बोइरो

वृद्धवस्थापन

—म

१ नवम्बर १० ८

निया—इटर कामम परिचय

वयलामयम ऊहलसिंह



हरांगोईयोंग

वृद्धवस्थापन

जम

१ नवम्बर १० ८

निया—भट्टिक काविर

१५—१७

गु अ ओफेह्रदेव शर्मा

शहपुर



वृद्धवस्थापन

—म

१ फरवरी १९२४


निया—बी ए

गुम्मयुम काहाइलाल शर्मा



धोगमयद

वृद्धवस्थापन



निया—रा भा परिचय

चयुगवम इवामचासिंह



मालोम

वृद्धवस्थापन



डायम मणिमाहनमिह



बुराई छोतगान

वृद्धवस्थापन

आप-- य

निया—सिंह

## यत्तनलन कोम



कुन्दोगजांग

कर्न-व्यवस्थापक

—म

१ जेन १९२२

## थियाम बोडाजाओसिंह



तम्पोक्पम

कर्न-व्यवस्थापक

जाम

८ जनवर १९३६

गिरा—रा भा कोविन

## थामचोम मधुमगलसिंह



कर्नाम्पान

कर्न-व्यवस्थापक

—म

१५ अगस्त १९५९

## नाओरेम अमरसिंह



काचीपर

कर्न-व्यवस्थापक

जाय—४४ वय

“ग्रा—वादि” सार्विय मुद्राकर

## पाडम्पम तोम्पासिंह



हडाशोया

कर्न-व्यवस्थापक

जाम

१ जनवरी १९४

गिरा—वाविन

## पुग्रम्पम तामचोसिंह



कर्काचिंग

कर्न-व्यवस्थापक

जाम

६ फरवरी १९३

गिरा—मट्रिक परिचय

## चुमनाम च्वोबीसिंह



गगोलबाद

कर्न-व्यवस्थापक

जाम

१७ अगस्त १९४४

गिरा—राष्ट्रभाषा वाविन

## चुमनाम चाइमा सिंह



ओइननम

कर्न-व्यवस्थापक

जाम

२९ अगस्त १९२१

गिरा—वा ८

राधनारायण उपाध्याय

तोटोवारी

वैद्य व्यवस्थापक

जाम

गिरा—गहृत पण्डित  
१५ जनवरी १९११

लाइमयुम मधुसूदन गर्मा

लांगवाललप

वैद्य व्यवस्थापक

जाम

२९ अक्टूबर १९१६

लाइथम गिरिमोहनसिंह

नम्बोद

वैद्य व्यवस्थापक

गिरा—गहृत

राधमयुम तोमचीसिंह

पांच

वैद्य व्यवस्थापक

जाम

१५ जनवरी १०१०

गिरा—बी ए वा टी रा भा रत्न

वाहगरम तोमचीसिंह

बगोई

वैद्य व्यवस्थापक

आयु—४४ वर्ष  
गिरा—मट्रिक परिचय

सनवाम याइमासिंह

यामवम

वैद्य व्यवस्थापक

जाम

५ जनवरी १९४

गिरा—मट्रिक परिचय

मनजम इवुड हेलसिंह

याहैगवमलवाई

वैद्य व्यवस्थापक

जाम

१७ जुलाई १९०१

गिरा—बी ए एल टी

हमाम नीलमणिसिंह

मोहरांग

वैद्य व्यवस्थापक

जाम

१० जुलाई १०६

क्षत्रियमयुम वालामिह



पोरोम्पात

वाल-व्यवस्थापन

आय—२१ वर्ष

गिरा—रा भा काविं सी टी

अखिम कुमार शर्मा

वाल

प्रमाणित प्रचारक

६१४१

आय—२२ वर्ष

गिरा—बी ए (आनस) रा भा रल



कन्नम्बम समरेद्रेसिह

इम्फाल

प्रमाणित प्रचारक

४५०९

आय—२४ वर्ष

गिरा—रा भा काविं मा सुधाकर



के इबोमचा शर्मा

इम्फाल

प्रमाणित प्रचारक

४५१८

जन्म

१ जून १९३८

गिरा—बी काम रा भा रल



युमनाम यानूधनसिंह



इम्फाल

प्रमाणित प्रचारक

४५०२

जन्म

२७ मार्च १९२१

गिरा—विगारद



गुहमयुम गोपीनाथ शर्मा

इम्फाल

प्रमाणित प्रचारक

४५६३

आय—३१ वर्ष

गिरा—सा विगारद याकरणशास्त्री



गुहमयुम मणिहर शर्मा

वाल

प्रमाणित प्रचारक

६२९१

जन्म

१६ मार्च १९७

गिरा—राम्बुभाषा काविं



गोरीहरी शर्मा

नमोतब


प्रमाणित प्रचारक

४५९३

जन्म

१५ अक्टूबर १९१५

गिरा—विगारद याकरणतीय



चन्द्रम मधुमगनसिंह



नौगमद्युग

प्रमाणित प्रचारक

६१४०

—म

१८ अगस्त १००

गिरा—ग भा वाहिन

चाटम चाओगामिह



बहुपुर

प्रमाणित प्रचारक

६१६

जम

१ मई १०२७

गिरा—मट्टिक वाहिन

टी सीताराम गाम्भी



इम्फाल

प्रमाणित प्रचारक

५१७३

जम

१ जनवरी १२८

गिरा—एम ए विश्वार

यागजम मणिसिंह



पुराई कोनगम

प्रमाणित प्रचारक

६१८

आय—० वप

गिरा—मट्टिक वाहिन

निर्मलम यागेद्रसिंह



नम्बोदि

प्रमाणित प्रचारक

६०५७

आयु—८७ वर्ष

गिरा—मट्टिक वाहिन

माठम इवोमचामिह



हियाणयोंग

प्रमाणित प्रचारक

६०५८

जम

१४ जुलाई १०२८

गिरा—रा भा वाहिन

चुमनाम थम्पालकूमिह



मानाम

प्रमाणित प्रचारक

५०५५

जम

२६ नवम्बर १०२९

गिरा—वाहिन साहिय गिरामणा

जुजुमार नूतनचद्रमिह



हरामोहियोंग

प्रमाणित प्रचारक

६०६५

जम

८ अक्टूबर १०२६

गिरा—राम एवं भी भा वाहिन

लालकाक्षयम भानुगिह



इम्फार

प्रमाणित प्रचारक

६३६४

आय—३ वर्ष

गिथा—मट्रिक वाकिन

लालथ्रम वीरचन्द्र सिह



यागमबाद

प्रमाणित प्रचारक

५८५

जम

९ अगस्त १४

गिथा—इटर साइम वाकिन

वा नित्याईसिह



मोइरागधीष

प्रमाणित प्रचारक

६१३३

जम

१ मार्च १९१८

गिथा—इटर सा मुगवर



दिनग

प्रमाणित प्रचारक

६४७

जम

२९ जन १० द

गिथा—रा भा वाकिन

गगोयाईसिह वीरमणिसिह



इम्फारत

प्रमाणित प्रचारक

६४८

जम

१० फरवरा १२५

गि गा—रा भा वाकिन

हाओरारामवम सुरद्र कुमारसिह



विण्णपर

प्रमाणित प्रचारक

६२१३

आय—२४ वर्ष

गिथा—रा भा रत्न अध्यापन विगार

कथ्रीमयुम गुलारसिह



कक्षिग

प्रमाणित प्रचारक

७१५२

जम

१० मार्च १९४१

गिथा—रा भा वाकिन

कथ्रीमयुम याइमारसिह



पोरोम्पात

प्रमाणित प्रचारक

७०६

आय—२९ वर्ष

गि गा—मरिक वाकिन

# सद्युपदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति

अध्यक्ष



डा. रघुवीरसिंह

प्रार्थ्यक



सामाजिकमत जन

उपाध्यक्ष



महाराज भानुप्रब्लार्गांग



डा. विनयकमोहन पमा

उपाध्यक्ष



श्यामाचरण गुहल


कोपाध्यक्ष



दुकुमचंदजा पाटरी

मन्त्रीसचालक

वर्जनाथप्रसाद दुबे



सरोजिनी

महिला विभागकी अध्यक्षा



रानी पूर्णमावतार्द्वी खरांड



सुमन्त्रराना दास, मह.

बर्जुननगस अमय



बराणड

सम्म्य

प्रान्तीय समिति

तथा

वृद्धन्यवस्थापन

जम-१३ जनवरी १९२२  
गिरा—रा भा कावि

चन्द्रनमल चन्द्रट आष्टा



सम्म्य-प्रान्तीय समिति

धीरज गाल गाह

रत्ताम

सम्म्य

प्रान्तीय समिति

प्रभाग-राजगढ़ बिला रा भा प्र समिति  
७ प-१८

विरघीचान्द जन

जबलपुर

सम्म्य

प्रान्तीय समिति

तथा

प्रमाणित प्रचारक  
लाकर

जम-२१ माच १९१८

गिरा-माहित्य रत्न रा भा रत्न गाम्बी  
भारतमिह राठोर वावुआ



सम्म्य-प्रान्तीय समिति

भा द टाल

जबलपुर

सम्म्य

प्रान्तीय समिति

तथा

वृद्धन्यवस्थापन

जम-१ परवण १०१४  
गिरा-वा एम सा वा टा



रामनारायण व्यास 'प्रेनो'



अहोदिया मडी  
सदस्य  
प्रान्तीय समिति

सदस्य—हरिराजकुमारी

लक्ष्मीदास मास्टर



बुरहानपुर

गतस्य

प्रान्तीय समिति

अध्यक्ष—रा भा प्र समिति बुरहानपुर

सदस्य—रामेश्वर शर्मा

प्रजकिशोर व्यास



उपाध्यक्ष  
आदुआ जिना  
रा भा प्र समिति

विश्वोरवाला व्यास



सयोजिका  
जिना महिला विभाग  
रा भा प्र समिति  
वापरआ

मधुमूदन काठीवाला



कोवाध्यक्ष  
रा भा प्र समिति  
बुरहानपुर

परमानंद मास्टर



मंत्री

रा भा प्र समिति  
बरहानपुर  
तथा

वैश्ववस्थापर

जाम-१८ सितम्बर १९३६  
गिरा—इटर बोविंड

चाढ़कात गाह



उपाध्यक्ष  
रा भा प्र समिति  
बुरहानपुर

गिरा—एम ए

समीरमल डफरिया



उपाध्यक्ष  
रत्नाम जिना  
रा भा प्र समिति

गिरा—बी ए एन एन बी

### कातिलाल शाह



कौपाध्यक्ष  
रतलाम जिला  
रा भा प्र समिति  
तथा  
नेट्रो-व्यवस्थापक  
आयु—५४ वर्ष  
गिरा—एम ए

### गोरीगवर पीराणिक



देवास  
उपाध्यक्ष  
रा भा प्रचार  
समिति न्वाम  
गिरा—रा भा रत्न सा विपारद

### आसिफ यान



देवास  
मध्ये  
रा भा प्रचार  
समिति दवाम  
गिरा—वी ए वी एड

### उमिलारानी शर्मा



इंदौर  
नेट्रो-व्यवस्थापिका  
जम  
१४ अप्रैल १९४१  
गिरा—आचार्य, भाषारत्न शाविं

### एफ रायमन्त्स



जबलपुर  
वे—व्यवस्थापक  
जम  
२४ जनवरी १९१३  
गिरा—वी ई डा (अमरिका)

### वलाशचंद्र जोगी



सलाना  
नेट्रो-व्यवस्थापक  
जम  
५ जुनाई १९३२  
गिरा—एम ए (फाइनर) सा रत्न

### योगचंद जन



यनहो  
नेट्रो-व्यवस्थापक  
जम  
२६ जुनाई १०३९  
गिरा—गाहित्य रत्न

### गजराज सिंह तोमर



दिव्यांग  
नेट्रो-व्यवस्थापक  
जम  
१८ मिनायर १८९८  
गिरा—मुकु

तुलसीराम मरान  
सौसर



वेर्न-व्यवस्थापक  
जन्म  
१ जुलाई १९३९  
गिराहा—मट्टिका

धनलाल चौधरी



तामिया  
वेर्न-व्यवस्थापक

ध्रुवद्रकुमार शास्त्री



शास्त्री

वेर्न-व्यवस्थापक  
जन्म  
३ अक्टूबर १९४४

गिराहा—विगारद गास्त्री मा वाचस्पति

नंदलाल अ बाविसताल  
चिखलाबाई



वेर्न-व्यवस्थापक  
जन्म

१३ सितम्बर १९३९

गिराहा—वी टी गो एम टी मी विगारद

नरपत दा मिथ्र



पिपलानी

वेर्न-व्यवस्थापक  
जन्म  
१ जनवरी १९२५  
गिराहा—वी एस सी एस एम एम इ

नारायणप्रसाद दुव



खडवा

वेर्न-व्यवस्थापक  
जन्म  
२३ मई १९२२  
गिराहा—वा ए वा टी विगारद

नारायणप्रसाद वदय



देवास

वेर्न-व्यवस्थापक  
जन्म  
९ अप्रैल १९२८  
गिराहा—विद्या विगारद

नूतनकुमार तेजग



भोपाल

वेर्न-व्यवस्थापक  
जन्म  
२८ जनवरी १९१५  
गिराहा—एम ए वी काम प्रभाकर

## भजलाल महोविया



राजी

वैद्यवस्थापन

जम

१ जगाइ १० ९

गिरा—बी ॥

## रमशच्चद्र भ उपरीत

वदनापुर

वैद्यवस्थापन

जम

२० अगस्त १९४०

गिरा—विगार समृद्ध वावि

## भया तो चवरे



सालवाण

वैद्यवस्थापन

जम

२० नवम्बर १९ २

गिरा—मट्रिक डिप्पी परिचय

## रामजीलाल उरमालिया

फनवाणी

वैद्यवस्थापन

जम

१० अगस्त १०३८

गिरा—मट्रिक समृद्ध विगार

## मोहनलाल निर्मोही



इंग्रे

वैद्यवस्थापन

जम

२५ जनवरी १०२९

गिरा—एम ॥ बी एड मा रत्न

## रोमनलाल सक्सेना

सेमरा

वैद्यवस्थापन

जम

१ मई १००१

## रमशकुमार तेलग



जरवाप्पा

वैद्यवस्थापन

जम

२० जनवरी १ ॥

गिरा—बी ॥ (अत्य) मानित्य रत्न

## विनान्कुमार विल्लोरे

दहतनाई

वैद्यवस्थापन

जम

२० जून १०६०



गिरा—रार वावि

### चतुर्भुज जोशी



इदोर  
प्रमाणित प्रचारक  
३१  
जम  
१ मई १९२२  
गिरा—मट्रिक विगार

### चद्रशेखर श तिवारी



इदोर  
प्रमाणित प्रचारक  
२६७९  
जम  
८ जनवरी १९२२  
गिरा—एम ए रा भा रल सा रल

### ताहेरअली सुलतानी




बुरहानपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
२९४६  
जम  
१७ जुलाई १९  
गिरा—मट्रिक कोविन

### चावूराम राठोर राही



असवार  
प्रमाणित प्रचारिक  
५३१९  
जम  
१ जनवरी १९७  
गिरा—गाहित्य रल विनान रल

### यायूलाल वर्मा



भोपाल  
प्रमाणित प्रचारक  
०६८  
जम  
१ अगस्त १९२३  
गिरा—इटा विगार आनन्दन कोवि-

### विहारीलाल न शर्मा



इदोर  
प्रमाणित प्रचारक  
६१४७  
जम  
१० जन १९१९  
गिरा—मट्रिक साहित्य रल

### भगवानदास शुभशी



बरागा  
प्रमाणित प्रचारक  
४२९  
जम  
१ निसम्बर १९३४  
गिरा—री ए वा ए रा वाविन

### यादराम रामा राजगा



भोपाल  
प्रमाणित प्रचारक  
५८२  
जम  
१७ जनवरा १९२५  
गिरा—वा ए वा ए रा साहित्य रल

रत्नलाल रा व्यास

इदोर

प्रमाणित प्रचारक

१४३६

—म

११ नवम्बर १९२२

गिरा—राष्ट्रभाषा रत्न

लक्ष्मीनारायण शमा

रायसन

प्रमाणित प्रचारक

१६२०

जम

६ मई १९२७

गिरा—१० र राष्ट्रभाषा कावि

लोचनप्रसाद चौधरी

तरक्का

प्रमाणित प्रचारक

६५६६

जम

२५ जून १९३६

गिरा—मन्त्रिक साहित्य मुण्डावर

विद्या वाचस्पति कावि

बमत तु पाठ

बुरहानपर

प्रमाणित प्रचारक

१२४९

जम

१ जू १०२

गिरा—एसर कावि



विदेशीलाल यादव

व्यास

प्रमाणित प्रचारक

६०५१

जम

४ मार्च १९२२

गिरा—वी ए साहित्य रत्न

गुरुराव तनपुर

रत्नाम

प्रमाणित प्रचारक

४१००

जम

जनाइ १० १

गातिकुमार जन

जरतना

प्रमाणित प्रचारक

५५६५

जम

११ अग्र १०२५

गिरा—एसर साहित्य रत्न

संगीरा अस्तर

बुरहानपुर

प्रमाणित प्रचारिका

२१२

जम

२५ नवम्बर १० १

गिरा—यो ए वा ए कावि



गिरा—

मन्त्रिक

साहित्य

मुण्डावर

विद्या वाचस्पति

कावि

गिरा—

एसर

कावि

गिरा—

साहित्य

रत्न

१४६

समुद्रदास “मित्र”

बरागढ़

प्रमाणित प्रचारक

२१८२

जन्म

४ मार्च १९२५

प्रभानन्द



हरीनारायण सबमेना

सेमरा

प्रमाणित प्रचारक

१६८०

जन्म

१० जन १९३२

गिरा—रा भा काविं



नानदेव एवनाथ जमजट

जबलपुर

प्रमाणित प्रचारक

५६७६

जन्म

४ सिनम्बर १९२९

गिरा—रा भा रत्न सा रत्न (प्र ख)



मराठवाडा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष



मगन तरकेश्वर गाढ़




शंकररावजी चट्टाण

सदात्मक



प. विनायकराव शर्मा

नानामाहर जोध

सदस्य  
एम एस ए

सदस्य

पचरत्नान अग्रगान

## उत्तमचाद राठिया



सदस्य

## सदाशिवराम निरथी वर्मील



सदस्य

## केशवराव कुलराणी



सदस्य

वी ३०८५०८

## सदस्य — डा भालचंद्रराव तेलग

—○—

## मदनलाल वियाणी



ना देढ

सा मात्री

रा भा प्र समिति

नामेड

## जानकीदेवी परिहार



लातूर

अध्यया

मणिका विभाग

रा भा प्रचार

समिति लातूर

## गोवधनलाल वसवाल



कार्यालय सचिव

प्राताय समिति

कार्यालय मराठवाडा

जम

२ सित १९८८

गिआ—वा ए साहित्य रत्न

## एन वी गर्मी



कार्यालय

प्राताय समिति

कार्यालय मराठवाडा

जम

१९ जुन १९८१

गिआ—रा भा कोविद

गगनचंद्र वीरी गर्मी



पापकर्ता  
प्रातीय कायलिय  
मगढवाना  
गिरा—रा भा बाबिल

एन, वी स्वामी



उमरगा  
वे द्रव्यवस्थापत्र  
जम  
५ जुलाई १९३१

गिरा—मट्टिक दिली विज्ञान

काढिवा भु दामे



शामठा बु  
वे द्रव्यवस्थापत्र  
जम  
४ जन १०४३

गिरा—रा भा परिचय

हुकाराम ग गोदाड



साड साकणी  
वे द्रव्यवस्थापत्र

जम  
१४ निवाम १०२८

गिरा—मट्टिक

दबीलाल कि गोड



जालना  
वे द्रव्यवस्थापत्र  
जम  
८ निवाम १०२५

गिरा—एम ए साहित्य रत्न  
साहित्य रत्नापत्र

नामदव रा चामल



आरसनाल  
वे द्रव्यवस्थापत्र

गि ए—मट्टिक

वालाराम गो जन



देगूर

वे द्रव्यवस्थापत्र  
जम

० निवाम १०२९

गिरा—वी ए (अत्य) भाषा रत्न

भ युमूफ रहमतुल्ला



जबगोर

वे द्रव्यवस्थापत्र  
जम

२१ जनवरी १०३६

गिरा—मट्टिक

माणिकराव ना उस्तुर्गे


वडोद

वेद्र-व्यवस्थापन

जम

४ जून १९३८

गिरा—मट्रिक भाषा रत्न



मुरारी वि डुबवार

विस गांव

वेद्र-व्यवस्थापन

जम

२१ फरवरी १९४३

गिरा—रा भा परिचय



पेहाल हनमतराव

नाढ

वेद्र-व्यवस्थापन

जम

८ सितम्बर १०४

गिरा—रा भा कावित



रमेशचंद्र श दशपाडे

तनमोड

वेद्र-व्यवस्थापन

जम

२२ मिलम्बर १९४०

गिरा—हिन्दी भूषण

रामचंद्र रेळन

चिलोली

वेद्र-व्यवस्थापन

जम

१८ फरवरी १०४

गिरा—वी ए एम ए

लक्ष्मण गणपतराव टवाड

लाल्हगाडा

वेद्र-व्यवस्थापन

जम

३ मार्च १३५

गिरा—इण्टर रा भा प्रवीण

वामनराव अ वधारकर

मुहळ

वेद्र-व्यवस्थापन

जम

२२ नवम्बर १९४५

गिरा—मट्रिक रा भा प्रवीण

विठ्ठलराव जा वनसाड

जफुर

वेद्र-व्यवस्थापन

जम

१ अप्रैल १९४८

गिरा—प्रा य मी प्रवाध

शिवराया सि शट

देवगो

वृद्ध-व्यवस्थापक

जम

१ परवरा १९३८

गिरा—मट्रिक वाकिल प्रबोध विगारद

सत्यद वलीउद्दीन



बरमाड

वृद्ध-व्यवस्थापक

जम

२ अक्टू १९३८

गिरा—मट्रिक विगारद

सि शि बम्बलवर

ओसा

वृद्ध-व्यवस्थापक

जम

१५ जून १९३८

गिरा—मट्रिक परिचय

मुरोगचांद ग दगपाड

मुसन

वृद्ध-व्यवस्थापक

जम

२ नवम्बर १९३८

गिरा—मट्रिक भूषण

अम्बादास वी कुलकर्णी

ओरगावाव

प्रमाणित प्रचारक  
६१३३

गिरा—मट्रिक हि गि सन

वमलावर भा दगपाड

मुदखड

प्रमाणित प्रचारक  
६४०२

जम

६ जून १९३८

गिरा—मट्रिक वाकिल

कुवरदवा राठोर

नारेड

प्रमाणित प्रचारिका  
५६१८

जम

२६ जनवरी १९३८

गिरा—साहित्य मुथावर

केशवराव रा कुलकर्णी

नारेड

प्रमाणित प्रचारक  
५७

जम

८ जनवरी १९३८

गिरा—वा ग वा ग गा विगारद

कृष्णजी के दापाड



सोहारा

प्रमाणित प्रचारक

चनवस न उमर्गेवर

उमरगा

प्रमाणित प्रचारक

६५८४

जाम

२६ ज्येष्ठ १९५५

गिरा—बी ए (अत्य) विज्ञान



जगन्नाथ दि पारम्बार

देवणी

प्रमाणित प्रचारक

६७३

जाम

११ जून १९३६

गिरा—बोविं प्रवीण मट्टिक



जगन्नाथराव पाठाड

ओरागावाद

प्रमाणित प्रचारक

६९३४

जाम

१३ जनाम १९३२

गिरा—वा ए (न्ही)

दिग्म्बर साहेबराव वडीकर

परमगो

प्रमाणित प्रचारक

६१६९

जाम

१८ नवम्बर १९५५

गिरा—टर साहित्य रत्न



प्रहनाद न अस्टुरे

लालूर

प्रमाणित प्रचारक

६४४

जाम

२४ सितम्बर १९५४

गिरा—साहित्य विगारद भूपण



प्रभाकर रा अन्वर

बलम्बर

प्रमाणित प्रचारक

६४६

जाम

२३ अगस्त १९३६

गिरा—टर साहित्य रत्न



वावूराव दी जाधव

लालूर

प्रमाणित प्रचारक

६७९८

जाम

६ जनाम १९११

गिरा—राजभाषा प्रवीण नन्दर



भास्कर ह आयाचित



नादेड

प्रमाणित प्रचारक

६०५२

जम

८ फरवरी १९३४

गिरा—वी ए साहित्य विगारद

रवीद्र शं देगपाढ

मुहूड

प्रमाणित प्रचारक

४१६६

जम

२० जन १९८

गिरा—वी टा सी कावित भूपण

रामवृष्ण नरहरराव कुटूरवर  
बिलोत।



प्रमाणित प्रचारक

७२६

जम

१५ नवम्बर १९३५

गिरा—वी य गी कावित

वगत ज पाठ्य

ओडा

प्रमाणित प्रचारक

६०३३

जम

१४ मई १०१

गिरा—वी ए गान्धीर विगारद

प ए-२

विठ्ठल वा बोगुलवार



विनवट

प्रमाणित प्रचारक

६४०५

जम

६ अक्टूबर १९३३

गिरा—इलर रा भा रत्न (प्र य)

ग वा खोड़व



बोढ

प्रमाणित प्रचारक

५४९२

जम

१ मार्च १९३७

गिरा—वी ए वी एड रा भा रत्न

गिवरतनसिंह गुलाबसिंह

नादेड

प्रमाणित प्रचारक

६०५२

जम

१५ अगस्त १९३२

गिरा—गाहित्य रत्न (प्र य) भूपण

सुधावर मुळ

जीरणावाद



प्रमाणित प्रचारक

६०६४

गिरा—मठिक भूपण

—

## कृष्णाजी के दशपाठ



सोहारा

प्रमाणित प्रचारक

## चनवस न उमर्गेवर



उमरगा

प्रमाणित प्रचारक

६५८८

जम

२६ जप्रल १९ ५

गिरा—बी ए (अत्य) विनान

## जगन्नाथ दि पारसवार



देवणी

प्रमाणित प्रचारक

६७५०

जम

१९ जून १९३६

गिरा—काविद प्रवीण मट्रिक

## जगन्नाथराव पठाड



जोरगावाड

प्रमाणित प्रचारक

६९५०

जम

१९ जडाइ १९३२

गिरा—वा ए (८०१)

## दिगम्बर साहेबराव वडीकर



परमगी

प्रमाणित प्रचारक

६१६९

जम

१४ नवम्बर १९३५

गिरा—टर साहित्य रत्न

## प्रहनाद न अस्टुरे



लातूर

प्रमाणित प्रचारक

६८०८

जम

२४ मितम्बर १९ ४

गिरा—साहित्य विनारद भूपण

## प्रभाकर रा अम्बवर



वलम्बर

प्रमाणित प्रचारक

६४ ६

जम

२३ अगस्त १९३६

गिरा—टर साहित्य रत्न

## वावूराव दो जाधव



लातूर

प्रमाणित प्रचारक

६७९२

जम

६ जुलाई १९३६

गिरा—राष्ट्रभाषा प्रवीण लक्ष्मण

भास्कर ह आयाचित

नादेड

प्रमाणित प्रचारक

६०५२

जाम

८ फरवरा १९३४

गिरा—बी ए साहित्य विदार्थ

रवीद्र श देगपाड

मुरुड

प्रमाणित प्रचारक

८१६६

जाम

२० जन १ ८

गिरा—पा टा मा वाविं भूषण

रामदृष्ण नरहरराव कुट्टुरखर

दिलोन

प्रमाणित प्रचारक

७२६

जाम

१५ नवम्बर २० ५

गिरा—पी य मा वाविं

वंगत ज पाठ्य

ओंश

प्रमाणित प्रचारक

६९ ३

जाम

१६ मा १ ८

गिरा—या ए साहित्य विदार्थ

प ष-२०

विट्ठल वा बोगुलवार

हिनवट

प्रमाणित प्रचारक

६४०२

जाम

६ अक्टूबर १९३५

गिरा—इण्टर रा भा रल (प्र घ)

ग वा खाडवे

बोड

प्रमाणित प्रचारक

५८९२

जाम

१ मार्च १९३७

गिरा—बी ए वा एड, रा भा रल

गिवरतनसिंह गुलाबसिंह

नादह

प्रमाणित प्रचारक

६ ४२

जाम

१४ अगस्त १० २

गिरा—गाहिंय रल (प्र घ) भूषण


मुघाकर मुळ

ओरगावाद


प्रमाणित प्रचारक

६०६४

गिरा—मत्तिं भूषण



हरिद्वार आय



इष्टर प्रभावर सिद्धात गास्त्री

अध्यक्ष



यशवन्तराव चाहाण

महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति  
( जन १९६२ स ) वनमान अध्यक्ष

# महाराष्ट्र राष्ट्रमापा प्रचार समिति,

अध्यक्ष



स्व वा मा दगडघाव  
(मई १९६२ तक)

उपाध्यक्ष

उपाध्यक्ष



न वि गावगिल

कार्याध्यक्ष



दा र धण्डपायनजी



तुकतोय लद्धमण शास्त्री जोशी

कोयाच्छ



श्रीनिवास मूदडा  
भा अ चादोरकर

निवणे

सदस्य

जम

१२ मार्च १९२८

गिरा—रा भा कोविन्द



श्रीराम ग निदे

बाईं

साम्य

जम

१ जुलाई १९२९

गिरा—एम ए एन एल बी

सधारन



पढरीनाथ मुकुद डागरे  
रा वा पाटील



जलगांव

साम्य

प्रान्तीय समिति

आय—४ वय

गिरा—एम ए बी टी सा रत्न



श्यामसु दर अग्रवाल

पुणे

सदस्य

प्रान्तीय समिति

जम

२ अगस्त १९०१



अतगत लेखक -- वृंगो कानुनगी

मनस्य — अ प्र ववीश्वर  
ता वा शिदे  
स वा सेदुनवर  
ग गो कुलवर्णी



ह ए महता

नगोरावाद  
भूतपूर्व मनस्य  
प्रा स महाराष्ट्र  
जम  
१० अगस्त १९१७

गिरा—रा भा रत्न



सोमनाथ भट्ट

पुणे  
मनस्य  
प्रानीय ममिति  
जम  
१ मई १९२३

गिरा—मद्रिव साहित्य रत्न




प्र रा भुपटकर

पुणे  
भासूव गदम्य  
प्रा स महाराष्ट्र  
जम  
१३ अक्टूबर १९१२

गिरा—एम ए बी टी, सा रत्न

सदन्य — माधवराव धुमाळ  
पापटलाल शाह  
दयालनास हुकुमतानी  
महादेवराव शास्त्री जोशी



नातिमाई जोवनपुत्रा

वार्यात्मय सविव  
प्रानीय वार्यात्मय  
जम  
१ मिन्हर १९२०

गिरा—रा भा काविद हि गि मन्त्र

वाडीराम वि कुलवर्णी  
वायकर्ता



प्रान्नाय वार्यात्मय  
जम  
११ अगस्त १९००

गिरा—रा भा काविद



चम्पवराज या पाल्यर  
वायकर्ता

प्रान्नाय वार्यात्मय  
जम  
१३ नवम्बर १९३४

गिरा—रा भा काविद

सावकार तु खिरीड

कायर्ता



प्रातीय कार्यान्वय

जाय—८२ वर्ष

पद्मासर गा नगरकर

कायर्ता



प्रातीय कार्यान्वय

जाम

१५ जून १९४८

गिरा—मर्तिक

गणगा रावजी वर्ण

कायर्ता



प्रातीय कार्यान्वय

जाम

२ सितम्बर १९११

गिरा—मर्तिक काविद

ववन ना वाघ

कायर्ता



प्रातीय कार्यान्वय

जाय—२ वर्ष

पाहुरग चि बुलबर्णी

कायर्ता



प्रातीय कार्यान्वय

जाम

८ जून १९११

गिरा—रा भा परिचय

मुधाकर गा ताण्डल

कायर्ता



प्रातीय कार्यान्वय

जाम

१५ फरवरी १९३९

गिरा—मर्तिक रा भा परिचय

सुभानु ग पोक्ह

कायर्ता



प्रातीय कार्यान्वय

जाम

२५ जून १९४३

गिरा—मर्तिक

रामहृष्ण वा गणाचाय

कायर्ता



प्रातीय कार्यान्वय

जाम

१ जनार्फ १९३६

गिरा—राम हर रा भा परिचय

अरविंद दि कुलकर्णी

उदनवाडा



बांद्र-व्यवस्थापक

आयु—२१ वर्ष  
गिरा—मट्रिक

आप्पाराव हृ जगदाळे

चारे



बांद्र-व्यवस्थापक

जम

४ अगस्त १९२४

गिरा—ज्ञान बाबिं सा प्राा

बुतांवी ना जगदाळे

चारे



बांद्र-व्यवस्थापिका

जम

१७ जन १९३४

गिरा—वा ए वी टा बाबिं

वेगव गो सत्त

नगरावाड



बांद्र-व्यवस्थापक

जम

१० अक्टूबर १९२४

गिरा—वी एग मा एग ना गा  
या एड बाबिं

बलासचद्र नथामी

चधार



बांद्र-व्यवस्थापक

जम

१५ निम्बर १९२९  
गिरा—मट्रिक मा रत्न गिरा सन

गुलूमल ह डाढवाणी



नागिंव

बांद्र-व्यवस्थापक

गिरा—एम ए एम ए बाबिं

गो म बुहाट



प्रूम

बांद्र-व्यवस्थापक

प म पत्ती



राष्ट्रसंगीव

बांद्र-व्यवस्थापक

जम

११ अप्रैल १९०८

चागदर भ उडकेकर  
भइसगांव



बैद्र-व्यवस्थापक

जम

४ जून १९५८

गिरा—मट्रिक एम टी सी कोविं  
टिली गिरा क सनद

जगनाथ जा जयप  
गिराडवाडी



बैद्र-व्यवस्थापक

जम

२५ नवम्बर १९३

गिरा—यी एस सी राष्ट्रभाषा परिचय

जगनाथ रा पाटील  
चिनावल



बैद्र-व्यवस्थापक

जम

२१ मई १९२१

गिरा—एम ए बी टी हि गि सनत  
साहित्य विद्यालय

दयाल सुकाजी चाधरी  
हिंगोणे



बैद्र-व्यवस्थापक

जम

१२ जनवरी १९१७

गिरा—मट्रिक सानियर यी टी सी  
रा भा परिचय

दिमवर म सासवड



गिरापुर

बैद्र-व्यवस्थापक

जम

१९ मई १९३१

गिरा—मट्रिक हि गि सनत प्रवीण

नारायण मा भासल



फलठण

बैद्र-व्यवस्थापक

जम

२३ फरवरी १९२७

गिरा—यी एस सी

पाडुरग प पवार



कामेटी

बैद्र-व्यवस्थापक

जम

१ अगस्त १३८

गिरा—यी टी सी रा भा दूसरी  
साहित्य प्रथमा

वाबुलाल ह डाग



तोत्रवाडी

बैद्र-व्यवस्थापक

जम

१८ जनवरी १९३३

गिरा—रा भा वाविन नि गि सनत  
यी ए (प्रथम वय)

वापुराव भा खोत

रामानदनगर

वाद्र-व्यवस्थापक

जम

१ जून १९२५

गिरा—बी एस सी (अग्री)

डी बी एड प्रवा

वापू वि भस्ते

इचलकरजी

वाद्र-व्यवस्थापक

जम

२८ अप्रैल १९२८

गिरा—बी एस सी (आनंद) बी टी

मध्व गो जोशी

तलगांव दामाड

वाद्र-व्यवस्थापक

जम

१२ फरवरी १९१२

गिरा—रा भा वाविन इटर आनंद

महादेव व यामवर

फत्यापूर

वाद्र-व्यवस्थापक

जम

१५ अप्रैल १९२६

गिरा—या टी गा रा भा दूगरी

शकरराव वे शिंदे

मालगांव युद्धक

वाद्र-व्यवस्थापक

जम

५ अप्रैल १९२०

गिरा—एम ए बी टी

शकर ग वड

परव डोकासार

वाद्र-व्यवस्थापक

जम

५ जून १०२०

गिरा—मद्दित्र रा भा प्रवा पी टी सी

शकरराव भ निकम

अम्बटो

वाद्र-व्यवस्थापक

जम

१५ मार्च १९८

गिरा—रा भा दूमरी टु वप २ रे

गकर सो मिसे

बोदवह

वाद्र-व्यवस्थापक

जम

१८ मर्च १००१

गिरा—बी ए बी टा

धामराव शु पवार



यणे

वा-व्यवस्थापन

जम

२० मई १९५०

गिरा—रा भा दूसरी द वा वप २२

सिताराम जा गारे



गोदेवाडी

वा-व्यवस्थापन

जम

१३ अगस्त १९३९

गिरा—मट्रिक एम टी सा

सुदाम टो काल्हे



वामणोद

वा-व्यवस्थापन

जम

२ मार्च १९१९

गिरा—बी ए बी टी एन एम जी डी

भोमनाथ श मिथ



निमग्नाव

वा-व्यवस्थापन

जम

१९ अक्टूबर १९३४

गिरा—रा भा परिचय मट्रिक

अम्बालाल मू रावल



अम्बलर

प्रमाणित प्रचारक

७७७

गिरा—मट्रिक एस टी सा हि नि सन्त

जमिन्कादत ज शमा



पूना-२

प्रमाणित प्रचारक

३७४६

जम

१५ जून १९२९

गिरा—रा भा रत्न हि नि सन्त

इदिरावाई जोगी



घलिया

प्रमाणित प्रचारिका

१

जम

८ दिसंबर १९०८

गिरा—साहित्य विभारक

काशीनाथ म पाटील



जलगाव

प्रमाणित प्रचारक

१७६५

जम

८ दिसंबर १९२०

गिरा—हि नि सन्त एम एम सा

## विशनचाद ठा वस्नाणी



धुलिया

प्रमाणित प्रचारक

२७९७

जन्म

७ फरवरी १९२८

गिरा—बी ए रा भा रत्न  
सी हि गि सनद

विसन श चादवडवर

जलगांव

प्रमाणित प्रचारक

४६१

उम्र—५३ वर्ष

गिरा—मट्टिव काविल साहित्य विद्यारथ  
कुशावा आ चौधरी

पाढ़लसा

प्रमाणित प्रचारक

१८९७

जन्म

२५ जून १९३०

गिरा—बी ए बी टी काविल  
हि गि सनद

वेशव चि भगाल

विनाशन

प्रमाणित प्राग्गम

२०४४

जन्म

१६ अप्रैल १०२६

गिरा—रा भा रत्न हि गि गरा  
एस एम सी

## वौतिक रा वाडे



पाढ़लसा

प्रमाणित प्रचारक

७०१

जन्म

२४ फरवरी १०२३

गिरा—रा भा काविल हि गि सनद  
एस एम सी  
कृष्ण गो वानखड



आशवपट्टरपूर

प्रमाणित प्रचारक

३१३४

जन्म

जनवरी १०२८

गिरा—राठुभापा काविल  
कृष्ण पा पाटील



पाढ़लसा

प्रमाणित प्रचारक

०१

जन्म

१ जनवरी १०२०

गिरा—रा भा रत्न एम एम सी

## गणपत द महाजन



बोदवड

प्रमाणित प्राग्गम

६९०

जन्म

७ फरवरी १९३२।

गिरा—काविल गुरु आठग म सा प्राज्ञ

## गणपत दु चौधरी



अमलनर  
प्रमाणित प्रचारक  
१५८१  
ज्ञाम  
१४ जनवरी १९०९  
गिधा—कोविद

## गजानन ग वाघ



मालगांव  
प्रमाणित प्रचारक  
७७७  
ज्ञाम  
२१ दिसम्बर १९२१  
गिधा—एम ए बी टी रा भा कोविद

## गेहू द गाढ



फलपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
६९७  
ज्ञाम  
१ मार्च १९८८  
गिधा—रा भा रत्न एम एस सी

## गोपाल गो पाटील



इचलहरजा  
प्रमाणित प्रचारक  
२५७३  
ज्ञाम  
२३ फरवरी १९२२  
गिधा—कोविद मट्टिव एस टी सी

## गोपाल ने चौधरी



पाइलता  
प्रमाणित प्रचारक  
११८१  
ज्ञाम  
७ अप्रैल १९२९  
गिधा—एम ए बी टी रा भा काविं

## घन श्याम ग नारखेड



आमोदे  
प्रमाणित प्रचारक  
५७६  
ज्ञाम  
७ मई १९१७  
गिधा—रा भा रत्न सा रत्न

## चदन बडोला



पूना  
प्रमाणित प्रचारक  
२५७२  
ज्ञाम  
१५ जून १९२५  
गिधा—बी ए साहित्य रत्न प्रभाकर

सस्कृत साहित्य नास्त्री

## चान्द्रकुमार भ आया



नोपाडा  
प्रमाणित प्रचारक  
६४२५  
ज्ञाम  
२६ जनवरी १९३९  
गिधा—कोविद सीनीपर बी एस सी

## चितामणि वा आकार



पूना  
प्रमाणित प्रचारक  
५०

गिरा—वी एम मी एम टी सी  
वी टी सा रल  
चुनीमाई छ रावल  
जनराय  
प्रमाणित प्रचारक  
२६६  
— म  
१५ मिस्यर १९११

गिरा—सा विगारह इष्टर एम टी मी

## छताराम कु मूलानी



पूना-२  
प्रमाणित प्रचारक  
जम  
१४ मर्च १०२०

गिरा—सा रल इष्टर आट्म  
एम टी सी

## छाडाराम वि सीतलाणी



उल्हासनगर-४  
प्रमाणित प्रचारक  
४० ३  
जम

२ अक्टूबर १०२७

गिरा—रा भा बाबिल इष्टर आट्म

## जगदीन मो लछाणी



उल्हासनगर २  
प्रमाणित प्रचारक  
५६१  
जम  
४ मिस्यर १०२९

गिरा—आचाय विद्यानवार सा रल  
एस टी सी  
जगन्नाथ गो नेवडे



पूना-२  
प्रमाणित प्रचारक  
२२५  
जम  
९ जनवरी १०२६

गिरा—बोविन हि गि मनन मट्रिक  
सा विगारह  
जयराम ग फागरे



पूना-२  
प्रमाणित प्रचारक  
२१०२  
जम  
१२ जनवरी १९११

गिरा—बोविन मा विगारह सा रल  
हि गि मनन

## जयराम गो गुळव



हिंपोण  
प्रमाणित प्रचारक  
४२३८  
जम

१४ मिस्यर १०२६

गिरा—रा भा बाबिल हि गि मनन,  
इष्टर आट्म

### जयराम थी घाडग



भगापुर

प्रमाणित प्रचारक

६८३६

जम

१५ जुलाई १९४४

गिरा—वी ए रा भा रत्न सा विगारद

### जिनगोडा भा पाटील



कागल

प्रमाणित प्रचारक

६७५१

आमु—३७ वय

गिरा—गम टी सी सी पी एड कोविद

### टिलूलाल चा ठारिवाणी



फल्याण वेस्प

प्रमाणित प्रचारक

४ ४९

जम

२ मार्च १ ३५

गिरा—सा रत्न नि नि सनद  
एम टी सी

### तातोवा मा चौगुल



पसव डिप्ज

प्रमाणित प्रचारक

६६२९

जम

१९ जनवरी १९२५

गिरा—रा भा प्रवीण हि नि सनद

### ताहेर मो मापुसावाला



पुना-२

प्रमाणित प्रचारक

४४२५

जम

१२ मार्च १९४५

गिरा—नि नि सनद मा रत्न टी डी

### तुलसीराम वि सरोदे



सावदा

प्रमाणित प्रचारक

११९२

जम

२८ मार्च १ १९

गिरा—वी ए रा भा काविन

### यम्बक नि गाजरे



सावदा

प्रमाणित प्रचारक

१६२३

जम

१३ दिसम्बर १९२५

गिरा—रा भा काविन हि नि सनद  
मट्रिक

### यधासिंह नि गुरुवक्षमिहाणी



जहासनगर-४

प्रमाणित प्रचारक

४ ०१

जम

६ मित्रवर १९२७

गिरा—सा रत्न हि नि सनद द्रुढ़

### दत्तात्रेय भ पाटील



पूना-२

प्रमाणित प्रचारक

८०१२

जम

२ अप्रैल १९३

गिरा—रा भा काविं सा विगाराम  
मा प्रवागिका

### दयाराम आ आगलाव



मालगाव बद्रश

प्रमाणित प्रचारक

८५९

जम

— १ १ जनवरा १००८

गिरा—रा भा काविं पी एम एन मा

### दयानंदिह व गुरुनामिहाणी



उलूसनगर-४

प्रमाणित प्रचारक

६२५९

जम

१ माच १० ८

गिरा—मट्रिक रा भा रत्न

### दारथमिह गु परदगी



पूना-२

प्रमाणित प्रचारक

५८ ७

जम

१४ मार १० ३

गिरा—रा भा रत्न हि गिरा-

### दिगम्बर के पुजारी



इचलवरजा

प्रमाणित प्रचारक

१२३२

जम

९ अप्रैल १९२८

गिरा—रा भा रत्न हि गि गन्न मट्रिक

### दिगम्बर गो दाढवर



पूना-२

प्रमाणित प्रचारक

२

जम

७ अप्रैल १९१९

गिरा—एम ए था ठा साहिय रत्न

### दिगम्बर न पाटील



पिलोऱ्डु

प्रमाणित प्रचारक

५१००

जम

१६ जून १००३

गिरा—रा भा काविं हि गि गन्न  
मट्रिक

### द्वारिवायाई ह पाटील



जसगाव

प्रमाणित प्रचारिका

२००६

गिरा—रा भा काविं मा विगारा-  
मट्रिक

## धनुष्ठर रा शुक्ल



देवलाली कम्प  
प्रमाणित प्रचारक  
५२४४

गिक्षा—याहित्य रत्न सा रत्नावर

## नरहर ग कुलकर्णी



तलगांव दामाड  
प्रमाणित प्रमाणित  
४५८१

जग

२६ जनवरी १९२६

गिक्षा—रा भा काविद हि गि सनद  
मटिक

## नागद्र ता महाजन



बुधगांव  
प्रमाणित प्रचारक  
३७

जग

५ दिसम्बर १९२३

गि गा—रा भा रत्न मटिक  
सिनोयर वसिक ट्रूफ

## नाटू भ शिंदे



जलगांव  
प्रमाणित प्रचारक  
१२६९

जग

२ जगस्त १९२

गिक्षा—रा भा काविद मटिक

## नामदेव या चीधरी



पाइसत्ता  
प्रमाणित प्रचारक  
६१९९  
जग  
११ जुलाई १९३३

गिक्षा—रा भा काविद प्राय गि ट्रूफ

## नारायण च वर्मा



बायोली  
प्रमाणित प्रचारक  
६२५३

जग

१५ अक्टूबर १९२६

गिक्षा—रा भा काविद हि गि सनद  
मटिक

## नारायण मो बड



जलगांव  
प्रमाणित प्रचारक  
४३६३

आय—५३ वर

गिक्षा—मटिक एस टी सी डी टी सी  
डी एम रा भा कोविद

## नारायण वा हेलेकर



आचिंगे  
प्रमाणित प्रचारक  
४९०७

जग

२३ नवम्बर १९२

गिक्षा—रा भा काविद मटिक  
सिनोयर पा टी सी

ਪਛਰੀਨਾਥ ਦਾ ਗੋਲੇ



ਸਾਤਾਰਾ

ਪ੍ਰਮਾਣਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ

੧੯੧੫

ਗਿਆ—ਪ੍ਰਵਾਣ ਹਿੰਦੂਸਾਧਾ ਰਲ ਸਨੌ

ਪਟਮਾਵਤੀ ਜੋਧੀ



ਸੂਨਾ—੨

ਪ੍ਰਮਾਣਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰਿਕਾ

੨੧੭੧

ਜਾਮ

੧੬ ਜੁਨਾਈ ੧੯੧੫

ਗਿਆ—ਏਮ ਏ ਰਾ ਮਾ ਕਾਵਿਨ  
ਪਾਡੂਰਗ ਗੋ ਧਾਚਲ

ਸਾਤਾਰਾ ਗਹਰ

ਪ੍ਰਮਾਣਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ

੧੧੦੬

ਜਾਮ

੧੧ ਮਾਚ ੧੯੧੫

ਗਿਆ—ਰਾ ਮਾ ਕਾਵਿਨ ਹਿ ਗਿ ਸਨੌ  
ਮਾ ਸੂਧਾਰ

ਪਾਵਤੀਯਾਈ ਦੇਖਾਪਾਡ



ਸੋਲਾਪੁਰ

ਪ੍ਰਮਾਣਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰਿਕਾ

੧੦੭੨

ਜਾਮ

੨੫ ਮਾਚ ੧੯੧੦

ਗਿਆ—ਰਾ ਮਾ ਕਾਵਿਨ ਮਹਿਨ  
ਹਿ ਗਿ ਸਨੌ

੨੫-੨੨

ਪੀਤਾਮਥਰ ਅ ਚੌਘਰੀ



ਪਾਡਲਸ਼ਾ

ਪ੍ਰਮਾਣਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ

੧੦

ਜਾਮ

੧੪ ਮਈ ੧੯੨੦

ਗਿਆ—ਵਾ ਏ ਵੀ ਟਾ ਰਾ ਮਾ ਰਲ  
ਮਾ ਰਲ

ਪਾਪਟਲਾਲ ਮ ਚੌਘਰੀ



ਪਾਡਲਸ਼ਾ

ਪ੍ਰਮਾਣਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ

੨੬੭

ਜਾਮ

੯ ਮਈ ੧੯੨੨

ਗਿਆ—ਏਮ ਏ ਵਾ ਟੀ ਸਾ ਵਿਆਰਦ  
ਪ੍ਰਮਾਕਰ ਵਾ ਜੋਧੀ



ਕਾਗਜ

ਪ੍ਰਮਾਣਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ

੬੭੫੦

ਬਾਧੂ—੪੬ ਵਧ

ਗਿਆ—ਵਾ ਏ (ਆਨਸ) ਵਾ ਟਾ  
ਰ ਮਾ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਡੋਂ ਪ੍ਰਹਨਾਦ ਨਗ਼ਰ ਜੋਧੀ



ਸੂਨਾ—੨

ਪ੍ਰਮਾਣਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ

੧੪੬੧

ਜਾਮ

੧੬ ਅਪ੍ਰੈਲ ੧੦੧੮

ਗਿਆ—ਏਮ ਏ ਏਮ ਏਵ ਪੀ ਗੁਰ ਟਾ  
ਮਾ ਰਲ

# राजरथालू राष्ट्रभाषा प्रचार समिति

मनो नवाज़

अध्यक्ष



डा सामनाथ गुप्त



दीलतराम शर्मा

कोपाध्यक्ष



राजेश्वर पटेल

देवदत्त शर्मा



मूलचंद पारीक

कालूराम चास

जोधपुर

मनस्य

प्राचीय समिति

तथा

बन्द यवस्थापन

जाम—१५ अगस्त १९६५

गि रा—मान्य रन मान्यताचाल



अजमेर

मनस्य

प्राचीय समिति

तथा

बन्द यवस्थापन

जाय—६० वय

गिरा—एफ रा वाकिं

पूर्णचंद्र जैन



जयपुर  
मन्मय  
प्रानीय ममिनि  
जाम—१२ वय  
गिरा—एम ए माहित्य रत्न

प्रकाशवती मिन्हा



जयपुर  
मन्मय  
प्रानाय ममिनि  
जाम  
॥ १२ निमधुर १० १६  
गिरा—बी ए मान्य रत्न विटुपा

वासुदेव गाम्भी



उदयपुर  
मन्मय  
प्रानीय ममिनि  
जाम  
१० जनवरी १० २६  
गिरा—माहित्य रत्न मान्य मृगावर  
काव्यनाय मान्य गाम्भी

मदस्य —चंद्रशेखर शास्त्री

मदस्य —नारायणलाल शास्त्री

टुण्डमाहन गग



आदूरोइ  
अच्युत  
रा भा प्रचार  
ममिनि आदूरार  
रम—१ परवरा १००६  
गिरा—मट्टिक

चंद्रप्रकाश टांगिया



पायशती  
प्रानाय ममिनि  
जाम  
७ मा १० ८  
गिरा—बा काम (गिरा वय)  
प्रविंगिरा (धम)

## अजीज अहंमद यान



जावर माइसा

वै-व्यवस्थापन

जाम

१३ जुलाई १९४४

गिरा—इंग्र

## बालीदास स्वामी



जत्तूसर

वै-द्रृ-व्यवस्थापन

जाम

८ जनवरी १९१

गिरा—मट्टिव प्रभासर

## गोवधनलाल दाधीच



कुवारिया

वै-द्रृ-व्यवस्थापन

जाम

३ फरवरी १९३७

गिरा—इंटर विग्रह



## गोविंदराम नादराम

नडा

वै-द्रृ-व्यवस्थापन

जाम

४ जप्त्र १९३३

गिरा—इंग्र

## चचनाथ उ भडारी



गुमेरपुर

वै-व्यवस्थापन

जाम

१६ जलाई १९३२

गिरा—इंटर वाविल भापारल

## चतुर कोठारी



राजस्थान

वै-द्रृ-व्यवस्थापन

जाम

१९ मार्च १९३५

गिरा—इंग्र साहित्य रत्न

## जोरावरसिंह जी



बादुई

वै-द्रृ-व्यवस्थापन

जाम

१ मई १९१

गिरा—सिद्धातगास्त्री

## जगदीशप्रसाद शर्मा



आपरा हिंद

वै-द्रृ-व्यवस्थापन

जाम

१५ सितम्बर १९४४

गिरा—इंटर प्रथमा

### धरणीधर तु पड़ा



कुलगढ  
वैद्यवस्थापन  
जाम  
१२ अक्टूबर १९३७

गिरा—इष्टर रत्न

### नानालाल जोशी



गड्ढी  
वैद्यवस्थापन  
आयु—० वर्ष

### धरमचान्द गुप्ता "सुमन"



जेमेर रेखे  
वैद्यवस्थापन  
जाम  
११ नवम्बर १९२७

गिरा—मट्रिक

### पाराशर उपाध्याय



मोही  
वैद्यवस्थापन  
जाम  
३ जन १०३०

गिरा—मट्रिक बाबिं

### नवेन्दुलाल गोस्वामी



जयपुर  
वैद्यवस्थापन  
जाम  
२७ नवम्बर १९२०

गिरा—माहित्य रत्न साहित्यानाथ

### प्रसादीलाल शर्मा



ठग  
वैद्यवस्थापन  
आयु—४४ वर्ष

गिरा—गान्त्याचाय

### नानवराम सारण्



परणार  
वैद्यवस्थापन  
आयु—२७ वर्ष

गिरा—मापा रत्न

### बनगारीलाल जोशी



सहभगड़  
वैद्यवस्थापन  
जाम  
७ जन १०२५

गिरा—एम बाम

## भवरलाल भट्टागर



नारायणा

वै-उद्यवस्थापक

जम

१५ जनाई १९३८

गिरा—भूपण भट्टिर

## मदनलाल गोतम



अल गढ़ (टाक)

वै-उद्यवस्थापक

जम

१ जन १९३९

गिरा—इष्टर सा मुधाकर

## यशो माणवचंद जन



मेडता रोड

वै-उद्यवस्थापक

जम

३१ मित्रमंडर १९३७

गिरा—काविं सा मुधाकर

## मोधवलाल दरब



कुम्भलगढ़

वै-उद्यवस्थापक

जम

८ सितम्बर १०८

गिरा—काविं विगारद

## मानमल सुराणा



नारोर

वै-उद्यवस्थापक

आय—६ वप

गिरा—मट्टिर आयवें गासदी

## मुल्ले अमोरया पठान



नारोर

वै-उद्यवस्थापक

जम

३ सितम्बर १९३४

गिरा—मट्टर सानिय रत्न

## मूलचंद चेलगणी



सामर लेक

वै-उद्यवस्थापक

जम

२ अक्टूबर १९३८

गिरा—वी ए रत्न प्रभावर

## राधेश्याम गोड



उडवणा

वै-उद्यवस्थापक

जम

९ जनाई १९३४

गिरा—वी ए टी सो

### रामगोपाल गर्मि "बाल"



चेरी

वाद्र-व्यवस्थापन

जम

२६ जून १९७९

निधा—मटुक बोकिल

### रामचंद्र दवपुरा



गुलाबपुर

वाद्र-व्यवस्थापन

जम

२६ अप्रैल १९२८

निधा—जम ए वी एड सा रत्न

### रामचंद्र मीणा



चप गावीतायपुरा

वाद्र-व्यवस्थापन

निधा—श्री ए माहित रत्न

### रामसरस्प चोटिया



झूराड़

वाद्र-व्यवस्थापन

जम

१९ नियमन १९८४

निधा—ज्ञान विजात

### गुरुलाल सेठिया



नतराइ

वाद्र-व्यवस्थापन

जम

१६ मई १९४१

### गुरुरनाथ



गगापुर तिटी

वाद्र-व्यवस्थापन

जम

२५ जुलाई १९१४

निधा—वा ए सी टी

### गुरुतस्वरूप रस्तोगी



बोट ए बरा

वाद्र-व्यवस्थापन

निधा—वा ए

### गुरुभकरण जोगी



रेन

वाद्र-व्यवस्थापन

जम

६ अप्रैल १९४४

निधा—ज्ञान मानिय रन्न

सदाशिव पाठक



पोटा

वै— यवस्थापन

जन्म

२३ मार्च १९२१

गिरा—विगार गास्त्री

सम्पतराज भडारी



ओसिया

वै—यवस्थापन

वाय—५७ वय

गिरा—एम ए सा भपण विगारद

हकीम सय्यद जहीर अहमद



टाक

वै—यवस्थापन

सीताराम गास्त्री 'वासिष्ठ'



आबूरोड

वै—यवस्थापन

जन्म

२ निसम्बर १९१

गिरा—एम ए साहित्य रत्न प्रभाकर

सोहनलाल शर्मा



यरतिट्टसर

वै—यवस्थापन

जन्म

१ फरवरी १९४

गिरा—इष्टर विगार

हरिशचंद्र लाटा



मेडता ति १

वै—यवस्थापन

गिरा—एम ए साहित्य रत्न

हीरादास वण्णव



रोहेडा

वै—यवस्थापन

जन्म

१६ सितम्बर १९१०

गिरा—रा भा कोविद

हुकुमचाद महात्मा



कसागपरी

वै—यवस्थापन

जन्म

२७ फरवरा १९१३

गिरा—वा ए विगार

## श्रीनारायण त्रिवदी



बन्दूडा

बंद्र-व्यवस्थापन

ज्ञाम

१८ मिनिम्बर १९७३

गिरा—वा ए सा रन माहियाचाय  
आनन्दीराम माघ

मेडालिटा

प्रमाणिन प्रचारक

१०००

गिरा—गांत्याचाय मान्यरन

ओमप्रकाश गमा "प्रभाग

अनन्दर

प्रमाणिन प्रचारक

७१८९

ज्ञाम

१ अप्रृ १९७३

गिरा—वा ए

## यमलग कुमारी



राजपुर

प्रमाणिन प्रचारिका

६४

ज्ञाम

१५ मार्च १९८०

गिरा—ग भा काविं

## वानिलाल जोगी



इतिहास

प्रमाणिन प्रचारक

६४२

ज्ञाम

३ मार्च १९८२

गिरा—टर काविं

वृपानदाम दि गमा

अजमेर

प्रमाणिन प्रचारक

१३०३

ज्ञाम

१५ अप्रृ १९८५

गिरा—गणभाषा काविं

वृष्णाकुमारी रामचन्द्रानी

जयपुर

प्रमाणिन प्रचारिका

१००

ज्ञाम

३ मिनिम्बर १९८३

गिरा—वा ए (आय) रा भा रत्न  
हिंग रत्नावर

गिरीश गमा



इगरपुर

प्रमाणिन प्रचारक

६६

आय—६० वर

गिरा—गाँच रन गांवा भूषण  
वृष्य विगार

पनश्याम शर्मा निवदी



यागोर

प्रमाणित प्रचारक

७०८६

गिरा—साहित्योपाध्याय विगारद

चलाराम ज हरवाणी



अजमेर

प्रमाणित प्रचारक

१८५६

जाम

८ अक्टूबर १९१८

गिरा—राष्ट्रभाषा रत्न

झूमरमल उपाध्याय



लड़ी

प्रमाणित प्रचारक

६१४६

जाम

१५ अगस्त १९२२

गिरा—सान्ति रत्न शास्त्री  
साहित्याचाय वाचनीय

दामादरलाल निवदी



दिल्ली

प्रमाणित प्रचारक

२९०४

देवकुला पालीवाल



दिल्लीरणनर

प्रमाणित प्रचारक


६ ९-

जाम

१ जनवरी १९२१

गिरा—मट्रिक साहित्य रत्न

नारायण मो उपाध्याय



बासवाडा

प्रमाणित प्रचारक

४१७१

जाम

१६ फरवरी १९२२

गिरा—साहित्य रत्न

पुष्पेन्द्र जाला



रायपुर

प्रमाणित प्रचारक

४०६९

जाम

२२ जनाई १९२१

गिरा—एम डा एवं प्रभार सा रत्न  
आदर्वे विगारद

प्रकाशन जन



ओतिया

प्रमाणित प्रचारक

५५२६

जाम

११ जनाई १९३३

गिरा—मट्रिक विगार

### पतहलाल शर्मा



गुडली

प्रमाणित प्रचारक

७००३

जम

२९ नवम्बर १९२४

गिरा—विगारन काविद

### बसरमल ढालोमल



जोधपुर

प्रमाणित प्रचारक

२५२१

जम

२७ अगस्त १०२०

गिरा—मट्टि काविद

### बालकृष्ण खडोलिया



नलूदा

प्रमाणित प्रचारक

६९४६

गिरा—प्रभावर

### बीरबल गणेशलाल



जयपुर

प्रमाणित प्रचारक

७०५४

जम

१८ अगस्त १०३२

गिरा—रा भा काविद

### बलचंद ती नाथाणी



जयपुर

प्रमाणित प्रचारक

२५११

जम

१० निम्बवर १०२७

गिरा—वी ए रा भा रल

### मगवान सिह सोलवी'



जोधपुर

प्रमाणित प्रचारक

१०६

जम

१० मई १०२७

गिरा—वी ए सा रल रा भा रल

### मुगडो मी भोटवानी



अजमेर

प्रमाणित प्रचारक

६०४०

जम

१० मई १०३१

गिरा—इन्सर रा भा रल (प्रथ)

### मोलानाथ चतुर्वेदी



गगापर हिटो

प्रमाणित प्रचारक

२५१

जम

१० निम्बवर १०११

गिरा—एम ए सा रल मिदातगाम्या

### मर्दनलाल पारीक 'टिना'



चक्र घटकरियावास  
प्रमाणित प्रचारक  
५५६२  
जाम

५ फरवरी १० ४

गिरा—साहित्य रत्न रा भा रत्न

### माधोराम चाधरी



बर्टसहसर  
प्रमाणित प्रचारक  
६१७९  
जाम

१२ जून १९२४

गिरा—बी ए रा ए सा रत्न

### मिठनलाल देवमुरारी



रोहेडा  
प्रमाणित प्रचारक  
५५३६  
जाम

२९ मार्च १९२९

गिरा—इंस्टर विगार

### मूलचंद बुमावत



अनन्दपरकालू  
प्रमाणित प्रचारक  
५०५०  
जाम

१० अप्रैल १९३३

गिरा—साहित्य रत्न सिद्धातगास्त्री

### मूलगाह पारोत



बालानर  
प्रमाणित प्रचारक

५ २३

जाम

५ जुनाई १ २५

गिरा—इंस्टर प्रमाणित प्रचारक सा रत्न

### मूलवधन राजवर्गी



गगागहर  
प्रमाणित प्रचारक  
६६७०

जाम

४ जनाई १९२०

गिरा—एम ए शे एड सा रत्न  
गास्त्री

### माहनलाल द्विवदी



जोधपर  
प्रमाणित प्रचारक  
६६१४

जाम

१९ अप्रैल १९ ८

गिरा—इंस्टर साहित्य रत्न

### रामस्वलप महर्षि




थानूडा  
प्रमाणित प्रचारक  
६५ ०

जाम

१९ जनवरी १९८१


गिरा—माहिय रत्न

### रामम्बस्प राजन



जयपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
७०८८  
जम  
१३ मार्च १९७७  
गिरा—मट्रिक मानिय रत्न

### बासुदेव रामचन्द्रनानी



पिंगलगढ़  
प्रमाणित प्रचारक  
६७४  
जम  
२८ निम्बुद्वारा १० ६  
गिरा—मट्रिक रा भा ग्र

### परवाल माहेश्वरी



गान्धावरा  
प्रमाणित प्रचारक  
७ ५२  
जम  
१८ मार्च १० ६  
गिरा—वा ए माहित्य रत्न

### पातिकुमार आचाय



ठोंच  
प्रमाणित प्रचारक  
६५९९  
जम  
३ अप्रृ १ २९  
गिरा—विगारद

### गान्तिलाल हींगड़



उदयपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
७०१  
जम  
१८ जुलाई १९७९  
गिरा—वी एम सा रा भा रत्न

### गिवावर गग



सामर नेव  
प्रमाणित प्रचारक  
७२५३  
जम  
१० जून १९८८  
गिरा—माहित्य रत्न प्रभावर

### मत्यदेव राय



अजमेर  
प्रमाणित प्रचारक  
२३९५  
जम  
१ जन १००  
गिरा—वा ए मानिय रत्न प्रभावर

### सुदरलाल जाणी



मण्डावरा  
प्रमाणित प्रचारक  
०८  
जम  
११ मार्च १०१०  
गिरा—एम ए वी एड गा रत्न

## सौमदेव गर्मी



चूट  
प्रमाणित प्रचारक  
६१८५  
आयु—३१ वर्ष

## हरदत्त एच दवे



जोधपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
५३१६

गिरा—साहित्य रत्न गाम्भी

## हरिश्चाकर अग्रवाल



भरतपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
५८९९  
जन्म  
६ मितम्बर १९१५

गिरा—चैटर साहित्य रत्न

# विदर्भ-कागपुर राष्ट्रभाषा प्रचार संसिति

अध्यक्ष



डॉ भगवनीगवर नियांगो

उपाध्यक्ष



आचार्य गविरराव लाडे  
अध्यक्ष-जिला राष्ट्रभाषा प्रचार ममिनि  
अमरावती

मंत्रा-सचालक



ह.पी.देशपांडे

उपाध्यक्ष—मा सा वन्नमवार  
 सदस्य—रामगोपाल माहेश्वरी  
 जन त गोपाल शबड  
 मु श्री पाठ्य गुरजी  
 „ वे एम मुशी  
 „ भाऊसाहेब शड

सदस्य—शारदादेवी शर्मा

गोपा यक्ष—डाह्याभाई सुतारिया  
 रादस्य—शा गा पाठ्य  
 „ श्री रामाचार  
 माणिकराव वतुल  
 „ वमल वासद  
 कमला मणि

पुरुषोत्तम गा एकबोट



खामोशीव  
 उपाध्यक्ष  
 वन्दिलाणा जिना  
 रा भा प्रचार  
 समिति

शा गो पाठ्य, वकील



भडारा  
 अध्यक्ष  
 भनारा जिला  
 रा भा प्रचार  
 समिति

पु रा पारमरकर



उपाध्यक्ष  
 फिरा  
 रा भा प्रचार  
 समिति  
 अमरावता

गिरा—एम ए सा विशारद वाविद

आनादराव लढके



मत्रो सगठक  
 जिना  
 रा भा प्रचार  
 समिति  
 अमरावती

बलदेव सिंह



कायवर्ता  
 प्रातीय समिति  
 आय—४९ वर्ष

गिरा—एन्टर विशारद



श्याम लोहबरे

कायवर्ता  
 प्रातीय समिति  
 जाम  
 २९ अगस्त १९२८

गिरा—वा ए रा भा रत्न  
 सा विशारद ज डी

भास्वर दास्त्री उपाध्याय



कायशर्ता

प्रानाय ममिनि

जम

१ अवस्थामंदर १९१६

गिरा—सा विगार “प्रभास्वर गाम्भी

रामभाऊ सोठवण



कायशर्ता

प्रानाय ममिनि

जम

१ अप्रृत १९२९

गिरा—रा भा रल

आर रमणावाई नायडू



कायशर्ता

प्रानीय ममिनि

जम

१ जुनार्फ १९१०

गिरा—विगार बोविं हि गि सन्त

लमणप्रमाद तिवारी



कायशर्ता

प्रानीय ममिनि

जम

४ मर्द १९ ४

गिरा—रा भा परिचय

पर-२५

पाकर गो वाधाडे



कायशर्ता

प्रानाय ममिनि

जम

१ अगस्त १९४२

गिरा—रा भा परिचय

अजावराव तु समदुर



कायशर्ता

बांच-व्यवस्थापन

आयु—३० वर्ष

गिरा—मट्रिव रा भा वाविं

अण्णा वा ठाकर



अमरावता

बांच-व्यवस्थापन

जम

१ नवम्हर १०१९

गिरा—वा ए वी टा

अनत दे महागूर



कायशर्ता

बांच-व्यवस्थापन

गिरा—वा ए एम टा गा

पर-२५

## इदिरावाई बाट



यवतमाल  
कर्न-यवस्थापन  
जाम  
१५ अक्टूबर १९०६

गिरा—मटिक टी टी सी कोविं  
विगारद

## किसन अ भट्कर



ताढ़ी ब  
कर्न-यवस्थापन  
जाम  
१५ जनवरी १९१९

गिरा—रा भा परिचय वनियारा  
प्रगिक्षित

## हु ल खाबोटकरजी



आहोला  
कर्न-यवस्थापन

## कु फ बानखड



चिंचली  
कर्न-यवस्थापन  
जाम  
१ जुलाई १९८८

गिरा—वी ए वा टी रा भा बाबिं

## गणपतराव गु मुरेयाटे



देवरा  
कर्न-यवस्थापन  
जाम  
२९ अप्रैल १९२९

गिरा—रा भा परिचय सर्वडिलर दृष्ट

## गणपती मा भुसारी



क ढाला  
के-द्र-यवस्थापन  
जाम  
४ सितम्बर १९४४

गिरा—रा भा परिचय वसिंह दृष्ट

## गोपाल मा मानकर



शाइगांव  
कर्न-यवस्थापन  
जाम  
१ जुलाई १९१८

गिरा—मटिक, रा भा परिचय  
दृष्ट गिरा

## जगन्नाथप्रसाद पाण्ड



पुलगाव  
कर्न-यवस्थापन  
जाम  
१ जुलाई १९१७

गिरा—एम ए (हिन्दी अव गास्त्र)  
वी टी

### जगन्नाथ ना चोधरी



मलावा  
बांद्र-व्यवस्थापक  
जम  
१३ मई १९९८

गिरा—रा भा परिचय जड़ वाह  
ताअर

### तुकाराम रा चिद्रवार



यथतमाल  
बांद्र-व्यवस्थापक  
जम  
३ मई १९९०

गिरा—झी एम सा बी टी  
एल एन वा परिचय

### टी एल मुळजी



युनाणा  
बे-व्यवस्थापक

### दगडू तो घडसे



परणगांव  
बांद्र-व्यवस्थापक

गिरा—झी ए

### दामोदर वि केमकर



लोही  
बांद्र-व्यवस्थापक  
जम  
अक्टूबर १०९३

गिरा—झी ए बी टी प्रवा'

### दिवावर गु दगमुख



बलोरा  
बांद्र-व्यवस्थापक

गिरा—मट्रिक ग भा परिचय

### दवराव ठावटी



बणी  
बांद्र-व्यवस्थापक  
जम  
१५ फरवरी १०२५

गिरा—वा एम सा



नारायण ग महाध

इविठा बु  
बे-व्यवस्थापक  
जम  
१० मार्च १०२०

गिरा—जगन्नाथ भग्नेश भाषा  
दिग्गर

## नारीयण ल याळवाड



बोर्तगांव  
केरऱ्यवस्थापन  
जम  
१ जन० १९३६

गिरा—रा भा काविन्

## पढरी मु समय



बहुपुरी  
केरऱ्यवस्थापन  
जम  
१ नवम्बर १९३२

गिरा—मन्त्रिक काविन्

## पाढुरग प जावरे



माहोल जहागार  
केरऱ्यवस्थापन  
जम  
२ मई १९३२

गिरा—रा भा परिचय संकड़इयर  
(प्रि गि विद्यालय)

## फादर एफ मट्रो



नागपर  
केरऱ्यवस्थापन  
जम  
४ मई १०२०

गिरा—वी ए थी टी

## दा फ निमवर्जी



दारघा

केरऱ्यवस्थापन

## वावुराव तु चौधरी



आसेगांव पूणा  
केरऱ्यवस्थापन  
जम  
१९ अगस्त १९३२

गिरा—रा भा काविन्

## वावुराव व भोजन



अमरावती  
केरऱ्यवस्थापन  
जम  
७ जुनाई १९३४

गिरा—रा भा रल मा विगारद  
गि सन्त

## वावुराव श्या चौधरी



टाळला  
केरऱ्यवस्थापन  
जम  
२० मार्च १९३१

गिरा—वी एम सी, रा भा प्रवेण

वी के रागेद

थुर्गाव



वैद्यवस्थापन

गिरा—रा भा नोविं

मालचान्द आ गेडाम

पालोरा-शोधिया



वैद्यवस्थापन

गिरा—वी ए (प्रथम वर्ष)

बमिंद टी टी सी

मधुवर मो फलवे

तेल कामड़ा



वैद्यवस्थापन

गि गा—मट्रिक

मनोहर स भिट्ठरी

मूर्दरी

वैद्यवस्थापन

जाम

१६ जिल्हार १०२४

गिरा—रा भा शोविं

थो ए ओनम बी टी



मल्हारराव ह डोइफोड

सोनारी



वैद्यवस्थापन

जाम

५ मार्च १०२७

गिरा—मट्रिक एस टी भी

रा भा नोविं

म गो निकम



रोहणादेवी

वैद्यवस्थापन

जाम

१३ अगस्त १९३६

गिरा—रा भा परिचय



म वा बोडलावार

राजोनी

वैद्यवस्थापन

जाम

१ अगस्त १९२८

गिरा—राजा आग्न द्विं टी

रा भा परिचय

महादेव व गोमासे

जलगांव



वैद्यवस्थापन

जाम

१८ मई १०२५

गिरा—रा भा परिचय

महादेव या गटलवार

नागरी

वै-व्यवस्थापक

जम

२३ मार्च १९२६



गिरा—यो दी सी रा भा प्रवेण

महादेव सो चाचेरवर

राजोला

वै-व्यवस्थापक

जम

८ जुलाई १९७



गिरा—रा भा प्रवेण

मुरनीधर मु अडवे

हिंगणा

वै-व्यवस्थापक

जम

१३ जुलाई १९२१



गिरा—एम ए दी रा भा काविं

मोतीरामजी फुरसुल



कारजा लाइ

वै-व्यवस्थापक

गिरा—रा भा काविं टण्ड गिरव

यशवन्तराव देशमुख

अर्जोला

वै-व्यवस्थापक

जम

४ जुलाई १९७



माणिकराव स खिरोडवर

बाहोला

वै-व्यवस्थापक

जम

३ जून १९८



गिरा—सेक्षन्स्ट्रायर पास (द्रृष्ट)

माधव शि हजारे

मूल

वै-व्यवस्थापक

जम

१२ मार्च १९१६



गिरा—दी ए डिप् दी रा भा काविं

यादव तु पटल

भानगांव

वै-व्यवस्थापक

जम

२७ अप्रैल १९१९



गिरा—नामत स्कूल ट्रैण्ड

## रामचंद्र ना पिपलोदकर



आराला

बांद्र व्यवस्थापन

जम

१७ जुलाई १९२९

गिरा—ग भा परिचय टी टी गी  
माहिय स्नानव

रामभाऊ तु घाटे



गाघनपुर

बांद्र व्यवस्थापन

गिरा—मट्टिक हिन्दी परिचय

रामभाऊ मो भाडारवर



गापरपुर

बांद्र व्यवस्थापन

जम

११ अगस्त १९८

गिरा—ग भा परिचय  
ड्रांग इण्ड मीजिण्ट

रामराव व्य मारे



ददतनस

बांद्र व्यवस्थापन

जम

१३ जनार्द १९०६

गिरा—या ए टा टी गा ग भा वारि

## रस्तमराव आ खुपसं



हिवरखड

बांद्र व्यवस्थापन

जम

१० डिसेंबर १९२६

गिरा—रा भा वाविद समृद्ध  
भाषा विशारद

व मा घोप



नरपरसोगत

बांद्र व्यवस्थापन

जम

५ अगस्त १९२५

गिरा—वी एम सा वा टा

विद्याधर पाठक



जलालखडा

बांद्र व्यवस्थापन

जम

० जनवरी १९२८

गिरा—एम ए (F.N.A) वा टा  
ग भा ग्ल

विनायकराव वा पांड



माहुरा

बांद्र व्यवस्थापन

जम

२६ अगस्त १०

गिरा—मट्टिक ग मा गा

## विश्वनाथ द पानट



आमर्याब

वै-व्यवस्थापन

जम

२६ मार्च १९८८

गिरा—बी ए वा टी डा टी सी

## वण्णवाई गावड



काढालो

वै-व्यवस्थापिता

जम

७ मार्च १९१९

गिरा—रा भा परिचय टा टी सी

## सवनलाल द कटकवार



नागरर

वै-व्यवस्थापन

जम

२२ निसम्बर १९१२

गिरा—वा एम सा बी टी

## सम्भाजा को दलवी



सतम्ब

वै-व्यवस्थापन

जम

९ जग्सत १९१७

गिरा—रा भा परिचय एम सा

## मुरतसिंह उ चौहान



दिग्गंग

वै-व्यवस्थापन

जम

१४ जनाई ११

गिरा—बी ए एम ई डी

सत्कृत विनारद

## हेनुमत घ सगण



आबो

वै-द्रव्यवस्थापन

जम

८ दिसम्बर १९४४

गिरा—बी एस सी

## हरिभाऊ दु वालट



कुरई

वै-व्यवस्थापन

जम

४ निसम्बर १९१७

गिरा—रा भा बोविं एस सी

## श्रीरामपत न पेट



आमृणवाडा यडी

वै-व्यवस्थापन

जम

२६ अक्टूबर १९४३

गिरा—रा भा बाविं हि गि सन्

## अनंत दि भिसे



रिसोड

प्रमाणित प्रचारक

६४-१

जाम

१२ फरवरा १९३०

गिरा—मद्दिक साहित्य रत्न

आनंदराव म बाटकर



यवतमाल

प्रमाणित प्रचारक

५८६२

जाम

१ जुलाई १९३४

गिरा—रा भा रत्न रा भा ज विगारद  
मद्दिक

आनंदराव मा लढवे



अमरावती

प्रमाणित प्रचारक

२०६

जाम

१ जनाई १९०९

गिरा—वी ए

आत्माराम भायर



नायपुर

प्रमाणित प्रचारक

५५५६

जाम

१ जुलाई १०

गिरा—शाण रा भा वायर मा विगारद

प प-२६

## उत्तमराव रा कडु



अमरावती

प्रमाणित प्रचारक

६२७७

जाम

१० दिसम्बर २७

गिरा—वी ए हिंनी विगारद

उपासराव चि सूयवारी



हिंना

प्रमाणित प्रचारक

७१७७

गिरा—प्रा युनिवर्सिटा पा टी सा  
एम टी सा

उपा पाड



सांगत्यू

प्रमाणित प्रचारिका

७१००

गिरा—मद्दिक, रा भा वायर स्नातक

आवार साड



महाराष्ट्र

प्रमाणित प्रचारक

४५०१

गिरा—रा भा वायर

## वचस्पदास व आनंदर



देउलगांव राजा  
प्रमाणित प्रचारक

६९४

जम

१८ फरवरी १०५

गिरा—सीनियर हि पि सनन मट्टिक

## वमलाकर वा पोहाणे



वर्धा

प्रमाणित प्रचारक  
५८७४

जम

२६ जून १०३५

गिरा—बी ए रा भा काविन  
सा विगार्ह

## वमलाकर वि नारखड



धरणगाव

प्रमाणित प्रचारक  
६१२६

जम

२५ जनवरी १९३२

गिरा—वा एस सा बी ए बी टी

## किशनेलाल ज जाधव



धानी

प्रमाणित प्रचारक  
५६७

जम

२३ अगस्त १९२

गिरा—रा ए रा भा कोविन  
सा विगार्ह

## वेंगव दी चोयड



यवदा

प्रमाणित प्रचारक  
६१६२

जम

२२ अप्रैल १९३३

गिरा—रा भा काविन साहित्य विगार्ह

## केशरीचद मा चवड



कारजा

प्रमाणित प्रचारक  
५६५६१

## वेशार मु लाडग



चिकणी

प्रमाणित प्रचारक  
६४५९

जम

१ मई १९३०

गिरा—रा भा रल सा विगार्ह

## गगाकुमारी स्व राठी



नागपुर

प्रमाणित प्रचारिका  
६१९९

जम

५ निसम्बद्ध १९४

गिरा—रा भा काविन  
एम बी बी एस (प्रथम वर्ष)

### गजानन ज बोरवर



अमरावती  
प्रमाणित प्रचारक  
५०९८  
जाम  
७ अगस्त १९२९

गिरा—वी ए वा टा रा भा वाविं

### गजानन वि आसुट्टवर



कलम्ब  
प्रमाणित प्रचारक  
६०२३  
जाम  
१० निमध्यर १९२३

गिरा—ग भा वाविं वा टी टी

### गणपतसिंह मा खोजर



पद्मोद  
प्रमाणित प्रचारक  
६७१७  
जाम  
१० अक्टूबर १९२८

गिरा—मट्टिव डिप् टी रा भा वाविं

### गिरधारीलाल अग्रवाल



बवलपुर सिटी  
प्रमाणित प्रापास  
६३००  
जाम  
१० अक्टूबर १९२८

गिरा—वी ए रा भा रल

### गिरधारीलाल अग्रवाल



पुसद  
प्रमाणित प्रचारक  
४८०८  
जाम  
१ जुलाई १०३२

गिरा—वी ए (प्रथम वय) मा रल

### गीता वाढकर



यवतमान  
प्रमाणित प्रचारिका  
६८६१  
जाम  
० अक्टूबर १९२७

गिरा—वी ए डिप् टी वाविं दिग्गारन

### गुलाव वा भुते



नागपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
८८८१  
जाम  
१ मार्च १९३३









गिरा—रा भा रल गा स्नानन  
समृद्ध प्रवण

### गुलाबराव मो आगरकर



मूतिजापुर  
प्रमाणित प्रचारक  
५४६३  
जाम  
२८ नेमध्यर १०२८

गिरा—रा भा वाविं  
सा दिग्गारन मट्टिव



## जनादन रा फार



आर्द्ध  
प्रमाणित प्रचारक  
६२०२  
जाम  
५ अगस्त १९१  
गिरा—रा. ए बी टी कावद

## जनादन रा हिंगणीवर



नगपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
७०६३  
जाम  
२४ मार्च १९४  
गिरा—मट्रिक विगार

## जयवत अ ठाकरे



अमरावती  
प्रमाणित प्रचारक  
४०२  
जाम  
२६ अक्टूबर १९१४  
गिरा—गम टी सी विगार

## जानराव ल चौधरी



अवरावती  
प्रमाणित प्रचारक  
२००५  
जाम  
२४ अगस्त १०१  
गिरा—मट्रिक रा भा रत्न शा विगार

## जीवतगम भू चदवानी



नालपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
४६४४  
जाम  
९ अप्रैल १०२  
गिरा—इण्डर मा विगार

## जीवनकुमार स्व राठी



नालपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
६१०७  
जाम  
२५ अगस्त १९३२  
गिरा—मट्रिक डिपर्टी वाविर

## डूगरदास व पुरोहित



अमरावती  
प्रमाणित प्रचारक  
६७२८  
जाम  
५ अक्टूबर १९२६  
गिरा—वी ए मार्किय रन

## तुलसीराम फ गुप्तमे



पिपलगांव शाळ  
प्रमाणित प्रचारक  
६३३१  
जाम  
३ अक्टूबर १९१९  
गिरा—मट्रिक शा विगार

## य य युग

राजदा

प्रमाणित प्रचारक

६४८८

गिक्षा—मट्रिक वाविद



## भासदेव रा कोलते

खात

प्रमाणित प्रधारक

५७०६

जम

] १४ सितम्बर १९३४

गिक्षा—कोविद हि गि मन्त



## दत्तात्रय के कुलकर्णी

गलूबाजार

प्रमाणित प्रचारक

६९६

जम

१६ अप्रृ १९४२

गिक्षा—मट्रिक रा भा वाविद



## दत्तात्रय च काले

नर परसोपत

प्रमाणित प्रचारक

६४३९

जम

२ मई १९३४

गिक्षा—इटर वाविद, सा विगारद



## दत्तात्रय व रोड

मानवीय

प्रमाणित प्रचारक

२७५८

जम

३० जन १९२६

गिक्षा—मट्रिक रा भा वाविद  
सा विगारद

## दिवाकर श डकापूरवार

अक्षोला

प्रमाणित प्रचारक

५०१८

जम

८ अक्टूबर १९३४

गिक्षा—वी ए रा भा कोविद



## दिवेश्वर ना पडचा

अमरावती

प्रमाणित प्रचारक

५९४९

जम

१० जनवरी १९३५

गिक्षा—मट्रिक साहित्य सुधाकर वाविद



## दुगाशिकर शुक्ल

वामढा

प्रमाणित प्रचारक

५७४९

जम

६ फरवरी १९३८

गिक्षा—वी ए विगारद, सा विनीत



नदलाल म राजगुह



अबोला  
प्रमाणित प्रचारक  
१४११  
जाम  
१८ मई १९२४  
गिरा—वी ए टी विगार्द

ननिनीवाई आ लट्के



अमरावती  
प्रमाणित प्रचारिका  
७३  
जाम  
१ सितम्बर १९२२  
गिरा—वा ए टी सा रा भा रल

नारायणलाल ग्या गुता



अमरावती  
प्रमाणित प्रचारक  
६००३  
जाम  
१४ जून १९२०  
गिरा—प्रा युनिवर्सिटी (आर) सा विगार्द

नारायण सा नाफडे



नंदुरा  
प्रमाणित प्रचारक  
२८५  
जाम  
२८ नवम्बर १०१५  
गिरा—मट्रिक डिप्लो माहित्य विगार्द

नारायण व वाकडे



जहड  
प्रमाणित प्रचारक  
६१९६  
जाम  
१ जुलाई १९३५  
गिरा—वी वाम विगार्द

नामदेव रा अडाऊ



एटापल्ली  
प्रमाणित प्रचारक  
जाम  
२५ निम्बर १०२८  
गिरा—विगार्द टक्किवार यह इमरद्देंड

निहालचद आ ववकाणी



मेहर  
प्रमाणित प्रचारक  
जाम  
३० अगस्त १९३०  
गिरा—मा रल, सा स्नानक भट्टिव

पाढुरग गो वटारे



नरकड  
प्रमाणित प्रचारक  
जाम  
१ जनाद १०२३  
गिरा—मट्रिक गाहित्य रल

पाठुरग तुकाराम पराते



वर्षा

प्रमाणित प्रचारक

१ ६९६२

जन्म

१ नवम्बर १९२५

गि गा—विचारद

पाठुरग व नाईक



यवतमाल

प्रमाणित प्रचारक

४६२८

जन्म

२१ अप्रृ १९२४

गिक्षा—रा भा वाचिद मट्रिक

पाठुरग विष्णुपत पाठक



अकोला

प्रमाणित प्रचारक

२९६७

जन्म

२२ अक्टूबर १९८

गि गा—एम ए डी टी सा विचारद

पावनीवाई सदाशिवराव जागी



अकोला

प्रमाणित प्रचारिता

६ -

गि गा—गम ए वा टी सा विचारद

पुढलिकराव चुडामण घीघरी



रितोड

प्रमाणित प्रचारक

१ ९३

गिक्षा—वी काम, रा भा वाचिद सा रत्न

पुढलिक सूयभान मध



वर्षा

प्रमाणित प्रचारक

३२९७

जन्म

७ मई १९२७

गिक्षा—सा रत्न प्री यनिवसिटा

प्रतापसिंह कांगोरामसिंह गिरासे



अमरावत

प्रमाणित प्रचारक

६७१३

जन्म

१ जनाई १९३६

गिक्षा—सा रत्न सा स्नातक मणिक

प्रभाकर नानाजी कुदारपवार



नागपुर

प्रमाणित प्रचारक

५ ७८

जन्म

१ अप्रृ १९३५

गि गा—रा भा वाचिद सस्कृत-परिचय

सा विनाल

### प्रेमनारायण अवस्थी



भद्रावती  
प्रमाणित प्रचारक

६९६१

जाम

१२ मई १९५१

गिरा—साहित्य रत्न मट्रिक

प्रेमलाल मणिराम चब्हाण

मुक्त्ती

प्रमाणिक प्रचारक  
६००९

जाम

११ अगस्त १९३६

गिरा—सा विगारू रा भा काविद  
मट्रिक

### बलीराम लोटू बहाटे



नादगाँव खड़वर

प्रमाणित प्रचारक

१४४८

जाम

२६ निम्बर १९२९

गिरा—रा भा कोविन सा विगारू  
प्री पुनिहसिटी

बापुराव चिनुजी सोनपराते



दर्यापुर

प्रमाणित प्रचारक

६८६६

जाम

१ निम्बर १०३२

गिरा—सा विगारू प्री पुनिहसिटी  
गिरामा इड नीचिंग

### बापुराव रावोजी हांगे



पातुर्डी

प्रमाणित प्रचारक  
६१३०

जाम

३० अगस्त १९०

गिरा—साहित्य रत्न (प्र य) मट्रिक

बापुराव ड जुमडे



पाठ्रववडा

प्रमाणित प्रचारक  
२४१७

जाम

१ जुनाई १९१७

गिरा—सा विगारू सा स्नातक

### बालवृष्णि रा पाघे



मोहपा

प्रमाणित प्रचारक  
५०२१

जाम

१४ अक्टूबर १९३४

गिरा—रा भा रत्न भा पारगत,  
वी ए (प्र य)

वा घ महात्मे



जसासुखा

प्रमाणित प्रचारक  
६४१

जाम

१० नवम्बर १०८०

गिरा—एम लग भा लग टा गा  
रा भा काविं सा विगारू

भगवान जी अत्तरपर



नादुरा

प्रमाणित प्रचारक

२११५

जाम

१५ जनवरी १९१६

गिरा—सा विगारन मट्रिक  
ज्यु नि सन्ट

भाऊ भाण्डवकर

अमरावती

प्रमाणित प्रचारक

२२६५

जाम

७ मई १०३

गिरा—एम ए सा रत्न



भाऊराव गोविंदराव दामधर



नादुर जलधार

प्रमाणित प्रचारक

६७२४

जाम

२३ निसम्बर १९११

गिरा—सा भा वाविन मट्रिक  
सा स्नानक

भाऊराव चम्पतराव पांडेले



बडनरा

प्रमाणित प्रचारक

६७२०

जाम

२१ फरवरी १९१७

गिरा—गा रत्न भा स्नानक

भाऊराव मोतीरामजी वाढेकर



मोतरा

प्रमाणित प्रचारक

१८९६

जाम

१ जुलाई १९१७

गिरा—सा रत्न (प्र ष)

प्री युनिहसिटा

भाऊराव ऊफ भंवरलाल श  
टिकनायत



वणी

प्रमाणित प्रचारक

६६५८

जाम

१ जुलाई १९३९

गिरा—सा भा रत्न सा सुधाकर

मा विनीत मट्रिक

भा शा वराळ



तेल्हार

प्रमाणित प्रचारक

५२२

जाम

२ निसम्बर १९३२

गिरा—बी ए बी शा सुधाकर



भानुकुमार ना ढवळ

अचलपुर गहर

प्रमाणित प्रचारक

५८०६

जाम

१६ निसम्बर १९३२

गिरा—मा रत्न मट्रिक सा विनात

મિલાજી વાપુના પાડવ



વિપનગાવ કાન  
પ્રમાણિન પ્રચારક

૩૨

જામ

૨ જાન્યારી ૧૯૯

નિયા—પા રત્ન મા નિ સન્દ

ભીમરાવ વિમનરાવ ભટ્ટઠ



દિપામ  
પ્રમાણિન પ્રચારક

૪૪૮૦

જામ

૨૩ જાન્યારી ૧૯૯

નિયા—મહિંવ રત્ન યાપામ વિગારદ

ભીમરાવ ગણ્ણોજી માહુરે



કલમ્બા

પ્રમાણિન પ્રચારક

૪૬૦૨

જામ

૧ જુન ૧૯૭

નિયા—ગ મા વાવિં મા યાનીન

મણિરામ રામાજી દેવધરે



ઉમરેઢ

પ્રમાણિન પ્રચારક

૨૩૦

જામ

૨૭ બાન્ધવર ૧૯૭૦

નિયા—રા ભા રત્ન ગ રા

મણિરામ દ્વારકાદાસ ગુજરાતી



ગારથોરી

પ્રમાણિન પ્રચારક

૧૮૦

જામ

૧ અગન્ન ૧૦૨૫

નિયા—રા ભા વાવિં  
દી એ (સબું પાણ) એન સા મી જાફિસર

મધુકર વિંગુજી તરાળે



આરાલા

પ્રમાણિન પ્રચારક

૬૭૦૬

જાન

૨૮ ફરવરી ૧૦૮

નિયા—મા વિગારદ મહિંવ મા પરિચિત

મધુકર તાનગાજી રાજૂરકર



થણી

પ્રમાણિન પ્રચારક

૪૮૬

જામ

૬ અગન્ન ૧૦૨૧

નિયા—ગ વિગારદ મા સ્નાનર  
દા દા સા

મધુકર દિનકર પાણે



નરપતિસાગર

પ્રમાણિન પ્રચારક


૪૪૬

જામ

૧ અપ્રિ ૧૦૮

નિયા—એ રા ભા કાવિં  
સાંદ્રત યાપા વિગારદ

## मधुर वाजीराव समरीा



मोहाडी

प्रमाणित प्रचारक


६७१६

जम

६ सितम्बर १९३८

गिरा—रा भा कावि॒ मट्रिक  
सा विनीत

## मधुकर लक्ष्मणराव सपवाड



लूबाजार

प्रमाणित प्रचारक

७१४१

जम

१९ मई १९३५

गिरा—रा भा कोविं मट्रिक डिप टी

## मधुसूदन कुजीलाल तिवारी



चिल्ली

प्रमाणित प्रचारक

१४३३

जम

१ जुलाई १९२५

गिरा—रा भा कोविं या विगारद  
मट्रिक

## मदनगोपाल दे नायक



नागपर

प्रमाणित प्रचारक

७४६५

जम

२३ अगस्त १९३३

गिरा—मट्रिक रा भा काविद

## म स वेदार

तिरजगावि

प्रमाणित प्रचारक

७१२८

जम

११ निसम्बर १९३४

गिरा—रा भा वाविं इण्टर आटम

## महादेव गोपाल कानड



मारखड

प्रमाणित प्रचारक

६०४०

जम

२३ नवम्बर १९३६

गिरा—रा भा काविं टी टी सी

## महादेवराव देवीदास पावड



पारजा

प्रमाणित प्रचारक

२२

जम

९ अगस्त १९२६

गिरा—एम ए टी टी रा भा रल

## महादेवराव म आटणकर



सोही

प्रमाणित प्रचारक

१०३८

जम

१ जुलाई १९२९

गिरा—सा विनीत मट्रिक आ पारगत

### महादेव लहनुजी फगडे



बडनरा टाउन  
प्रमाणित प्रचारक  
६२६१  
जाम  
१ जुलाई १० १  
गिया—वा ए ग भा वाविं

### माँगिलाल गिवनारायण मध्यरिया



तल्हारा  
प्रमाणित प्रचारक  
४२३०  
जाम  
१७ सिंहवार १० २

गिया—ग भा वाविं मा विगार  
मट्रिक

### माणिकराव गु पाटील



नरविंगलाई  
प्रमाणित प्रचारक  
५५५७

गिया—रा भा रत्न मा विगार

### माणिक भगवतराम पदम



अमरावती  
प्रमाणित प्रचारक  
४१०७

गिया—मट्रिक दिन टी मा विगार  
सा मुथार

### माधव ना जारी



बोरगाव भजू  
प्रमाणित प्रचारक  
७०६४  
जाम  
७ अप्रृत १९४१  
गिया—वा ए (प्र वय) ग भा रत्न

### माधवराव आगाजी चौधरी



हिंगणधार  
प्रमाणित प्रचारक  
५५  
जाम  
१ मार्च १० ०

गिया—मा विगारक पा टा भा  
एम वा सा वा ए (प्र रय)

### मारति नारायण वानखेडे



मानेगांव  
प्रमाणित प्रचारक  
१८९  
जाम  
४ फरवरा १०३१

गिया—ग भा वाविं मट्रिक

### मुरारीलाल रामचरण चौधरी



पासगांव  
प्रमाणित प्रचारक  
५२३१  
जाम  
० नू १० २

गिया—वा ए ग भा रत्न गिया विगार

मोतीराम जयरामजी शहावार



मोहरा

प्रमाणित प्रचारक

६७ ३

जन्म

२३ सितम्बर १९२७

गिक्षा—रा भा कोविद मट्टिक ए सी सी

मोतीलाल शिवरामजी माकण्डय

वर्धा

प्रमाणित प्रचारक

६८२

जन्म

२० जुलाई १९१६

गिक्षा—एम ए सा रत्न लिपि ठी

मोहम्मद शरीफशख भीकन

दिल्ली

प्रमाणित प्रचारक

६७ ४

जन्म

१ अप्रैल १९२७

गिक्षा—रा भा कोविद मट्टिक डिप ठी

यशवत जयरामजी मुड

सालई कला

प्रमाणित प्रचारक

५८९१

जन्म

३ मई १९३६

गिक्षा—रा भा काविद वद्य विगारद

यादव विश्वनाथराम वारापाल

वारारी



प्रमाणित प्रचारक

४८३४

जन्म

८ मार्च १९ ४

गिक्षा—मा रत्न रा भा रत्न बी ए  
सा स्नातक

रघुनाथ विष्णुपात समथ

यवतमाल



प्रमाणित प्रचारक

२ १९

जन्म

७ अगस्त १९२१

गिक्षा—रा भा रत्न मा रत्न

रा गो उफ भाऊसाहेब उवेकर

हरम



प्रमाणित प्रचारक

५८ ४

जन्म

१ जुलाई १९३२

गिक्षा—रा भा कोविद मट्टिक सा स्नातक

राजाराम एकनाथ जोशी

खामगांव



प्रमाणित प्रचारक

६२ ६

जन्म

२४ जून १९२

गिक्षा—सा विगारद सी शि सनद

राजाराम चासुदेव पाठक



पिपलांग राजा  
प्रमाणित प्रचारक

७१४९

जाम

१२ अगस्त १९२५

गिरा—मा विगारद

सम्पादन करा विगारद

रामजी राघोजी राऊत



नरपरसोपत्र  
प्रमाणित प्रचारक

५९१४

जाम

१२ अप्रैल १९६

गिरा—वा ए वा टी रा भा कावि

रामबृष्णराव उत्तमराव देशभूष



नारखड

प्रमाणित प्रचारक  
६९१

जाम

२८ जनवरी १९३६

गिरा—रा भा कावि मा विगारद  
वी ए (प्र ष)

रामबृष्ण महादेवराव पाटे



अडगाय

प्रमाणित प्रचारक  
५६१२

जाम

१२ जिनम्हर १९२

गिरा—रा भा कावि मट्रिक

रामगोपाल मुरारका



बर्धा

प्रमाणित प्रचारिक  
७४६३

जाम

१ जनवरी १९३१

गिरा—रा भा काविद, विगारद, मट्रिक

रामचंद्र उद्दाजी वापडे



बलोरा

प्रमाणित प्रचारक  
५२६३

जाम

१ अप्रैल १९२९

गिरा—रा भा काविद मट्रिक

रामचंद्र गोपालराव खरे



सरामपुर

प्रमाणित प्रचारक  
६७८१

रामचंद्र माधवराव अटीकर



गामगाव

प्रमाणित प्रचारक  
०९

जाम

१ जार्व १००

गिरा—विगारद, मट्रिक, दिल टा

### रामचन्द्र महादेव बोदड



गांधीनगर

प्रमाणित प्रचारक

६०१०

जाम

१ जनवरी १९१६

गिक्षा—रा भा वाविल भट्टिक

### रामचन्द्र विनायक हरणगावकर



नाशुर

प्रमाणित प्रचारक

८९५

जाम

१० मई १९२२

गिक्षा—विनायक रा भा रत्न  
हि नि सना भट्टिक

### रामचन्द्र य भहले



चावसवाठोडा

प्रमाणित प्रचारक

६२६८

जाम

१ माच १९३९

गिक्षा—प्री यू सी सा विनायक

### रामचरणसिंह दे चदल



मकुटवन

प्रमाणित प्रचारक

७१४७

जाम

१ अप्रैल १९४६

गिक्षा—भट्टिक रा भा वाविल

### रामदास ग हाण्ड



मतिजागुर

प्रमाणित प्रचारक

८८१२

जाम

१२ माच १९३७

गिक्षा—भट्टिक, रा भा रत्न

### रामदास य वाटकर



सख्ल

प्रमाणित प्रचारक

५८०२

गिक्षा—बी ए रा भा रत्न

### रामनाथ स चपरिया



यवतमाळ

प्रमाणित प्रचारक

६२५७

जाम

२७ अगस्त १९२

गिक्षा—टी टी सी रा भा वाविल

### रामराव पाटुरग वाईकर



वण

प्रमाणित प्रचारक

३८९

जाम

२७ मई १९३३

गिक्षा—बी ए रा भा रत्न

### रामलाल द्या भेहर



चिक्षाती

प्रमाणित प्रचारक

४१४८

जाम

१ अगस्त १९१

गिरा—मट्टिक सा विगारद रा भा रत्न

### रामसिंह जा राठोर



बारजा

प्रमाणित प्रचारक

५२६८

जाम

२ अगस्त १९२

गिरा—इटर रा भा काविन

### राडीराम सी गोमासे



साकोलो

प्रमाणित प्रचारक

६८४

गिरा—धी य मी विगारद

### लखाराम कु उपाध्याय



अहाता

प्रमाणित प्रचारक

५८८

जाम

१ निसम्बर १९३४

गिरा—मट्टिक दिय दा विगारद

### लक्ष्मण या गणोरकर



बत्तूर

प्रमाणित प्रचारक


६९२८

जाम

१ निसम्बर १९३९

गिरा—रा भा रत्न पा दा सी

### लक्ष्मण ह बोलते



बडनर

प्रमाणित प्रचारक

५४७८

जाम

२६ निसम्बर १९३७

गिरा—मट्टिक सा विगारद

### लक्ष्मीनारायण व जजसवाल



सोनाता

प्रमाणित प्रचारक

६७८७

जाम

२ मार्च १०३८

गिरा—रा भा काविन विनीत

### बत्तमनादेवी पावडे



बारजा

प्रमाणित प्रचारिका

५११२

जाम

परवरी १०४४

गिरा—दा (पार १) रा भा रत्न

## वासुदेव उ पट्टूकर



बलदद

प्रमाणित प्रचारक


६५१९

जम

२८ अप्रैल १९३९

गिरा—रा भा कावित सा एग्जिक्युटिव

## वामनराव वा सिरभाते



यवतमाळ

प्रमाणित प्रचारक

५८४९

जम

२१ जनाई १९२९

गिरा—मण्डिक एस टी सी काविद

## वामन वा नागभीडकर



नागपुर

प्रमाणित प्रचारक

२७५७

जम

६ नवम्बर १९२८

गिरा—बी ए (प्रथम वय) सा रत्न

## वामनराव स ढोके



अमरावती

प्रमाणित प्रचारक

५९१३

जम

२१ मई १९२९

गिरा—मण्डिक कावित

## वासुदेव उ पट्टूकर



नागरो

प्रमाणित प्रचारक

६०२६

जम

१२ अक्टूबर १९५५

गिरा—कोविट सा विनोत थी टी नी

## वासुदेव ग वुट्टले



यवतमाळ

प्रमाणित प्रचारक


६७८९

जम

२४ मितम्बर १९२७

गिरा—बी ए डिप टी कोविट

## वासुदेव च कुलकर्णी



अकोला

प्रमाणित प्रचारक

३ ११

गिरा—सा विनार

## वासुदेव वा तिमाह



हिंगांघाट

प्रमाणित प्रचारक

७ १९

जम

१ जुलाई १९३८

गिरा—बी ए (प्रथम वय) कावित

विठ्ठलराव उ सदापते



मुत्तिनापुर  
प्रमाणित प्रचारक  
६२७७  
जन्म  
१ जुलाई १९८५  
गिरा—दी टी मा काविं

विठ्ठलदास का पाटील



बत्ता  
प्रमाणित प्रचारक  
६५०७  
जन्म  
१ जुलाई १०२०  
गिरा—वी ए (पार २), रा भा रत्न

विठ्ठल तु खोगळ



पांचवडा  
प्रमाणित प्रचारक  
५०५१  
जन्म  
२८ अगस्त १३१  
गिरा—वी ए विनायक

वि दी महाले



सिंधुदुर्ग  
प्रमाणित प्रचारक  
७१०१  
जन्म

गिरा—भट्टिं विनायक

विठ्ठल वा भौज



उमरेड  
प्रमाणित प्रचारक  
५६१६  
जन्म  
१० मिनस्वर १९१७  
गिरा—रा ए (पार २) काविं

विठ्ठल व्य हजारे



सेलू  
प्रमाणित प्रचारक  
६४८२  
जन्म  
२ जून १०३१  
गिरा—वी ए (पार १) काविं

विनायक दा कवरकर



मुत्तिनापुर  
प्रमाणित प्रचारक  
४३१२  
जन्म  
१५ जुलाई १०००  
गिरा—गिरा टा मार्क्य रत्न (प्र प)

विनायक ग चावरे



सिद्धी यु  
प्रमाणित प्रचारक  
५१९  
जन्म  
१ जलाई १०३२  
गिरा—श्रा यु सा, काविं

### विश्वेश्वर रा मीहगावार



जाय ४५ वर  
गिरा—स्टर डिप टी गा रिगार

पुस्तकाला  
प्रमाणित प्रचारक  
३२०६  
जाम

### विश्वनाथ रा वाधे



१५ नवम्बर १९३२  
गिरा—मट्रिक वोविं

नारद  
प्रमाणित प्रचारक  
६५८३

जाम

### विश्वम्भरनाथ शि तिवारी



६ दिसम्बर १३४  
गिरा—बी ए साहित्य रत्न

नामपुर  
प्रमाणित प्रचारक  
५११५

जाम

### विष्णु त्रिवेदी दीक्षित



गिरा—बी ए सा विगारद

अशोला  
प्रमाणित प्रचारक  
१७०५

### यादग जा गधवार



दहनी  
प्रमाणित प्रचारक  
४४४७  
जाम  
२१ अप्रैल १९३७  
गिरा—मट्रिक वोविं

### शकर डो वाभूलवर



पात्रजी  
प्रमाणित प्रचारक  
६८६२  
जाम  
१ जनवरी १९३७  
गिरा—मट्रिक वोविं

### शकर ना पाटील




नादगाव खेठ  
प्रमाणित प्रचारक  
७१४४  
जाम  
१५ जुलाई १९२८  
गिरा—रा भा वोविं

### शकर भ भदाड



लाखनी  
प्रमाणित प्रचारक  
९२२  
जाम  
१ जुलाई १९२१  
गिरा—मट्रिक, विगारद वोविं

### गवर्नरलाल र डोलिया



दर्शा  
प्रमाणित प्रतारक  
५८८  
जन्म  
१२ जनवरी १९१८

गिरा—बी ए एस टी सी सा रत्न

### शकुतला मराठ



यवतमान  
प्रमाणित प्रतारिका  
६७६६  
जन्म  
२१ नवम्बर १९२२

गिरा—मट्टिव डिप टी विगारद

### शकुतला धु सावडी



दत्तबापुर  
प्रमाणित प्रतारिका  
७१०३  
जन्म  
२८ मित्तम्बर १९२६

गिरा—बी ए एस टी सी

### गरदभ पदार्थ



दिपस  
प्रमाणित प्रतारक  
६००  
जन्म  
२ जून १९४०

गिरा—प्रि मू सी टाकिं

### गम्भूलाल सेठिया



नागपुर  
प्रमाणित प्रतारक  
६४६४  
जन्म  
२ मित्तम्बर १९३३  
गिरा—एम ए (प्र य) बी टी  
रा भा रत्न (प्र य)

### शालिनी अनाणी



यापरखडा  
प्रमाणित प्रतारिका  
२११८  
जन्म  
७ अप्रैल १९२१  
गिरा—बा ए बा टी गा रत्न  
रा भा रत्न

### विवरतन विसमलान पाढे



नारुरा  
प्रमाणित प्रतारिका  
२२८२  
जन्म  
१ जनाम १९२  
गिरा—बी ए एलिं नी माटिय रत्न

### गण इस्माइल शय शाद



मुलाग  
प्रमाणित प्रतारक  
८१  
जन्म  
३ जनूबर १९२०  
गिरा—विगार शा प्राण

पाप रासम पाय लाल



पतम्ब

प्रमाणित प्रचारक

६१६४

जाम

२७ जुनाई १९३३

गिक्षा—रा भा कोविं

श्यामराव आ बाडगिलवार



तामपुर

प्रमाणित प्रचारक

५७ न

जाम

१० दिसंबर १९३१

गिक्षा—री ए विनारद

श्यामलाल नमा



हामर्गाव

प्रमाणित प्रचारक

६१४

जाम

१ जनाई १९१२

गिक्षा—बी ए बी टी सा रत्न

सदाशिव पि दलाल



उमरेद

प्रमाणित प्रचारक

६२६३

जाम

१६ जनूवर १९१८

गिक्षा—प्री यू सी, कोविं

सहयोवराय ना भोपळ



हियरखडा

प्रमाणित प्रचारक

२७८२

जाम

८ अप्रैल १९२०

गिक्षा—इटर साइम कोविं

सत्यद अमीरलाह सत्यद अफजल



टाकरखडा

प्रमाणित प्रचारक

७४१२

जाम

१ जुनाई १९३७

गिक्षा—मटिक पा टी सी कोविं

सुखदेव क पाठकर



कलम्ब

प्रमाणित प्रचारक

६१२४

जाम

१ जुनाई १९३३

गिक्षा—रा भा कोविं मटिक

सुधाकर पा देव



साखरखडा

प्रमाणित प्रचारक

५८९३

जाम

२१ अक्टूबर १९३५

गिक्षा—इटर सा विनारद

## सुधाकर रा वाण्डलवर



धना पु  
प्रमाणिन प्रचारक  
६७१२  
जा  
२८ जनवरा १ ३६  
गिरा—रा भा रत्न (प्र ख)

## सूयकात जोटवानी



गोंग्या  
प्रमाणिन प्रचारक  
१०००

गिरा—साहित्य रत्न

## हरणोविद के चौरसे



नागपुर  
प्रमाणिन प्रचारक  
१६२१  
जा  
२८ फरवरा १९२५

गिरा—वा ए प्रभावर सा रत्न

## हरिहर या देगमुख



महाल इस्तगोर  
प्रमाणिन प्रचारक  
५८ ९  
जा  
० अगस्त १०२८

गिरा—वा ए सा विनाट

## हेमलाल मो गुजराथी



बुलदाणा  
प्रमाणिन प्रचारक  
६०२६  
जा  
१ मई १९२

गिरा—वा ए, वी टी सा विनाट

## थावण झ वालपाडे



नागपुर  
प्रमाणिन प्रचारक  
६७२८  
जा  
२३ जग्ज १९२२  
गिरा—वी ए वाविन

## थावण ना वटाळे



लोहगांव  
प्रमाणिन प्रचारक  
६२ १  
जा  
२ परवरा १० २२

गिरा—मट्रिक, वाविन

## श्री झ कुटे



महाल झु  
प्रमाणिन प्रचारक  
७१ ७  
जा  
८ जान्म १० ४

गिरा—ग भा वाविन

## श्रीराम पां गावड



पातुडी

प्रमाणित प्रचारक

१६११

ज्ञम

६ जनवरी १०३३

गिरा—मटिक काविद

## श्रीराम वि ताम्बी



तोनाला

प्रमाणित प्रचारक

६२७९

ज्ञम

।, १४ जनवरी १९५७

गिरा—भास्कर राजा काविद

## श्री मि वावनकुले



कामठी

प्रमाणित प्रचारक

६६४१

ज्ञम

१ जुनाइ १०३९

गिरा—ज्यू हि गि सनद सा विनीत

## ज्ञानश्वर के इगळ



धरणगाव

प्रमाणित प्रमाणित

६१२५

ज्ञम

।, ११ जनवरा १९३८

गिरा—बी ए साहित्य रत्न

# अफ्रीका

भलाभाई द पटेल



जोहानोसवग

अध्ययन

हिन्दी विद्यामन्त्र

गिरा—मुटिक

खुगालभाई ला पटेल



जोहानोसवग

भूतपूर्व अध्ययन

हिन्दी विद्यामन्त्र

रमिकलाल ड महेता



जोहानोसवग

भूतपूर्व अध्ययन

हिन्दी विद्यामन्त्र

गिरा—एम वा बी एम



बल्लभभाई गो पटेल

जोहानोसवग

भूतपूर्व अध्ययन

हिन्दी विद्यामन्त्र

गिरा—एम वा बा एम एम डा

लम्हीचद शाह



जोहानोसवग

उपाध्यय

हिन्दी विद्यामन्त्र

गिरा—एम वा वा सा

हरिदचद्र जी आय



जोहानोसवग

मावा

हिन्दी विद्यामन्त्र

अरणकुमार विद्यालवार



जोहानोसवग

सम्यापक मन्त्र्य

गिरा विद्यामन्त्र

गाविंभाई रा पटेल



जोहानोसवग

सम्यापक मन्त्र्य

गिरा विद्यामन्त्र

गिरा—दग्ग

जीवनभाई भ ज्ञाय



जोहान सबग  
सरथान सन्स्थ  
हिंदी विद्यामन्दिर

कमलादेवी



जोहानीसबग  
सन्स्थ  
हिंदी विद्यामन्दिर

गिरा—विद्याविभूषिता विशारद

कलभाई मो राठोड



जोहानीसबग  
सन्स्थ  
हिंदी विद्यामन्दिर

छोटभाई न महेता



जोहानीसबग  
सन्स्थ  
हिंदी विद्यामन्दिर

छाटूभाई ला देसाई



जोहान सबग  
सन्स्थ  
हिंदी विद्यामन्दिर

गिरा—बी काम

जान विवटर यामसन



जोहानीसबग  
सन्स्थ  
हिंदा विद्यामन्दिर

गिरा—ज सी

जीवनभाई गो पटल



जोहानीसबग  
सन्स्थ  
हिंदी विद्यामन्दिर

गिरा—मट्रिक

ठाकारभाई अम्बादास



जोहानीसबग  
सन्स्थ  
हि दी विद्यामन्दिर

गिरा—मट्रिक

ਡਾਹਿਆਈ ਪ੍ਰੇ ਪਟੇਲ

ਸਿਨਿਪ ਜਾਨ ਯੂਕਮ



ਜੋਹਾਨੀਸਵਾਗ

ਸਤਾਧ

ਫਿਨੀ ਵਿਦਾਸ਼ਨਿਰ



ਜਾਹਨਾਸਵਾਗ

ਸਤਾਧ

ਚਿੰਨਾ ਵਿਦਾਸ਼ਨਿਰ

ਦਲੁਮਾਈ ਪ ਪਟੇਲ

ਮਗਨਲਾਲ ਢਾ ਪਟੇਲ



ਜੋਹਾਨੀਸਵਾਗ

ਸਤਾਧ

ਫਿਨੀ ਵਿਦਾਸ਼ਨਿਰ



ਜੋਹਾਨ ਸਵਾਗ

ਸਤਾਧ

ਚਿੰਨਾ ਵਿਦਾਸ਼ਨਿਰ

ਦੇਵਜੀਮਾਡ ਤ ਮਿਸ਼੍ਨੀ

ਮਥੁਰਾਦ ਮੂ ਚਦਨ



ਜੋਹਾਨਸਵਾਗ

ਸਤਾਧ

ਫਿਨੀ ਵਿਦਾਸ਼ਨਿਰ



ਜੋਹਾਨਸਵਾਗ

ਸਤਾਧ

ਚਿੰਨਾ ਵਿਦਾਸ਼ਨਿਰ

ਗਿਆ—ਬਾ ਨ ਧਾਰ ਏਂ ਲਾ

ਗਿਆ—ਤ ਮਾ

ਪ ਸਰਪਤਿ ਬੇਦਾਲਪਾਰ

ਚਿਟੁਨਦਾਸ ਢਾ ਗਾਹਿਲ



ਜੋਹਾਨਸਵਾਗ

ਸਤਾਧ

ਚਿੰਨਾ ਵਿਦਾਸ਼ਨਿਰ



ਜੋਹਾਨਸਵਾਗ

ਸਤਾਧ

ਚਿੰਨੀ ਚਿੰਨਾ ਵਿਦਾਸ਼ਨਿਰ

जीवनभाई भ आय



जोहन सबग  
सरणा सत्य  
हिंदु विद्यामन्त्र

कमलदेवी



जोहनोसबग  
सत्य  
हि दी विद्यामन्त्र

नि ग—विद्याविभूषिता विगारदा

वलभाई मो राठोड



जोहनासबग  
सत्य  
हिंदी विद्यामन्त्र

छोटभाई न महेता



जोहनोसबग  
सत्य  
हिंदु विद्यामन्त्र

गिरा—गी टी

छाटभाई ला देसाई



जोहन सबग  
सत्य  
हिंदु विद्यामन्त्र  
गिरा—बी बाम

जान विक्टर यामसन



जोहनोसबग  
सत्य  
हिंदु विद्यामन्त्र

गिरा—ज सी

जीवनभाई गो पटल



जोहनोसबग  
सत्य  
हि दी विद्यामन्त्र

गिरा—मट्रिक

ठाकोरभाई अम्बादास



जोहनोसबग  
सत्य  
हिंदी विद्यामन्त्र

गिरा—मट्रिक

चाह्यामाई प्रे पटेल



जोहानीसवग

मन्मय

हिंना विद्यामनि

फिलिप जान यूकम



जोहानामवग

मन्मय

हिंना विद्यामनि

दलुभाई प पटेल



जोहानीसवग

मन्मय

हिंना विद्यामनि

मगनलाल डा पटेल



जोहान मवग

मन्मय

हिंना विद्यामनि

देवजीभाई उ मिस्त्री



जोहानामवग

मन्मय

हिंना विद्यामनि

गिरा—या ए बार ए ता

मथुरगवाद मू उदन



जोहानामवग

मन्मय

हिंना विद्यामनि

गिरा—य गा

प नरपति वेदालवार



जोहानीसवग

मन्मय

हिंना विद्यामनि

विठ्ठनगम ता गाहिल



जोहानामवग

मन्मय

हिंना विद्यामनि

### सुशीलादेवी धु भर्ट



जोहानोसवग

सन्स्था

हि दी विद्यामन्त्र  
गिक्षा—डी एस सी

### नरदेव वेंगलकार



दरबन

अध्या ।

हिन्दी गिक्षा मा

### हरिंकर आयुर्वेदालकार



जोहानोसवग

सन्स्थ

हिन्दी विद्यामन्त्र

### सुखदेवानंद परमेश्वर



दरबन

बापाध्यम

हिन्दी गिक्षा सम

### हेरोल्ड वरी किलिप



जोहानोसवग

सदस्य

हिन्दी विद्यामन्त्र

गिक्षा—एम ए पी एच डी डि निट  
सस्कृत विद्यालय

### वाल गणदा



दरबन

संयुक्त मत्री

हिन्दी गिक्षा सम

### सुधीरकुमार विद्यालकार



जोहानोसवग

सन्स्थ

हिन्दी विद्यामन्त्र

### अनुपमा ला रूपी



दरबन

सदस्या

हिन्दी गिक्षा सम

अम्बा वहिन दी गुवन



दरबन

मरम्मा

निंग गिरा मप

प आ शिवरतन



दरबन

मरम्मा

" निंग गिरा मप

प आर वी महाराज



दरबन

मरम्मा

निंग गिरा मप

किमनु स्पलात



दरबन

मरम्मा

निंग गिरा मप

एन नारायणराव



दरबन

मरम्मा

निंग गिरा मप

गिरधर गोपाल महाराज



दरबन

मरम्मा

निंग गिरा मप

एस गिवालव



दरबन

मरम्मा

निंग गिरा मप

दीपनारायण रामप्रसाद



दरबन

मरम्मा

निंग गिरा मप

दीपलाल वानू



दरबन

सत्स्य

हिन्दी गिरावधि संघ

भाणाभाई का पटेन्ट



दरबन

सत्स्य

हिन्दी गिरावधि संघ

देवनारायण रामप्रसाद



दरबन

सत्स्य

हिन्दी गिरावधि संघ

रणछोड व महाराज



दरबन

सत्स्य

हिन्दी गिरावधि संघ

नगीनदास पु देसाई



दरबन

सत्स्य

हिन्दी गिरावधि संघ

रामचंद्र महादेव सिंह



बलभरवड

सत्स्य

हिन्दी गिरावधि संघ

नरेंद्रकुमार रा दयाल



दरबन

सत्स्य

हिन्दी गिरावधि संघ

रामधनी मत्तई



दरबन

सत्स्य

हिन्दी गिरावधि संघ

विठ्ठलभाई लालभाई



लडाक्षमय

गन्धस्य

हिंदी गिरा सप

प एस जगमोहन सिंह



पीटरमेरिस बग

समाप्ति

शिवनारायण विग्रह



त्रिपकोत्त

गन्धस्य

हिंदी गिरा सप

दशरथ बघु



पीटरमेरिस बग

मत्री

शिवप्रसाद गणपत



दरबन

गन्धस्य

हिंदी गिरा सप

मगनभाई गो गिलीमोरिया



त्रिपा

बध्यम

मुम तराय विद्यालङ्घार



सोरेहो मारिक्षत

गन्धस्य

जिल्ही गिरा गप

मरनभाई जो पट्टन



त्रिपा

उगाप्रया

अथ जोगी



रावतगाय

रजाव दादा लोहार



पलूरु

रामराव माश्ती साळुखे



चोजवाडी

जम

१ अक्टूबर १९६

गिक्षा—एम एस सी प्रवेश



शातप्रकाश सत्यदास

घोडनदी

जम

२ जनवरी १९३३

गिक्षा—एस एस सी साहित्य विगारद

भैंसरलाल गग



पुसाथुरा

जम

८ अगस्त १९३२

गिक्षा—इटरमिडिएट

मोतीलाल ठठेरा



सामो

जम

८ नवम्बर १९३२

गिक्षा—इटरमिडिएट सा रत्न गास्ती

लक्ष्मीनारायण पुरोहित



उदयपर

जम

८ नवम्बर १९०८

गिक्षा—साहित्याचाय

हीरालाल वर्मा



नोखामडि

जम

शावण गुवड २

सप्तम् १९९६

गिक्षा—राष्ट्रभाषा परिचय

संयाराम वा शिवे



बलगाव

जम

१५ जुलाई १० १

गिरा—एम राम मा पी टा मा  
रा भा परिचय

वसत रा हरदास



बणी

गिरा—वी ए डिपटा विगारद

नद्युमार शास्त्री



रत गड

जम

११ निवार १०२०

गिरा—एम ए (निंमीमसृत) मा रत

विगनराम चोगलपर



नारड

जम

२६ मार १० ८

गिरा—माहिय विगार

मठिद्रनाथ वे राजूरकर



मादुरा

जम

२४ अप्र० १००८

गिरा—वा ए वा टा

पाटुरग रा वाघ



कझारा

जम

२७ निवार १ ५

गिरा—रा भा परिचय

आत्माराम पा वदम



दहणी

आपु—२ वा

गिरा—रा भा प्रवण

राज वर स ढायोर



विल्ना

जम

१ जुलाई १०२३

गिरा—इरमिहिएट रा जी कोदिद

अ न्य जोगी



रावसगांव

रजाव दादा लोहार



पलूद

रामराव मास्ती साळुखे



खोजवाणी

नम

१ अक्टूबर १९६६

निका—गम एस सी प्रवंग

ग्रातप्रकाश 'सत्यदास'



घोड़नदी

नम

२ जनवरी १९३३

निका—एस एस मी साहित्य विचार नाव्यतीय

भैंपरलाल गग



गलामपुरा

जम

८ अगस्त १०२२

निका—इटरमिडिएट

मोतीलाल ठठरा



सामो

जम

८ नवम्बर १९३२

निका—इटरमिडिएट सा रत्न शास्त्री

लक्ष्मीनारायण पुरोहित



उदयपर

जम

८ नवम्बर १९०८

निका—पाहित्यानेय

हीरालाल वर्मा



नोखासडि

जम

थावण गुलत २

सप्त १९९६

निका—राष्ट्रभाषा परिचय

सद्वाराम वा शिवे



बलगाव

जन्म

१५ जुलाई १९३१

गिरा—गम एम सा पी टी सी  
रा भा परिचय

वसत रा हरदास



बणी

गिरा—वी ए हिपटी विगारद

नदकुमार शास्त्री



रता गड

जन्म

११ निवार १०२९

गिरा—एम ए (हिन्दी-मञ्च) सा रत्न

विगनराव चागलवर



नोरह

जन्म

२६ मार्च १९८०

गिरा—साहित्य विगार

मठिद्रनाथ के राजरवर



नादुरा

जन्म

२४ अप्रैल १९०८

गिरा—वी ए वा टी

पाहुरग रा वाघ



वडारा

जन्म

२७ सितम्बर १० ५

गिरा—रा भा परिचय

आत्माराम पा वदम



इहणी

आयु—३२ वर्ष

गिरा—रा भा प्रवण

राजेवर स दाखोरे



चिरना

जन्म

१ जनाई १९२३

गिरा—दमरमिहें रा सा कोदिं

## सौमदत्त गर्मा

धनु  
जम

१ जनवरी १९२९

गिरा—महिला ज बी टी  
रा भा काविं

## ईश्वरीदत्त 'वाशिष्ठ' गास्त्री



योल छावनो

जम

३ अगस्त १९२२

गिरा—गास्त्री प्रभावर ओ टी  
महेंद्र गि आमर

बस्वई-२२

जम

४ अक्टूबर १९३५

गिरा—एम बाम बी ए (आनम)  
सा रल  
गगाराम प कंगजी

पल्नुर

जम

१० जनवरी १९४८

गिरा—फ्टर (साइस) रा भा कोविं

## विणु रा देवगिरीदत्त



विजापूर

जम

११ जून १९४१

गिरा—एम एम एन बी  
रा भा काविं

## कपूरचाड गोयल



अस गू टोंड

गिरा—रा भा काविं मार्हिं सुधाकर  
राधश्याम त्रिपाठी

अल गढ

जम

२५ मार्च १९३६

गिरा—साहित्य सुधाकर बी एस टी सी

## महादेव बा पालकर



बत्टौणल

जम

६ सितम्बर १९३४

गिरा—रा भा रल  
मारतीय हिंदी पारंगत

## गुलावचद म रेफड



नादेड

जाम

२ जून १९४६

गिरा—ग भा कावित

## गगाराई कुलवर्णी



नादेड

जाम

१ जून १९०

गिरा—मर्क भयण

## ललिता गमचद्रन



नादेड

जाम

१५ मिनम्बर १३८

गिरा—ग एम सा रा भा कावित

## मुरलीधर न बुतभीवर



नादेड

जाम

१६ अप्रैल १४६

गिरा—र भा रत्न ( प्रथम घण्ड )

## जनरो



नादेड

जाम

१२ सिनम्बर १९०

गिरा—मुक टुण्ड भयण

## श्यामनाल वी राठीर



नादेड

जाम

७ अगस्त १०३०

गिरा—एटरमिनिएट माहिय विगार

## रामचंद्रप्रसाद सिह



रहा

जाम

१ जनवरी १२९

गिरा—वा ए मा रन माहिय विगार

## नरेन्द्र म निळ



चंदा

जाम

२८ मिनम्बर १०३०

गिरा—वी ए ग भा रत्न विगार

## सोमदत्त गर्मा

पहुंच  
जम

१ जनवरी १९०

गिरा—मट्रिव ज बी टी  
रा भा कोविं

ईश्वरीदत्त 'वाशिष्ठ' गास्त्री



योल छावनी

जम

३ अगस्त १९२२

गिरा—गास्त्रा प्रभाकर ओ टी  
महेंद्र गि आशर

वस्त्रई-२२

जम

४ अक्टूबर १९३५

गिरा—एम बाम बी ए (आनस )  
सा रत्न

गगाराम प कगजी



पहलूर

जम

१० जनवरी १९४

गिरा—चॉटर (साइस) रा भा कोविं

## विणु रा देवगिरीर



विनापुर

जम

११ जू १९४१

गिरा—एम एग एन भी  
रा भा काविं  
कपूरचाद गोयल

अल गड टोर

गिरा—रा भा काविं मानिंथ सुधाकर  
राधइयाम त्रिपाठी

अल गड

जम

२५ मार्च १९३६

गिरा—साहित्य सुधाकर बी एस टी सी

महादेव बा पालकर



बलहोंगल

जम

६ मित्स्वर १९३४

गिरा—रा भा रत्न  
भारतीय हिंदी पारगत

### गुलावचद म डफडे



नादेढ

जम

२ जून १९४४

गिरा—ग भा कावित

### गगाराई कुलवर्णी



नादेढ

जम

२ जून १९०

गिरा—मट्रिक भयण

### ललिता गमचार्दन



नादेढ

जम

११ सितम्बर १९८८

गिरा—राज गम सा रा भा कावित

### मुरतीधर न कुत्तीकर



नादेढ

जम

१६ अप्रैल १९४६

गिरा—रा भा रन ( प्रथम घण्ट )

### जनत्री



नालंड

जम

१० सितम्बर १००

गिरा—भिंव टुळ भयण

### यामतार बी राठीर



नादेढ

जम

७ अगस्त १९०

गिरा—जगमिजिण गार्हिय विगार

### रामवरप्रसाद मिह



राम

जम

१ नवंबर १९०

गिरा—वा ग भा रन गर्हिणी

### नरद्र म निझ



राम

जम

—

गिरा—रे ग — — —

शिघरचाद जन



इवोर  
जम  
६ जुलाई १९०७

श्रीमती कृष्णादेवी नगा



जप्पुर  
जम

मिल्डर १०१८

पिा—नाविन

श्री टीकेश्वर गुर

भवानी पाटला

जम

२९ सितम्बर १०३४

गिरिधारा—राष्ट्रभाषा काविन

—

